

श्री किर्तिचंज्जी कृत-

किर्ति कमला स्तवनावली.



किम्मत एक रुपैया.

श्रीकीरतीकमला.

यह पुस्तकमें चैत्यवदनो स्तवनो स्तुतिओ
सन्नाओ गुहलीओ छदो वैराग्यमय
पदो विगेरे वाचतोका अच्छा
समास कीयाहै

आवृत्ति पहेली प्रत एक हजार
गाह लखनऊ कृष्णमन्दिर

ब्रवेरीवाडी निशापोल अमदावाद

श्वलोकी मारफन;

छपानेवाला

श्रावक लालचंदजीक सुपुत्र—
चोधमल चुनलाल; मारवाड जालोर

अमदावाद-युनियन मुद्रायत्रमें मुद्रित कीया

सन्त १९६१

सन् १९०५

किम्मत एक रुपैया

संवत् १९६० नां वैशाख वदी १२ नां दीवसे ११ वा-
गता श्री किर्त्तिचंद्रजी महाराज त्रंसठ वर्षनी पुख्त उ-
म्मरे श्री जालोरगढमां पंचत्व पाभ्या; अग्निदाह दंवामां
भाव्यो ते जग्थाए तेमना संसारी नहाना भाइ पन्नाला-
लजीनां सुपुत्र फोजमलजीए छत्री करावी !

आ परलोकवासी महात्माने हवे आपणे कोइ दीवस
देखवानां नथी, तेथीज तेमनी यादी कायम राखवा अथवा
तेवा महान् पुरुषांनां गुण ग्रहण करवां आ महात्मा
पुरुषनुं चरित्र श्रावकोए लखावी छपाववुं जोइये ?

आ पवित्र महात्मा पुरुष आशरे वीस पचवीस ह-
जार श्लोकनो “किर्त्तिचंद्राभिधान” ए नामनो ग्रंथ घणीज
रसीक भाष्याथी लोक हितार्थे वनावी गया छे ? ते ग्रंथ
हाल सारा अक्षरथी लखाइ तैयार थाय छे, अने पछी श्रद्धालु
श्रीमंत श्रावकोनी सहायताथी प्रगट करवामां आवशे ?

आ “किर्त्तिकमला” ग्रंथनां (५००) पांचलो पुस्तक
श्री जालोरगढनां ओशवाल ज्ञातीय श्रावक हीराचंदजी
अने तेमनां पुत्र लालचंदजी अने तेमनां पुत्र चोथमलजी
तथा चुनीलालजीए पोताना पूज्य मातुश्री अकुवाइ संवत्
१९५८ ना पोश वदी १३ ना रोज आ फानी दुनीयानो त्याग
करी स्वर्गे सिद्धाव्या तेमनी यादी कायम राखवा श्रावक
गोरुरामजीना उपदेशथी पोताना खर्चे छपाव्या छे.

अने बीजा पांचसें पुस्तको खरीदनारनां नाम पाछळ
दाखल कर्या छे, तेनो श्रावक श्राविका वांची शांभली लाभ
लेशे तो प्रसिद्ध कर्त्तानो परिश्रम लेखे गणाशे. एज अरज-
पत्र व्यवहार,—श्री-किर्त्तिचंद्र पाठशाला तरफथी.

मुत्ता गोरुरामजी नमेदमल्लजी.- मु. जालोरगढ.

॥अथ चैत्यवंदन समुच्चय.॥

॥ श्री बीजनुं चैत्यवंदन ॥

बीज तिथी अती दीपती, ज्ञाखी वीर जिणं-
द; अग्निनंदन प्रभु जन्मीया, चविया सुमती जि-
णंद ॥१॥ सीतल जिनवर साहिवा, पाम्या मु-
क्ति वास; वासुपूज्य लहे यह तिथे, केवल ज्ञान-
ज खास ॥२॥ अरनाथ चव्या एह तिथे, दोय बं-
धण दीया छोरु; निश्रयने व्यवहारथी, धर्म पक्ष
लह्यो जोरु ॥ ३ ॥ छविध धर्म प्रकासीयो, साधू
श्रावक सार; दोय नये आराधतां, नवियण लहे
नवपार ॥४॥ दोय वरस तप कीजिये, उपर वलि
दोय भास; समकित तरुवर संपजे, शिव सुख
संपती वास ॥५॥ चौविसमां जिनराजजी, ज्ञा-
ख्यो तप हितकार; आदर करी आराधतां, किर्ति
चंड लहे सार ॥ ६ ॥

॥ श्री पंचमीनुं चैत्यवंदन ॥

पंचमी दिन प्रभु जन्मीया, नेमी जिणंद जग
 ज्ञाण; अजित अनंत शंभव लहे, पंचमी गती
 गुणखाण ॥१॥ सुविधी जिनेश्वर जन्मीया, शं-
 भव केवलनाण; दीक्षा कुंथुजिन ग्रहे, चंद्रप्रभ च
 वन कळयाण ॥२॥ पंचमी तप वली कीजिये, पं-
 च वरस पंच मास; जाव जीव लगि जे करे, पा
 मे ज्ञान हुल्लास ॥३॥ आगम पांच प्रकारनां, सू-
 त्र निर्युक्ती सार; टीका ज्ञाप्यने चूरणी, पंचम
 अंग मज्जार ॥४॥ ठंडे पंच प्रमादने, पंचमीगती लहे
 तेह; वीर प्रभु मुज दीजिये, किर्त्तिचंद्र शिवगेह ॥

॥ श्री अष्टमीनुं चैत्यवंदन ॥

अष्टमी तप आराधतां, अष्ट कर्म करे दूर;
 अरु बुद्धी सिद्धी लहे, पामे सुख नरपुर ॥१॥ म
 द आठे अलगा तजी, देखीये दृष्टी आठ; आ-
 त्मा आठे जाणीये, जिम पामो शिव वाट ॥२॥
 प्रवचन माता आठने, आदरीये मन रंग; आठ

शाह लल्लुभाइ वल्यमदास झवेरीवाड नीशापोल अमदावाद ७

नाएने ओलखी, शिव सुंदरी करो संग ॥३॥ आठ
जोजन जाणी कही, सिद्धसिला गुणखाण, आ
ठ दोष अलगा करी, चसीया सिद्ध ते ठाण ॥४॥
आदि जिनेश्वर जन्मीया, दीक्षा ए तिथि जाण;
अजित सुमती वली जन्मीया, शंजव चवन क-
ड्याण ॥५॥ अजिनंदन प्रभु पासजी सुक्ती ग-
या महाराज; चवन सुपार्श्व जाणीये, नमी ज-
न्म तिथि आज ॥६॥ सुनीसुव्रत जिन जन्मी-
या, नेमी तणो निर्वाण; संप्रती जिनना जा-
णीये, कड्याणक गुणखाण ॥७॥ अष्ट प्रतिहार्य
शोभता, वीरजिनेंड अजंग; अष्टमी महिमा आ-
खीयो, किर्तिचंड दिल रंग ॥८॥

॥ श्री एकादशीनुं चैत्यवंदन ॥

उत्तम तिथी एकादशी, जाखी नेमी जि-
शंद; मुक्ति वधुनो मांडवो, आदरे करून नरिंदा ॥

१ ॥ कड्याणक जिनराजनां, दोढसो इण दिन
जाण; ध्यान धरो मन वश करी, पनरे सहस्र प्र

८ घणी जातनां जैनी पुस्तको वनावनार तथा वेचनार-

माण ॥२॥ अरजिणंद दीक्षा ग्रही, नमीने के-
वल नाण; जन्म दीक्षा केवल लह्यो, मल्लिजि-
णंद जग ज्ञाण ॥ ३ ॥ अरतादिक दश क्षेत्रमें,
कल्याणक पंचास; अतीत अनागत मेलतां, दो-
ढसो गणीये खास ॥४॥ नमतां नेवुं जिणंदने,
सुव्रतनी परे जेह, मन वच काया स्थिर करी,
किर्त्तिचंद्र गुण गेह ॥ ५ ॥

॥ श्री चतुर्दशीनुं चैत्यवंदन ॥

सकल अर्हत् प्रणमुं सदा, चतुरदशी सु-
खकार; उत्कृष्टा अढीद्वीपमां, पत्रे क्षेत्र मजार
॥१॥ एकसो सित्तर जिनवरा, जघन्य पदे वली
वीस; सीमंधर आदे सदा, नित्य नमावुं सीस
॥२॥ दक्षिण अरते वंदिये ऋषन्न अजित अरि-
हंत, संजव अग्निनंदन वली, सुमती पद्म महंत
॥३॥ श्री सुपार्श्व चंद्रप्रभु, सुविधो सितल नाथ,
श्रीश्रेयांस जिनेश्वरु, वासु पूज्य विख्यात ॥४॥
विमल अनंत वंडु सदा, धर्म शांती नर धार; कुं-

शाह लल्लुजाइ वल्यमदास झवरावाड नाशापाल अमदावाद९

थु अर मद्धी प्रभु, सुनीसुव्रत मनुहार ॥ ५ ॥

नमी नेमी प्रभु पासजी, चौवीसमा श्री वीर;

चौतीस अतिसय ओपतां, पेंतीस गुण गंजीर

॥६॥ शंभव जिनवर जन्मीया, अजिनंदन लहे

नाण, सीतल केवल पामीया, कुंथु जन्म कळयाण

॥७॥ वासुपूज्य सुक्ते गया, जन्म तिथी एह जा-

ण; शांती अनंत दीक्षा ग्रहे, अनंतजिन केवल

नाण ॥८॥ चौदश दिन तप जे करे, परखी तणो

उपवास; गुण ठाणो लहे चौदमो, पामे शिवपुर वास

॥९॥ शासन नायक शोचतो, व्हालो वीर जिणंद;

किर्त्तिचंद्र मोये दीजिये, शिव रमणी सुखकंद ॥

॥ श्रीरोहिणी तप चैत्यवंदन ॥

तप करीये रोहिणी तणो, स्थिर करी मन वच

काय; पूजो जिनवर बारमां, वासुपूज्य जिनराय

॥१॥ रोहिणी नक्षत्रने दिने, चौविहार उपवास,

पूजा अष्ट प्रकारनी, वासक्षेप वलो खास ॥ २॥

सगवीस लोगस काडसग, कीजे मनने रंग, सा

त वर्ष सात मासनो, कीजे तप अजंग ॥ ३ ॥

स्वस्तिक सगवीस कीजिये, धरिये शीयल ज-
गीश, आरंज सघलो गंडीने, नोकारवाली वीस

॥४॥ पद्मप्रभु जिनराजजी, जाप्यो ए अधिकार;

पुन्य हेते जवि प्राणीया, किर्त्तिचंद्र जग सार ॥५॥

॥ श्री पर्युषणपर्व चैत्यवंदन ॥

पर्व पजूसण आवीया, कीजे व्रत पञ्चखाण;

अठ्ठाइ दिन अती जलो, पोषा सहित प्रमाण ॥१॥

अठ्ठाइ महोत्सव आदरे, शुणीये सद्गुरु पास; व-

ने कल्प वली कीजीये, ठठ तणो तप खास

॥२॥ जन्मोत्सव श्री वीरनो, दीक्षा केवल ज्ञान;

पार्श्व नेमी वली अंतरा, आदिनाथ व्याख्यान.

॥३॥ संघ चतुर्विध एकठा, मिलिये सद्गुरु पास;

सूत्र शुणो मन वस करी, पूगे वांछित आश

॥४॥ चउठ ठठ अठम करी, शुणिये थिर करी

चीत्त; इकवीस वार आराधतां, ते पामे सुख नीत्य

॥५॥ सिंघारथ कुल शोभतो, स्वामि वीर जिणंद;

आइलल्लुजाइ वल्यमदास अवेरीवाडानीशापोल अमदावाद १ ?

अठाइ महोन्नव आखीयो, किर्त्तिचंद्र सुखकंद. ६

॥ श्री वीसस्थानक चैत्यवंदन ॥

वार गुणे अरिहंतजी, प्रणमीजे भावे; सि
६ आठ गुण समरतां, डुख दोहग जावे ॥१॥ पद
तीजे पवयण तणा, पीस्तालिस सुचंग; सूरिगुं-
ण ठत्तीस सही, ध्यावो ज्ञवी मनरंग ॥ २ ॥ अि
वर वली पद पंचमे, दश गुणे जे शोन्नंत; पच-
वीस गुण उवजायना, ठठे पदे महंत ॥ ३ ॥ सकल
साधु पद सातमें, सगवीस गुण सुखकार; नमो
नाणस पद आठमें, पांच गुणे श्रीकार ॥ ४ ॥
नवमें पद निर्मल जपो, दर्शन जेह सुखकंद, स-
रुसठ गुणे शोन्नतो, पामे परमाणंद ॥ ५ ॥ पद प्र-
णसुं दशमें वली, विनय गुण अन्निराम; चारित्र
पद अग्यारमें, सत्तर गुणे सुजाण ॥ ६ ॥ वंभवय
गुण वारमें, नव गुण निश्चय जेह; पचविस गुण
किरियातणा, तेरमें पद वली तेह ॥ ७ ॥ पद चौद
मो सुखकरु, तवस्त तिलक समान; वार गुणे

जे आदरे, पामे परम निधान ॥ ७ ॥ पन्नरमें पद
 प्रणमीये, गोयम गुरु गुणखाण; अठावीस गुण
 अती ज्ञला, आपे नवे निधान ॥ ९ ॥ जिणाणं
 पद जपीये सदा, चन्नवीस गुण चित धार; नमो
 चारित्र पद सतरमें, तेहनां पांच प्रकार ॥ १० ॥
 नमो नाणस अठारमें, एकावन गुणसार; सुअस
 पद उगणीसमें, तेनां सो गुण धार ॥ ११ ॥ वी.
 समे पद प्रणमुं वली, तीथ्यस तेहनुं नाम; पंच-
 वीस गुणे ध्यावतां, सीजे वांछीत काम ॥ १२ ॥
 तिर्थंकर पद ते लहे, जे करे तप मनुहार; नोकर
 वाली वीस वीस, पदे पदे श्रीकार ॥ १३ ॥ कीजे
 काजसग मन रली, जेहनां गुण वली जेह; कि-
 र्त्तिचंड समरे सदा, दीजे तप विधि एह ॥ १४ ॥

॥ श्री नवपदजीनुं चैत्यवंदन ॥

अहं पद आदे नमुं, बीजे सिद्ध सुजाण;
 सूरी वाचक शोभतां, पंचम पद मुनी जाण ॥ १ ॥
 दर्शण नाण अती दीपतो, चारित्र तप सुखकार;

शाहलल्लुभाड वल्यमदास झवेरीवाढानीशापोल अमदावाद १३

वार आठ ठत्तीस सही, पणवीस सगवीस धार
॥१॥सरुसठ इगवन शोजतां, सीत्तर वार प्रकार,
अष्ट कमल दल थापीने, ध्यावो हृदय मजार ॥
३॥ सिद्धादिक पद चिंहु दिसे, मध्ये अरिहंत देव;
दर्श नाण चारित्रिने, तप विदिशीये शेव ॥ ४ ॥
नुं ह्रीं अक्षर संयुते, दिन प्रत्ये दोग हजार; सिद्ध
चक्र शुण्य साहिवा? किर्त्तिचंड केहे तार ॥ ५ ॥

॥ श्री पंचतिर्थिनुं चैत्यवंदन ॥

विमलाचल गिरी वंदीये, आदीनाथ अरि-
हंत; रेवंत गिरी राजे सदा, ब्रह्मचारी जगवंत ॥
१॥ आवू तीरथ अती जलो, जेव्या लहे जवपार,
जिन चौविसे वंदीये, अष्टापद श्रीकार ॥२॥ स
मेतगिखर गिरी ऊपरे, सिध्या जिनवर वीस,
वामुपूज्य चंपापुरी, आपे पदवी जगीश ॥३॥ पावा
पुरी श्री वीरजी, भवडुख नंजनहार; चैत्य नमु
जिनराजनां, तीनुही लोक मजार ॥ ४ ॥ चरिम
जिणंदे जाखीया, सास्वतासास्वत जेह; किर्त्ति-

१४ श्री चतुर्थस्तुति निर्णय संकोद्धार किं. अढीरुपैया-

चंड मोये दीजिये, शिव सुंदरी वर गेह ॥५॥

॥ श्री सीमंधरजिन चैत्यवंदन ॥

प्रातःसमे नित्य प्रणामीये, श्रीसीमंधर स्वा
म; मन विकसे तन हुद्धसे, लीजंते जसु नाम ॥
१॥ युगमंधर नमु ज्ञावशुं, जगतारण जगनाथ;
बाहु जिनेश्वर ध्यावतां, अपि शिवपुर साथ ॥२॥
चोथा सुबाहु जिनेश्वरु, जयवंता जिन चार;
जंबु द्वीप विदेहमां, वंड वारंवार ॥३॥ दस लाख
केवल धरा, साधु सो सो क्रोड; विहरमाननी सं
पदा, वंडु बे करजोड ॥४॥ ज्ञर्तक्षेत्रमां हुं वश्यो,
दीजे दरिशाण देव; किर्त्तिचंड कहे साहिबा, जव
जव तारी शेव ॥५॥

॥ श्री वीसवहरमानजिन चैत्यवंदन ॥

श्रीमंधर युगमंधरा, जयवंता जिनराज;
बाहु सुबाहु वंदता, सारे वांछीत काज ॥ १ ॥
जंबुद्वीपे विचरतां, उपकारी अरिहंत; धन ते
नर वाणी शुणे, त्रिगडामें धरी खंत ॥२॥ सुजात

शाहलल्लुजाइ वलयमदास झवेरीवाढानीशापोलअमदावाद १५
 स्वयं प्रज्ञ वंदीये, ऋपज्ञानन मनुहार, अनंतविर्यने
 सुरप्रज्ञ विशाल वज्रधर सार ॥३॥ चंज्ञानन चित
 धारोवे, धातकी खंडे जेह, मुज मन आशा द-
 र्शकी, जिम मोरा मन मेह ॥४॥ चंझवाहु जुजं-
 गजी, ईश्वर नमी प्रज्ञ स्वाम; वीरसेनने महाज-
 सा, चंझजसा गुण धाम ॥ ५ ॥ अजितविर्य प्र-
 णसुं सदा, पुष्करघ्नीपे जिणंद, देव रचित वर आ-
 सने, वैसे त्रिजूवन चंद ॥६॥ वीसे जिनवर वंद
 ता, वाधे वुधे अपार; अलिय विघन दूरे हरे,
 जेहथी जयजयकार ॥७॥ रागादिक जे दोषथी,
 विरम्या जे जगवान, किर्त्तिचंझ सम निरमलो,
 केशरविजे सुज्ञान ॥८॥

॥ श्री मंधरजिन चैत्यवंदन ॥

शिवसुख दाता सुहंकरु, श्रीमंधर जिनरा
 ज; विचरे पूर्व विदेहमें, पुखलावतीये आज ॥१॥
 वीस लाख पूरव लगे, कुंवरपणे श्रीकार; त्रेसठ
 लाख पूरव वली, पाली राज उदार ॥२॥ त्रया

३६ ❀ विविधपूजासंग्रह देववंदनमालासाथे किं. सवारूपैयो.

सी लाख पूरव पठे, लीधो संजम नार; तप त-
पी केवल पामीया, चरण करण चित धार ॥३॥
जलहल जानू जगीयो, महा माहण महागोप;
निर्यामक सथवाहतुं, अशुभ कर्म कर लोप ॥४॥
उदयपेढाल जिन अंतरे, पामशे प्रभु निरवाण;
किर्त्तिचंड कहे दीजीये, निर्मल दरिशाण नाण ॥५॥

॥ श्री मंधरजिन चैत्यवंदन ॥

पूर्व दिशि श्शान कूण, पुस्कलमें विजया;
नयरी पुंडरिगिणी तिहां, सीमंधर थुणीया ॥१॥
पूर्वायु चौरासीलख, कांचन मय काया; उंचपणे
सय धनुष्य पंच, प्रणामे सुरराया ॥ २ ॥ जयवं-
ता जिन विचरतां, केवल दीपक देव; श्री सीमं-
धर स्वामोजो, देजो तुम पद शेव ॥ ३ ॥ वीस
लाख पूर्व कुंवरवास, जोगवी जिनेश्वर; त्रेसठ
लाख पूर्व राजरिद्ध, पाली अलवेश्वर ॥४॥ मुनी
सुव्रतजिन विहरमान, तईये तुम दीक्षा; तीर्थकर
शुद्ध लहिय स्वामी, महियल द्यो शिक्षा ॥ ५ ॥

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास झवेरीवाढानीशापोलअमदावाद १७.

एह अमे ओलग करू, शुणज्यो वीजा चंद; वंदणा
हमारी वीनती, जइ कहेज्यो जिन चंद ॥६॥ समव
सरण वेठा जिणंद, उपदेशे जिन धर्म; जविकजिव
वाणी शुणी, वांघे जे शुज्ज कर्म ॥७॥ आठ कर्म
चारे कपाय, अठार दोष ठडाय; लही नाण चौतिस,
अतिसया, वाणी गुण कहेवाय ॥८॥ जर्त्तक्षेत्रनां
जविकजन, वांछे तुम आशिष; हर्षपणे धर्म ला
ज द्यो, पूरो संघ जगीश ॥ ९ ॥

॥ श्रो विमलगिरी चैत्यवंदन ॥

आदिनाथ जगनाथ, विमलाचल मंरुन, ज-
यनाजि कुलाकाश, प्रकासन दिवाकर ॥१॥ तव
देव पदा जोज, शेवापि दुर्लजा जवेत्त; पून्य सं-
ज्जार हीनानां, कळपवळ्ळी वदेहिनां ॥२॥ ते धन्या
मानवा देवाये, अगमं तव शासनं; वंदनीया विजा-
तोये, वंदंते जवतःपदौ ॥३॥ प्रचंरु मम रागादि, रिपु
संतती घातकं, श्रीयुगादि जिनाधोशं, देवं वंदे मुदा
सदा ॥४॥ श्रीसत्रुंजय कोटीर, कृतं राज्य श्रिया

१८ श्रीरसिकस्तवनावली रागरागणीसाथे किं एकरूपैयो.

विज्ञो; सर्वो घनासनं मेस्तु, शासनं ते ज्ञवे ज्ञवे ॥

॥ श्रीऋषज्जिन चैत्यवंदन ॥

विनीता नयरीनो घणी, नाज्ञीराय कुल-
ज्ञाण; मरुदेवी माता जन्मीयो, त्रिभूवन तिल-
कसमान ॥१॥ राणपुरे वंड सदा, ऋषज्जदेवमहा-
राज; कर्म पडल दूरे हरे, सारे वांछीत काज ॥

॥१॥ वृषज्ज लंछने शोभतां, सोवन वरण शुजाण,
केशरविजे ध्यावे सदा, अविचल सुखनुं ठाण ॥३॥

॥ श्री राणकपुर जिन चैत्यवंदन ॥

जुगी प्रज्ञाते आतमां, ध्यावो आदीनाथ; वि-
षन विडारण सुखकरण, आपे शिवपुर साथ ॥१॥
नंदन नाज्ञी नरिंदनो, देवनो देव दयाल; उदया-
चलपर जुगीयो, कर्म परुल द्यो टाल ॥१॥ राणपुरे
अतो रंगशुं, जेट्या प्रथम जिणंद, किर्तिचंड क-
हे दीजिये, अविचल पद आणंद ॥३॥

॥ श्रीगोल आदीजिन चैत्यवंदन ॥

ऋषज्ज जिनेश्वर साहिबो, उपकारी अव-

तार; जगमें कोइ वोजो नही, तुज सम तारणहार
 ॥१॥ नाज्जी नंदन जग जयो, मरुदेवा ऊर हार; अ-
 लख अनोपम ताहरी, मुझ सुंदर प्यार॥१॥ लंछन
 घोरि विराजतो, पुरगोले सुखकार; केशरविजे क-
 हे साहिवा, वांछ्य ग्रही मुज तार ॥३॥

॥ श्रीवासुपुज्यजिन चैत्यवंदन ॥

वासुपूज्य चित्तमें वस्यो, मनहर मोटा देव, अण-
 हुत कोडी एक सूर, निशदिन करतां शेव ॥ दी-
 जिये दरिशाण ज्ञान मुज, महेर करी महाराज;
 चारित्र तप चुंफे करी, जवोदधी पार उतार॥१॥
 चंपापुत्री सिध्या तुमे, वारमां जिन सुखकार; ध-
 र्म विजय मोये दिजिये, मुक्ती वधु जरतार॥३॥

॥ श्रीशांतिजिन चैत्यवंदन ॥

शांतिजिनेश्वर साहिवा, सुखकारी सुखकंद; जे-
 ध्या जवज्जीती जगी, आज जयो आणदश ॥ मु-
 र्ति मोहन वेलडी, कामकुंज सुखकार; रत्न चिं-
 तामणी सारिखो, दीगो तुम दीदार ॥ अचिरा सु

२० पदार्थसुधा सिंधुतरंग वर्ग पहेलो किं. एक रूपैयौ-

त त्रिभूवन तिलो, जगनायक जिनराज; धर्मवि
जय मोए दीजिये, शिवरमणी महाराज ॥३॥

॥ श्रीअजितशांति चैत्यवंदन ॥

मनमोहन प्रभु माहरो, जय जय शांतिजिणंद;
नयर धानेरे निरखतां, नपज्यो परमानंद ॥१॥ गज
पुर नगरीनो धणो, विश्वसेन कुलचंद; एकण न
वमें जोगवी, त्रण पदवी सुखकंद ॥ चालीश ध
नुष्यनी देहडी, कांचनवरणी काय, अचिरा नंदन
जगजयो, लाख वर्षनुं आय ३ ॥ विजया सुत वली
वंदीये, अजितनाथ अरिहंत; नामे नवनिध संप-
जे; पामे पद्मी महंत ॥४॥ दीजिये शेवा दासने, न
वज्रव मांहे जिणंद; निशदीन ध्यावे ध्यानमें,
किर्त्तचंड सुखकंद ॥ ५ ॥

॥ श्रीशांती जिन चैत्यवंदन ॥

शांती जिनेश्वर समरतां, सुखआवे नरपूर; दिन
दिन आनंद अति धणो, वाधे वधतुं नूर १ ॥ सात
राज उंचा जई, वसिया शिवपुर ठाण; शुभ नि

भाइलल्लुजाइ वल्यमदास ऊवेरीवाढानीशापोलअमदावादरे १

जरे करि साहिवा, दीजिये दरिशाण नाण॥ बरे
जेदे तप वली, संजम सत्तर प्रकार; सोलमोजिन
शेव्या थकी किर्तिचंड जयकार ॥३॥

॥ श्रीपार्श्व जिन चैत्यवंदन ॥

शेवो पार्श्व चिंतामणी, संखेश्वर श्रीकार; वरका-
णे वंडु सदा, आपे रिद्धी अपार॥ थंजणपुर वंडु
वली, जीरावलो जगनाथ; अमोऊरो पंचासरो,
आपे शिवपुर साथ॥ डुआ पार्श्व जिन पेखतां, फल
वरधी करे आप; अंतरिक्त त्रिभूवन धणी, टाले
पाप संताप॥ मक्कीमंरुण पासजी, मालवदेश म-
ऊर; ठमीनो सुगोत्रे सदा, मेवाडे श्रीकार॥ करे
डा पारस पेखतां, नाकोडे वली जाण; अजाथरो
प्रभु जेटतां, आपे पद निरवाण ॥५॥ पार्श्व प्रभु
जिनराजनां, नाम तणो नही पार; गुणगाया
गोमी तणा, आहोर नयर मोजार॥६॥ इगतालो
आशोजमे, पूनम दीन प्रसिद्ध; किर्तिचंड ध्यावे
सदा, आपो अविचल रिद्ध ॥७॥

॥ श्रीजाखोर पार्श्वजिन चैत्यवंदन ॥

वामासुत वंदू सदा, पुर जाखोरे पास; गुणमणी
 गोमी साहिबो, पूरे मनकी आश ॥१॥ दिल इहे
 दरिशाण ज्ञणी, मनमां मोटी खंत; महिर निजर
 मोपे करो, ज्ञय ज्ञंजण ज्ञगवंत ॥२॥ तुज दरिशाण
 देख्यां थकी, नाग लह्यो सुरठाण; जरा जादवा
 मिटगई, जलतरीया पाषाण ॥३॥ कुमतमती मद
 ज्ञंजणो, नीलवरणठे देह; धर्मविजय मोये दीजि
 ये, शिवरमणी सस्नेह ॥ ४ ॥

॥ श्रीआहोर पार्श्वजिन चैत्यवंदन ॥

श्रीजिन पार्श्व चिंतामणी, आहोर नयर सुहाय;
 प्रज्जु शेव्या पातिक टले, डुख दोहग सवी जाय ॥
 शनील वरण अति शोन्नतो, अहि लंछन सुखदाय;
 अश्वसेन कुल सेहरो, वामा मात कहाय ॥ सो
 वर्षनो प्रज्जु तुम तणो, आयु अतो बलवंत; कर्म
 कठिणने परिहरी, पाम्या पद्यो महंत ३ नागार्जु
 न जोगो तणो, विद्या थइ ते सिद्ध; त्रेविसमां प्र

शाहल्लुभाइ वल्यमदास झवेरीवाढानीशापोल अमदावादर३

जु मुज जणी, आपो अविचल रिद्ध॥ त्रेविसमां
जिन शोभतां, शेवित सुरनरवृंद. केशरविजेकहे
दीजिये, शिवसुंदरी जिन इंद ॥५॥

॥ श्रीज्ञेसवामा जिन चैत्यवंदन ॥

वामा नंदन वंदिये, पुर ज्ञेसवामे पास; काटे क
र्म कलंकने, आपे शिवपुर वास १॥ पासजिनेश्व
र पेखतां, निर्मल थावे बुद्ध; नामे नवनिघ संप-
जे, पामे समकित शुद्ध २॥ समेतशिखरगिरि ऊ
परे, पाम्या पद निरवाण; नेक निजर करी दी-
जिये, किर्त्तचंद्र सुख खाण ॥ ३ ॥

॥ श्रीजालोर जिन चैत्यवंदन ॥

प्रणमुं पास जिनेश्वरू, वामानंदन देव, कमल ज
मर पर अमर सहु, सुरपति सारे शेव १॥ तीन जू
वनमें तुम समो, अवर न को आधार; दीपे दिन
कर सम प्रज्जू, वांछीत पूरणहार ॥२॥ आघी व्या
घी उपसमे, सत्रू थाय संहार; मीत्र मिले मन
मेलथी, रिही सिही जसु सार ३॥ जुक्ती सहित

जालोरमें, जेटया गोमी पास; अनुजव इंडु ऊ-
गीयो, सोल कलाए खासधा॥ सुखकर गोडीपास
जी, शुणीये अरजी एह; किर्त्तिचंड कहे दीजिये,
संपत्ति सुखनुं गेह ॥ ५ ॥

॥ श्रीचाणोद जिन चैत्यवंदन ॥

प्रणमुं पास जिनेश्वरू, पुर चाणोद मऊार; सप्त
फुणो शोत्रे सदा, वांछीतनो दातार॥१॥ अश्वसेन
कुल चंदलो, विश्वत्रयी आधार; अद्भुत आनंद
ऊपन्यो, तुज दरिशाण सुखकार॥ प्रीती चाहू तुम
तणी, वामानंदन देव; केशर विजेने दोजिये,
अविचल पद नित्य मेव ॥ ३ ॥

॥ श्रीवरकाणा जिन चैत्यवंदन ॥

त्रिभूवनपति त्रेविसमो, श्रीवरकाणे पास; बंधन
त्रोमे जव तणा, पूरे वांछोत आश॥१॥ चैत्र वदी
चौथी दिने, अवतर्या आधी रात; दशमां प्राणंत
कल्पथी, वामा जेहनी मात॥ पोष वदी दश-
मी दिने, जनम्या पार्श्व कुमार; अश्वसेन कुल

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास श्वेरीवाढानीशापोल अमदावादरुप

दिनकरू, नपकारी अवंतारं३॥कमठ तणो मद गा
लिने, तार्यो नाग तिवार, नवकारमंत्र शुण वि
ने, आप्यो समकित सार ४ एकण जवने अंतरे,
पामशे मुक्ति सुगम; पासप्रभु मोये दीजिये,
किर्तिचंद्र शुभ्र धाम ॥५॥

॥श्रीत्रिभुजमालजिन चैत्यवंदन ॥

पुरजिनमाले पासजी, जेव्या सुख जरपूर; डुख
दोहग दूरे हरे, दिन दिन चंडते नूर॥१॥ काशीदे
श वाणारसी, अश्वसेन कुलचंद्र, तरण तारण त्रे
वीसमो, वामा राणो नंद॥२ एकसो वर्षनो आर्ज
खो, नीलवर्ण सुखकार; सोल सहस मुनीवर क-
ह्या, चरण करण जंडार३॥ सहस अडतिस साहू
णो, एक लाख अधिका जोय,सहस चोसठ श्रा-
वक जला; वारेव्रत धारी होय४॥ तीन लाख क-
ही श्राविका; सत्तावीस हजार; दश गणधर अ-
ति दीपता; प्रभुजीनो परिवार५॥ जारख्यो सुवि
हित मुनीवरे, सूत्र तणे अनुसार; धर्मविजय स-

२६। पदार्थसुधा सिंधुतरंग वर्गचोथो किं. आठआना--

मरे सदा, ज्वोदधि पार उतार ॥६॥

॥ श्रीआहोर जिन चैत्यवंदन ॥

जय जय जग चिंतामणी, जगनायक जिनराय;
अश्वसेन कुल दिनमणी, नयरी आहोर मांय १
अहि लंछन अति शोभतो, नीलवरण सुखकार;
वामा नंदन वंदता, ऊतरिये ज्वपार. २॥ प्रत्यक्ष
परचा पूरणो, त्रैविसमो जिनचंद; धर्मविजे ध्या
वे सदा, पामे परमानंद ॥ ३ ॥

॥ श्रीमहाविर जिन चैत्यवंदन ॥

शासन नायक जग जयो, वर्द्धमान वरु वीर; उ
पकारी त्रण लोकनो, तारण ज्व जल तीर १॥ त्रि
सलानंदन वंदता, कर्म होवे चकचूर; तुज मुझ
दीठा लहे, समकीत तेज सनूर २॥ मृगपती लं-
छन शोभतो, सिंघारथ कुलजाण; किर्त्तिचंड
सुपसायथी, केशरविजे लहे नाण ॥ ३ ॥

॥ जिनदर्शन फल चैत्यवंदन-देशी चो पाइ ॥

सरस्वति देवि धरी मनरंग, ऊलट आणी अती

शाहलल्लुभाइ वल्यमदाम झवेरीवाढ नीशापोलअमदावाद.२७

घणु अंग; चैत्यवंदणानो कहुं विचार, जोइजो अंध
तणे अनुसार१॥ देहरे जावा मनमें घरे, चोथ ला-
जते पोते वरे; ऊजो थावे देहरा काज, ठठ ला-
ज कह्यो जिनराज१॥जिनघर जावा उद्यम करे,
अधमनो तप लाजे खरे; देहरा सामा पगला ज
रे, दसम लाज तप पोते वरे॥३॥जिनघर पंध प्र-
वर्ते जिसे, द्वादशानो फल लाजे तिसे, अर्ध पंध
जिसे अतिक्रमे, पासखमण फल तेंणे समेध मास
खमण फल पामे खरो, दृष्टे दीठे जिन देहरो;जेइ
फल पामेठे पट् मास, तेह फल पामे देहरापास
५ वरसी तपनो जे फल सार, ते फल पामे देह-
रा बार; वर्ष सहस उपवासा तणो, जिन पूज्या
बली तेहथ्री घणो ॥६॥ तीन प्रदक्षिणा ततक्षिण
शुद्ध, दीवो दीठे बहुली बुद्ध; आरती करतां आरत
जाय, मंगलिक दीवे मंगलिक थाय॥७॥प्रजातपूजा
कही जिन आप, रयणीये कीषां टाले पाप;
मध्याने जिन पूजा कही, जन्म पाप हरे ते सही

७॥ सात जन्म सब कीधां पाप, संध्या पूजा टा
 ले संताप; जिनवर पूजा करवी सही, लाज त-
 णो तो लेखो नही ए॥ करे प्रमार्जन देहरा तणो,
 तेहने लाज अठे सो गुणो; सहस गुणो विलेपन
 तणो, लाख गुणो फुल माला जणो॥१०॥ वर वा-
 जित्रने गीत रसाल, लाज अनंत कह्यो ततकाल;
 इम जाणोने करवी जक्तो, जेहने जेहवी होवे
 शक्ती॥११॥ जे नर उठो प्रहरने समे, अरिहंत देव
 निरंतर नमे; ते नर पामे संपती कोड, मानविजय
 कहे करजोड ॥ १२ ॥

॥ श्रीचतुर्विंसति जिन चैत्यवंदन॥

आदि देव अरिहंत धनुष्य पांचसे काया, नहि क्रो-
 ध नहि मान नहि मृषा नहि माया; नही राग न
 ही द्वेष नाम निरंजन तारुं, दीवुं वदन विशाल
 पाप गयुं सवी मारुं; नामे हुं निरमल अयो ए ज
 पुं जाप जिनवर तणो, कचि ऋषज इम उचरे
 आदो देव महीमा घणो १॥ अजितनाथ अवता

र सार संसारे जाणुं, जिण जित्या मद आठ इ
 सो अरिहंत वखाणुं; राजरिद्धि परिवार गोडिजि
 ण दीक्षा लीधी, टाळी काम कषाय शिवनारी व
 स कीधी; अनंत सुखमां जीलतो ए पूज्ये आठ
 कर्म खपो, कवि ऋषभ इम उचरे अजितनाथ नि
 त्ये जपो १॥ संजव जिन सुकमाल शील तप सं
 यम धारी, वाणो गंग विशाल शुणी नरपती नर
 नारी; अनंत ज्ञान जस रिद्ध वंध कर्मना कापे,
 मरो सुख निवास मुक्तिगढ हेला आपे; त्रीजो
 जिन त्रिभूवन वडो भक्ति नवि चूको कदा, कवि
 ऋषभ इम उचरे संजवजिन शेवो सदा ३॥ अ-
 जिनंदनजिनदेव शेव जस सुरपती सारे, संवर रा
 यनोसूत सकल जन दूख निवारे; तुं वांधव तुं ता
 त पाप तुज नामे नाठा, दाखिइ डुख डुर्भाग्य ते
 पैण तुज नामे त्राठा; गुण अनंतहे ताहरा त्रिभू-
 वनमें नही तुज समो, कवि ऋषभ इम उचरे अ-
 जिनंदन नित्ये नमोषा॥ सुमतीनाथ सुखवास दा

३० ❀ परीहारपत्र-मारवाडपां थयेली चरचा किं. छ आना.

स हुं जव जव ता'रो, शेवकनो अरदास आवाग-
मन निवारो; स्वामी करो मुज सार पार पेले ऊ-
तारो, क्रोध मान मद लोअ सोइ उपजतां वारो;
देव निरंजन नाम तुज तुज नामे निश्चेतरू, कवि
ऋषज इम ऊचरे सुमतीनाथ पूजा करू ॥ ५ ॥
पद्मप्रभु दिन जाम नामथी नेवे निधानं, कोसंबी
नयरीनाथ देहरत पल्लव वानं; पुर्वायू तीस लाख
प्रीत्यथी पूरू पाली, पहोता मुक्ती मऊार कर्मआ
ठे परजाली; पद्म लंठन पेखी प्रीत्ये धर्म धोरी
ध्याने रमु, कवि ऋषज इम उचरे पद्मप्रभु नित्ये
नमु॥६॥ परेव्या परगट सूपास जसू मुख पूनम
चंदो, नहि ब्रह्मा नहि विश्नु नहि गुरू गोविंदो;
नहि इश्वर नहि इंद नहिंको तूज नमूनो, तुं जि
नवर जगदीस कंथ तुं मुक्ती वधूनो; परमेश्वर तु
जने कहुं तुजविण ओर न को वली, श्रीसुपार्श्व
जिन पूजतां रूषजदास आशा फली॥ चंड प्रभु
जिनराय कायछे उज्वल वरणी, मुकुट कुंडलने

शाहलल्लुजाइ वलयमदास श्वेरोवाढानीशापोलअमदावाद३१
 हार निरखतां मुक्त निशरणी, अंगी वणी अपा
 र पुष्प तो पंचे वरणा, तिलक वणयो अति सार,
 श्ली विध विध आज्ञरणा, अगार धूप रु आरती
 शीप ज्योतीतो प्रगटी, कवि ऋषभ इम ऊचरे ग
 या पाप पूरव घटीण॥ सुविधीनाथ जिन जाप ज
 पो जाणे जोगिंद, सूर नर किंनर सोय धरे ध्यान
 मन इंद; नरनारी ऋषीराय प्रभु पूजन मन ध्या
 वे, चक्रीने बलदेव सोही वेठा गुण गावे; त्रण नू
 वनमां निखतां अवर न को बीजो वलो, कवि ऋ
 षज्ञजिन पूजतां पाप गया सवि परजलोण ॥ सीत
 ल जिन नामु शीश जपुं जाप जगदीश, देखी ता
 रुं रूप वमू उरलोक जो ईश; इंड चंड नागेंड सोइ
 नर नाम कहायो, नही जग एहवो देव तुजसम
 नजरे आयो; तेज सबल तुज देखतां लाज्यो स्वर्ग
 सुर तिण समे, कवि ऋषज्ञ इम ऊचरे ते श्रीजिन
 वरने नमे॥१०॥ सूगुणा पुरुष श्रेयांस सिंदपुरी नर
 नाथ, कनक वरणा जस देह राय विष्णु तुज ता

त; फाल्गुण द्वादशी ऋश्च जन्म तुज तणोज जा
 णु, लखचोराशी आय वर्ष तुज सार वखाणु; ऊ
 ण्यो बूण्यो ऋग्यो लेइ संजम मुक्ते गयो, कवी ऋ
 षन्न श्रेयांसनो जस महिमा जगमां रह्यो ॥११॥
 वासुपूज्य विख्यात मात जयातुं जायो, लेइ इइ
 न्छरंग मेरु माथे नवरायो; आठ सहस चनसठ
 कलश अड जाती आणी, नवरावे सुर सोच वहे
 तिहा प्रवाह पाणी; कुंरुल दोय चीवर जला अंगुठे
 अमृत ठव्यो, कवि ऋषन्न इम ऊचरे वासुपूज्य
 जिन स्तव्यो १२ वंदो विमलजिणंद जसु अतिसय
 चौतीस, गुणअनंतजिनमांहि वाणीगुण पैतीस;
 दोषअठार कर दूर कर्म आठोने गाले, अलग रखे
 मद आठ क्रोधादिक चारे टाले; पाप अठारे परि
 हरे सिंधुबंदर स्वामी हवो, कवि ऋषन्न जिनपू
 जीने विलमनाथ गुणस्तव्यो १३॥अनंतनाथ अरि
 हंत सरण हुं तोरे आयो, राखराख जिनराय शेव
 क तुज सरधा पायो, रुलियो चिहुंगति मांहि ना

म तेरा विण स्वामी, प्रगथ्यो पून्य अंकूर मिळ्यो तुं
 शिवगति नामी; आज अनंता जवतणा पापतापदूरे
 गया, कवि ऋपज्ज इम ऊचरे आनंद नुवव बहुश्रया
 १४॥ वांदूधर्मजिणंद धरा धन धरणी ठंडी, ठंडी इं
 डी जोग जोगलेइ मुक्ती मंडी; कापो कर्मना पा
 स दास हुं स्वामी तारो, करुणावंत जगवंत पार
 पेले ऊतारो; जपु जाप जिनवरतणो हिया मांही
 ऊलट घणो, कवि ऋपज्ज जिन पूजिने, श्रमण
 शब्द श्रवणे शुणो॥१५॥ समरू शांतिजिणंद मूरती
 मोहन वेली, मृगमद केशर पुण्ये करूहुं पूजापहेली,
 मन वच काया करि एक 'करुं हुं नाटिक एवो;
 अष्टापद गिरीराय रावण मंडोदरो जेवो! पूजी जि
 न पदवी लही! लायकपदवी हुं लहुं! कवि ऋपज्ज
 इम ऊचरे शांतिनाथ शेवो सहु॥१६॥ कुंश्रुनाथ जग
 देव सुरमांही जेम इंड, पंखीमा जेम हंस ग्रहगण
 मांहे चंड; पर्वतमेरू मनुहार मंत्रमांही नवकार,
 गढमां गढ लंका सार सतीमांही सीतानार; सत्रुं-

जय सम तीरथ नही जिनवर सम देव न को कदा;
 कवि ऋषज्ञ इम ऊचरे, कुंथुनाथ समरो सदा१७
 अठारमां अरनाथ शरीर सुगंधी सारी, गौडध मां
 स रुधोर अड्ठा अहार निहारी; समवसरण यो
 जन एक सुर नर तीरी सामे, जिनवर वाणी वि-
 शाल सहु सहुनी ज्ञाप्या पामे; ज्ञामंडल ज्ञाली
 ज्ञगे डुकाल रोग वयर वली, कवि ऋषज्ञ इम
 ऊचरे, अरजिन एथी अधिक बली ॥१७॥ मल्लीनमो
 निशदीन अती तृष्णाने टाली, अती वृष्टी नही था
 य नही रहे दुःख डुकाली; स्वचक्र परचक्र जे कोइ
 एक न पीडे, धर्म चक्र आकास देव तुज आगल
 हींडे; चाम्मर विंजे सुरवरा रयणसिंहासनवेसणे
 कवी ऋषज्ञ इम ऊचरे मल्लीनाथ पातिक हणे१८
 मुनीसूत्रत मनुहार शीश त्रण ठत्र सुहावे, इंद्र
 ध्वज तिहां सार पाय नव कमल कहावे; त्रीगढ
 करे तिहां देव हेम मणी रूपा केरा, जिन प्रतिमां
 तिहां सार टाले नव त्रमण फेरा; अशोकवृक्ष शिर

ऊपरे अमृतवाणी मुख ऊरे, मुनीसुव्रत कवि ऋ
 पन्ननी आधि व्याधि अलगीकरे ॥१७॥ साचो श्री
 नमिनाथ शेवतां शिवपुर जाये, चाले जिनवरवाट
 अधोमुख कांटा थाये; वृद्ध नमावे शीश देव दु-
 दूंजी थावे, पवन शुरुन तिहां सार पुष्पनी वृष्टी
 कहावे; कुसुम जला ढींचण समा नख केश रोम
 वाधे नही, कवि ऋपन्न इम ऊचरे नमीनाथ वं-
 दो लही ॥२१॥ नेमि निरंजननाथ बहु बलिया
 ब्रह्मचारी; अष्टज्वंतर नेह तजी जिण राजुलना
 री; नेम चड्या गिरनार नार पोतानी तारी, चोपन
 दिन ठद्वस्थ पठे प्रज्जु केवल धारी; सहस वरस
 नु आउखुं पूर्ण करी मुक्ते गया, कवि ऋपन्न इम
 ऊचरे जल महिमां जगमें रह्या ॥ २२ ॥ पूजो
 पार्श्व जिणंद जिणे कमठ मद गाळ्यो, कर्यो
 नाग धरणिंद रोग अन्नयदेव टाळ्यो; फाडी
 शंकर लींग सिद्धा सायरमां तारी, धन्य तुं
 पार्श्व जिणंद ! जरा जादवनी वारी ! कोढ गयो

एतद्ग तणो ! नागार्जुन विद्या सिद्धो ! कविऋषन्न
सिद्धसेननो सन्ना मध्ये सारज कोधी ! ॥ २३ ॥

वंडु वोर जिणंद महोपर मेरु नचायो, वली सम
ऊायो राय देव जिण पाय लगायो; सूलपाणी
प्रतिबोध चंरुकोशी गति सारी, चंदनबाला सती
मुठि बाकुल लेइ तारी; उदाइ अर्जुन अनेक नर
तर्या ! तरे! शुं कहुं कथी; कवि ऋषन्न तरशे घणा!
जिनपूजा जिनवचनथी ॥९४॥

॥ श्रीस्तवन समुच्चय-पार्श्वजिन स्तवन ॥

॥ पुरजेसवाडे जेटायाजी त्रेविसमां जिनराज,
मुहमाग्धा पासो ढळयाजी फलीयामनोरथआज
प्रनु पास जिनेश्वर शुणज्यो एक अरदास ॥ अ
अश्वसेन कुड दिनमणीजी वामा मात मढहार, अ
हिलंछन अती शोन्नतोजी नोलवरण सुखकार ॥
प्रनुपा०२ ॥ एकसो वर्षनो आनुखोजी नवकर देह
प्रमाण, कमठ हठी नड गालीयोजी नाग लह्यो
सूरगाण ॥ प्रनु०३ ॥ चौविस दंडक हुं नभ्योजी नव

शाहलल्लुभाइ बल्यमदास झवेरीवाढानीशापोल अमदावाद ३७
 घाटी निरधार, कर्म कदर्थना में सहोजी कहेता न
 लहुं पार॥प्र०४॥कांइ न मागुं तुम कनेजी कांइ न
 बीजी आश, दर्शन ज्ञान मोये दिजियेजी चारित्र
 तप सुखवास्त॥प्र०५॥गुणआगर प्रभु गुण निलोजी
 जगपती परमानंद, तुज पसाये मे लह्योजी तुम
 दरिशाण सुखकंद॥प्र० ६॥ओगणीसैं चौतिसमेंजी
 कार्तिकमास मोऊार, शुद्ध दशमी मोये दीजिये
 जी धर्मविजय जयकार ॥प्र० ७ ॥

॥ श्रीचौमुखजिन स्तवन ॥ मनहुंकिम-राग॥
 चौमुख प्रतिमा चौदिशी ठाजे, अद्भूत रूप जि-
 णंदा, तेहभिष्ण्यात्व अरिदल खंरुण, ऊग्यो गगन
 दिणंदा॥ज्विकजन शेवो रूपज्ज जिणंदा॥१॥जाव
 जिनेश्वर प्रणमो जावे, समवसरण ते राजे; वा-
 णी जोजन गामिनी जासे, अष्ट प्रतिहार्य ठाजे
 ज्ञ०२॥इत्यजिन तेहिज जिन जाणो, नाम उवण
 जे होई; चार निखेपा जिनमुख जाख्या, अनु-
 योग द्वारे जोई॥ज्ञ०३॥एह आलंवन जेह आराये,

३८॥ सूरिगुण त्रयीश्री-रंगोत्तरीयोवाली किं. छाना-

ध्यावे हृदय मोऊर; सोहं सोहं रटना रटता, कु
तरीये जवपार॥३०॥ प्राणायाम ध्यान जे साधे,
दसम द्वार जे होई; रूप रहीता अवस्था प्रगटे; सो
विरला जग कोई॥३१॥ कनकाचल सोहे अति सुं
दर, मंदिर देव विमान; जविजन मूर्ति जग जय
वह्नज, देखता ऊपजे ध्यान॥३२॥ वेद नयण नि
धि इंडु वरसे, शुकल माघ तिथि जाणो, चौमु
खजिन एकमदिन जेटया, धर्मविजय सुख आणो. ७

॥ सीमंधर स्तवन-सेवक अर्ज करे एराग ॥

श्रीसीमंधर साहिबारे, शिवसुखना दातार; सर
णे आयो ताहरेजी कांई, जन्म मरण डुख वार॥
मोरो अर्ज सुणीजे राज कायक समकित हीजे१
शिवरमणी दोजे मुज साहिब, जेज धनी नवी
कीजे; तरण तारणठे विरुद तुमारो, एह संजारी
लीजे॥ मो० २ पेटविना ओलग नहि होवे, ओलग
विण नवि रीजे; एकवार जो रीजे प्रजुजी, तो
मनवांछोत सीजे॥ मो० ३ शेवक जे पोतानो होशे,

शाहलल्लुजाइ मल्यमदास झवेरीवाडानीशापोलअमदावाद ३९

ते कहेशे सो वरिया;स्वामी काने शुणजो केवा,
मत शुणजो एक वरियां॥मो०४ मनवचन कायाए
करीने, श्रीलोमंधर ध्याया; दरिशन ज्ञान चरित्र
मोथे दीजे, किर्त्तचंइ सुखदाया ॥मो० ॥५॥

॥ श्रीपार्श्वजिन स्तवन-देशी अश्वारी ॥

पारस तोरी निखण थो असवारी, अरजी शु-
णो प्रजु मारी॥पा०॥काशी देश वाणारशी नयरी,
दिन वसमी जयकारी; वामाराणी कुखथी प्रजु
जी, जन्म लियो सुखकारी॥पा०१॥ठप्पन दिग कु
मरी हुलराया, हिये हर्ष अति ज्ञारी; चोसठ इंइ
करे वली महोच्चव, तरवा जवजल पारी ॥पा०२॥
एक कोमो साठ लाख सोहेठे, कलश महा म-
नुहारी; वारे जोजन पहोला पेटे,पचिस जोजन
उंचा धारी ॥ पा०३ ॥ नीचा उंचा जोजन
पहोला, निरमल जरीयो वारी, फूल चंगेरी वा
वना चंदन, केजरने वनसारी॥पा०४॥इणिपरे ओ
श्व सुरपति कोनो, जोइजो सूत्र संजारी, सुरगी

रि ऊपर पांडुक वनमें, पांडु सिद्धा अति प्यारी.
 पा० ५ अश्वसेनराय नुठव कीनो, दान दीयो दिव
 धारी; शोहेरनी श्रेष्ठता जूवे जुक्ते, बेठागोखमऊ
 री॥पा०६॥ लोक सहु पूजापो लहीने, कम्मठ पू-
 जनकारी; प्रभु पधार्या देखणकाजे, नाग जले ति
 णवारी॥पा०७॥ काष्ट फमावी नाग निकाडयो, सं-
 जलाव्यो मंत्र ज्ञारी; समकित लेइने सुरपती हू
 वो, धर्णेइ एकावतारी॥पा०८॥ उगणीसें इगताली
 स वरसे, पोश दशम रठीयाली, आहोर नगरमें
 नुठव कीनो, संघ सकल बलीहारी ॥पा०९॥ सुंदिर
 मुर्ति प्रभुनी विराजे; जविजनकुं सुखकारी; कि-
 र्तिचंड सम शोन्ने जगमें, केशरविजे जयकारी॥

॥ सीमंधर स्तवन--ते दीन क्यारे-राग ॥

श्रीसीमंधर साहिबा, अर्ज शुणो एक म्हारी; महा
 विदेहमें तुमे वस्या, त्रिभूवन उपकारी॥ ते दिन
 क्यारे आवशे शुद्ध चरित्रपालु॥ श्रीश्रेयांस पीता
 कुले, सत्यकी राणीनो नंद; रुखमणी राणी नाह

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास झवेरीवाढानीशापोलअमदाबाद४१

लो, टालो जवजय फंद॥ते०१॥ काल अनादी अनं
तमें, मिथ्यात्वने प्रसंग; नर्कनिगोदमें ऊपन्यो, न
लह्यो समकित रंगा॥ते०३॥ देवता मनुष्य तीर्थच
में, न लह्यो दरिशाण देव; शुद्ध गुरुने जलखी, न
करी तेहनी शेव॥ते०४॥पंचमहाव्रतपालशुं, पालशुं
पंच आचार; गुरू आणा शिरपे वही, करशुं उग्र
विहार॥ते०५॥पंचेश सुमती पालशुं, टालशुं सोल
कपाय; सत्तर जेदे संयम ग्रही, त्रण गुप्ती चि-
ल्लाय॥ ते०६॥ वीस असमाधीने टालशुं, जीपी
शुं वावीस; त्रेविस दूरे टालीने, चित्त धरशुं चो-
वीस॥ते०७॥ पचवीस जावना जावशुं, ठवीस कळप
विहार; सत्ताविस गुण साधुना, आदरशुंसुखका
रा॥ते०८॥जगतारकजिनराजजी, गुणमणीरयणजं
कार;धर्मविजय ध्यावे सदा,जवोदधी पारजतार ए

॥ आदिजिन स्तवन--कुंमरगजारो-राय ॥

आदी जिणंद एक विनतीरे, शांजलो जगत आ
धाररे; साहिव हुं बहु जवमां जम्योरे, सेवतां पा

४२ ~~मन~~ मनहरमालानां सातभागनो गुटको किं. चार आना-

प अठाररे॥आण१प्रथम हिंसा मांहे राचीयोरे, मा
च्यो बोली मृषा वादरे; राचीयो लेइ घन पारको
रे, हायों में निज गुण स्वादरे॥आण२ देवता म-
नुष्य तीर्थचनारे, मैथुन शेव्या घणो वाररे; नव
वीधि परीग्रह मेलीयोरे, कोधो में क्रोध अपाररे
आण३ मान माया लोभ वसि हुनरे, रागने द्वेष
परिणामरे; कलह अभ्याख्यानमें कोयारे, पैसुन
डुरितनुं ठामरे॥आण४॥रती अरंतोनिंद्या पारकीरे,
जेहथी होवे नरकावासरे; कपट सहित जूठो ज्ञा
खोयोरे, राच्यो मनमें मिथ्यात्वरे ॥आण५अरिहंत
पद आदी वलोरे, आशातना तेतीसरे; कुगुरु प्र-
संगे रंग मिथ्यात्वशीरे, कोधी घणो जगदीसरे॥६
लाख चोराशी पहेर्या चोदणारे, नाच्यो हुं नवी
नवी ज्ञातेरे, रीऊया होवो तो रिदो दोजियेरे,
नहितो वरजीये नाथरे ॥आण७॥संवत्त अोगणीसिं
चालीसमेंरे, आशोज मास मजाररे, एकाइशी दी
न ध्यावतांरे, वरत्यो जयजयकाररे ॥आण८ पूरव

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास अवेरीवाढानीशापोलअमदावाद४३

पून्य शुं पामोचोरे, जावूवा नगरे जिणंदरे; अरजी
शुणीने मरजी कोजियेरे, किर्त्तिचंड सुखकंदरे. ए

॥ सिद्धाचल स्तवन-आदि जिणंद राग ॥

प्रेमदा पतोने वीनवे, मुज सिद्धाचल लेई जाय;
साहीव मोराहो रिपन्न जिनेश्वर जेटतां, पापकर्म
क्षय आय॥ साहिव मोराहो विमलाचलगिरि वं-
दोये॥ पूर्व नवाणुं आवीया, इण गिरी आदीनाथ;
साण तुनंदानो नाहलो, जगबंधव जग आता॥ सा. १
ठहरी पालतां चालोये, सदगुरूनो वलो साथ;
साणसात ठठ वली कोजिये, नोकरवाली लाख ॥
साण३॥ अठम दोय इम कोजिये, लोजिये लान अ
पार; साण पुंडरिक पमुहा मुनिवरा, सिद्धा केइ
अणगार॥ साण४॥ नित्य ऊठीने ध्यावतां, जेटतां
जवजयजाय ॥ सा०॥ सत्रुंजय तिर्थ शेवतां, किर्त्ति
चंड सुख आय ॥ साण ॥ ५ ॥

॥ सुविधी जिन स्तवन--देगी ललनानी॥

सुविधी जिणंद जुहारीये, नगरसियाणा मांय ल

४४  संबंधवहोतेरी एकभदमांवातेर सगपण दोढ आनो-

लना; नवमो जिनवर निखतां, पापकर्म सवि जा
य ललना॥सु०१॥चौदे राजना चोकमें, चोराशी चौ
टा मजार ललना; रडवडतो हुं आवीयो, दोठो जिन
दरवार ललना॥सु०२॥ देवदेवी बहु देखीया, जरीया
रागने द्वेष ललना; केई कामी केई लालचू, अल
गा कीधा ऊवेख ललना॥सु०३॥ कूगुरूकाने लाग्या
घणा, करतां आपणा काज ललनां; धर्म कही क
र्म बांधता, नहि गिणे जेखनी लाज ललना॥सु०४॥
अमृत नोजन गंभीने, कुण खल खावा जाय
ललना; हाथी गोमी हाथशुं! खर नवि आवेदाय
ललना॥सु०५॥ सुरतरू सम जिनवर मिळया, कुण
चाहे आक धंतूर ललना; गंगा आवी आंगणे, कुण
खोदे सूकी धूर ललना॥सु०६॥ मगर लंछन मन मो
हता, शिवसुखना दातार ललना; किर्त्तिचड् ध्यावे
सदा, आपो सुख अपार ललना ॥सु० ७॥

॥ आदीजिन स्तवन--ए व्रत जगमें. राग ॥

देव नहि ठे जगमां एहवो, तुज सम तारणहार;

मुजने देज्यो शुभ्र मती स्वामी, वृषभ्र लंछन व
 लीहार मेरे प्यारे आदी जिणंढने शेवो, शिवसुख
 साधन मेवो मेरे प्यारे आदी जिणंढने शेवो ॥१॥
 प्रथम झूपती प्रथम मुनीसर, प्रथम तिर्थंकर सोहे;
 मरूदेवी नंदन सुखकर वंडु, ज्ञवियणना मन मोहे
 मेरे ॥आ०१॥ तुम दरिशाणथी डुरगती वामे, पामे
 पर्म आणंढ, मिथ्या तिमिरते दरे नासे, अहो निश
 ध्यावुं सुखकद मेरे ॥आ०३॥ शिवगंज नगरे ना-
 ज्ञी सुतने, पेख्या पातिक जाय; आपो अमने द
 रिशाण तेथी, मनवांछीत फलधायमेरे ॥आ०४॥ मुनी
 वेद निधीइंडु वरसे, रचिया गुण अजिराम, जुगळ्या
 धर्म निवारण मनोहर, केशर विजय सुखधाममे.

॥ श्रीआदो जिन स्तवन-देशी हींमानी ॥

आदि जिणंढ प्रभु अरजी लीजे, शिवरमणी सु
 ख दीजेरे; शुभ्र निजेरे करो साहिव मुजने, दरि
 शन वे'ला दीजेरे ॥ साहिव प्यारोरे, साहिव प्या
 रो मुजने तारो ज्ञवोदधी पार उतारोरे ॥साहिव

४६ आबु देववंदन-ज्ञानपंचमी देववंदन दोढ आनो-

प्यारोरे॥१॥पांचे आठे मुजने पोड्यो, नर्क निगोद
नचायोरे; काल अनादी कूमती संगे, जन्म मर
ण डुख पायोरे॥सा०७॥ मोहराजानो मंत्री मलो
यो, सोल संगते जलीयोरे; तृप्णा तरुणो आणी मे
लो, काम किचडमें कलीयोरे॥सा०३॥ तेरे वावि
स तेतीस टाली, सत्तावन ठटकायारे, दश चोरा
शी दूर करीने, नाज्जीनंदन ध्यायारे॥सा०४॥ पा
वटापुरमें ऋषज्ज जिनेश्वर, ज्ञेत्या मनशुद्ध ज्ञावेरे;
आदीजिननुं, समरण करतां, किर्त्तिचंडसुखपावेरे॥

॥ पार्श्वजिन स्तवन--प्रज्नुपालनुं राग ॥

शुणो पालजिनेश्वरस्वामी, हुंतो अर्ज करू शिर
नामी; काशीदेश अती मनुहार, तिहां नचरी वा
णारसी सार; प्राणांतकडपश्चि चवि जयकार, वा
मा मात उदरे अवतार॥शु०१॥अश्वसेन कूले प्रज्नु
चंद, जिनजी जनम्या जगदानंद; वदि पोश दशम
सुखकार, करे लुब्धव हर्ष अपार ॥शु०२॥ तुमे पर
ण्या प्रजावती नारी, पठे लीधो संजम ज्ञारी; शु

६ अनोपम केवल पाया, थथा तीन जूवनना राया
 ॥शु०३॥ बालम सास्वत सुखमैवसिया, तुमे मुक्ती
 वधूनां रसिया; एवी मुझ सुंदिर तारी, मुने देख
 तां लागे प्यारी ॥शु०४॥ हवे तुज सरणे हुं आयो,
 प्रज्जु दीजे दान सवायो; जो जव सायर पार ऊ
 तारो, तो जगतारक विरुद्ध तिहारो ॥शु०५॥ प्रज्जु
 मूजने करो सनाथ, हुंतो चाहुं शिवपुर साथ; इम
 ललि ललि करुं पोकार, नेह निजर करो तुमे सार
 ॥शु०६॥ रस वेद नीधी ससी जाण, वदि पोझ
 दशम गुणखाण; किंकर ऊपर करुणा कीजो,
 केशर विजयनो मुजरो लीजो ॥ शु०७ ॥

॥ आदि जिन स्तवन--देशी हींमानी ॥

अरिहंत आदिजिनेश्वर प्रज्जुजी, नाज्जी नंदन नि-
 रख्योरे, अलख निरंजन जव जय जंजन, देखंता
 मुज मन हरख्योरे ॥ निजरे निरख्योरे, नजरे नि
 र्ख्यो निजगुण परख्यो पातिक सबही सरख्योरे
 निजरे निरख्योरे ॥१॥ माता मरूदेवानी कूखे एही

४८ रंगविनोद-राजेंद्रसूरि जन्म चरित्र दोढ आनो-

जिनवर जायोरे, ठप्पन दिशि कुमरी मिलोने ह
र्षधरी हुलरायोरे ॥नि०२॥कांचनवरणी काया शो
जे, मूर्ति मोहनगारीरे; अनुजव रूपो दीवो प्रग-
द्यो, वृषभ लंछन बलिहारीरे ॥नि०३॥आठ दीव
स अष्टाद महोत्सव, कीनो अति सुखदाई रे; रथ-
जात्रा करी पूरण प्रीत्ये, प्रज्जुजी शुं लय लाई रे ॥
॥नि०४॥ पूरगोलमें प्रथम जिनेश्वर, उत्तर दिशी
बिराजेरे; सिद्ध तणी ए मुर्ति सुंदिर, जेटतांजय
जाजेरे ॥नि०५॥ संवत ओगणीसें पीस्तालीस पो
श शुद्ध ठठ सुहावेरे; केशर कहे प्रज्जु किर्तिचंड
सम, निर्मल बुद्धि आवेरे ॥नि०६॥

॥ पार्श्वजिन स्तवन - देशी सलुणानी ॥

पास जिणंदने वंदोवेरे, निंदिये अपणा पाप स-
लुणा; जव जव संचित दूख घणारे, रोगादिक सं-
ताप सलुणा ॥पास०१॥ चौविस दंडकमां सहीरे,
जमीयो हुं बहुवार सण कुमती पाखंडोनां संग
थारे, रुलीयो अनंत संसार सण ॥पा०२॥तुज दरि

शण विण साहिवारे, सहियामें दूख अपार स०
 हिवे प्रज्जु दीजे दासनेरे, तीन रत्न मनुहार स० पा०
 ॥३॥ पूर चाणोदमें पेखीयोरे, प्रगट्यो प्रेम अंकूर
 स० वामानंदन वंदतांरे, दिन दिन आनंद पूर स०
 पा० ४॥ नयरी वाणारसी राजियोरे, अश्वसेन कु
 लजाण स० ज्ञवो ज्ञव दीजे दीननेरे, बोधी रय
 ण गुणखाण स० पा० ५॥ नवकर तनु अति दीप
 तोरे, एक सत वर्षनुं आय स० दश गणधर ज्ञला
 शो ज्ञतांरे, मुक्ती वधू वरराय स० पा० ६॥ रस वेद
 नव ससी वर्षमेरे, ज्ञेव्या पास जिणंद स० वदि
 फाल्गुण पक्षांतमेरे, केशरविजय आणंद स० पा० ७॥

॥ श्रीवासुपूज्य जिन स्तवन-एदोयगणधर. राग ॥

श्रीवासुपूज्य जिन वंदिये, करी त्रीकण जोग
 उदाररे सुजाण, मिथ्या मति दूरे तजी, करो नि-
 ज आतम उदाररे सुजाण ॥ श्री ० १ ॥ प्राणंत देव
 लोकथी चवी, चंपा नयरी पंच कळ्याणरे सु०
 वमूराजा कूले ऊपन्या, जया माता गुण खाणरे

५०. देववन्दन निर्णय पताका किंमत बार आना-

सु०श्री०शारक्त वरण सीत्तर धनु, लाख बोंदितर
वरसायरे सु० महिष लंढन कुंज राशिका, सत
त्रिषा नक्षत्र सुहायरे सु०श्री०३ ॥ ठद्यस्थपणे
एक मासमें, तुमे कीयो नग्र विहाररे सु० केवल
लही तुमे थापीया, ठासठ गणधर साररे सु० स
हस बोंदितर संजमी, शुद्ध साधवी एक लाखरे
सु० श्रावक दोय लाख ऊपरे, पन्नरे सहस सूत्र
साखरे सु०श्री०५॥ चन्न लख ठत्तिस सहस वली,
श्राविका अठे गुणवंतरे सु० कूमार जक्ष जल शो
न्नतो, देवी चंडापती जे कहंतरे सु०श्री०६॥ जेठ
शुद्ध नवमी गर्ज जन्मिया, चौदसकृष्ण फागुण मा
सरे सु० फाळगुणी पूनमें दिक्षा ग्रहे, माघ शु-
क्ल बीज ज्ञान खासरे सु०श्री०७॥ सुर आवी पं-
च कळयाणक करे, नंठव अती सुखदायरे सु०
जिनवरनां गुण गावतां, सवि दूख दूर पलायरे
सु०श्री०८॥ दोष अठारे अलगा करी, वसिया सिद्ध
सिला गुण गेहरे सु० अविचल सुख मोये दी

शाहलल्लुभाड वलयमदास श्वेरीवाड नीशापोलअमदावाद.५१

जिये, कहे केशरविजय धरी नेहरे सुश्रीण्ण॥

॥ चौविस जिन स्तवन-देशीललनानी ॥

आदि अजीत संजवप्रज्ञू, अजिनंदन जिनराज
ललना, सुमति पद्मप्रज्ञु शैवतां, आपे अविचल
राज ललना ॥ दरिशाण क्षायक दीजियेण॥१॥सूपा
थ्वने चंडप्रज्ञू, सूवीधी सीतलनाथ ल० श्रेयांसने वा
सुपूज्यजी, वीमल अनंत विख्यात ल०द०७॥ ध-
र्म शांती ध्यावुं सदा, कुंथु अर मल्लीनाथ ल० मू
निसुव्रत मनमोहनो, आपे शिवपुर साथ ल०द०३॥
नमी नेमी प्रज्ञु पासजी, चौवीसमां महावीर ल०
चवदेसें वावन जला, प्रणमु तास वजीर ल०द०४॥
समरण चौविल जिन तणो, प्रातःसमे करे जेह
ल०किर्त्तिचंडकहेपामशे, मंगलकमलागेह ल०द०५॥

॥ श्रीचौविस जिन स्तवन ॥

उठ प्रजाते आदीजिननुं, चेतन समरण कीजेरे;
दिन दिन आनंद मंगल वाघे, जगमां जस बहु ली
जेरे॥उ०१॥ऋपज्ञ अजित संजव अजिनंदन, सु

६२ पंचकल्याणपूजा-वर्तमान चोविसी किं. दोढ आनो-
मतिनी शेवा कीजेरे; पद्म सुपार्श्व प्रच्युता आपो,
चंद्रप्रच्यु सुख दीजेरे॥न०१॥सुविधी सीतल श्रेयां-
स ध्यावो, वासुपूज्य विख्यातारे; विमल अनंत
धर्म जिन शांती,अनुभव सुखनां दातारे॥न०३॥
कुंशु अर मध्वी मुनिसूत्रत,नमी नेमी जयकारारे,
पार्श्व वीरप्रच्यु समरण करतां, आपे शिववधु
सारीरे॥न०४॥पुंडरिक पमुहा मुनिवर वंड, गुण
वंता ऋषीराजरे;सोल सतीनो समरण करतां,सि
जे वांछित काजरे ॥न०५॥ आवर जंगम तीरथ
जगमें, जे वंदे नरनारीरे; किर्तिकमला ते नवि पा
वे, मोह तणा अधिकारीरे ॥न०६॥

गोडोपार्श्वजिन स्तवन-देशी आछीलाल॥
प्रणामु गोमी पास, पूरे वांछित आश, आ०डुश्म
न विघन दूरे हरेजी॥१॥जिम एलगदेराय, कीधी
निरोगी काय, आ०अंतरीक त्रिचूवन धणीजी ९
जोगी नागार्जुन कीध, विद्या ततक्षण सिद्ध,आ०
सिद्धी बुद्धी मोये दीजियेजी, जलमें बांधी पाज,

शाहलल्लुजाड वलयमदास झवेरीवाड नीशापोलअमदावाद५३
 लीधुं लंकाराज,आ०काज करो घरे आवीयाजीध
 थंजणपुर श्रीपास, पूरी सघलाआश, आ० राम
 लक्ष्मण राजा तणीजी॥५॥पूज्या संखेश्वर पास,
 जडपती थइ हुद्धाश,आणजरा जादवा मीट गइजी
 ६॥फाड्यो शंकर लिंग, अन्नयदेवने अंग, आ० रों
 ग गमायो ततकणेजी॥७॥जपतां मूहरी पास, पू
 गी सघली आश,आ०नव अंगनी टीका करीजी॥
 ८॥वामा नंदनदेव, जवजव ताहरी शेव, आ०दी
 जीये शेवा दासनेजी॥९॥पारसथी परसिद्ध, सोनुं
 थावे सिद्ध, आ०दिन दिन वान वधे घणोजी १०
 किर्त्तिचंद्र कहे नाथ, ग्रहीये माहरो हाथ, आ०
 शुभ कारज सिद्धी करोजी ॥११॥

॥शांतीजिन स्तवन-देशी रंगीला. ॥

शांती जिनेश्वर साहिवारेलाल,शुण मोरी अर
 दासरे रंगीला; काल अनंत वित्यो तिंहां रे लाल,
 वसियो निगोदमें वासरे रंगीला ॥ शांतिजिनेश्वर
 सांजलोरेलाल०१॥लोक स्थिती लारे लही रेलाल,

जव स्थिती जाव विशेषरे रंण्वादरनगरे आवीयो
 रे लाल, न लह्यो दरिशाण लेशरे रंणशा०१॥ चौदे
 राजना चोकमेरे लाल, चौगती चौटा मजाररे रंण
 ररुवरुतो हुं आवीयोरे लाल, मनुष्य गती मिली
 साररे रं०शां० ३॥ मन लोनाणो माहरोरे लाल,
 कांचन कामिनी साथरे रं० कुगुरु कुदेव कुधर्मशी
 रेलाल, मन मान्यो मिळ्यातरे रं०शां०४॥ राग-
 द्देष कीधा घणारे लाल, शेव्या विषय कषायरे रंण
 तेथी दुख दीठा घणारे लाल, नर्क तिथंचमें जाय
 रे रं०शां०५॥ देवगती सुख देखीयारे लाल, कोइ
 क पून्य प्रवेशरेरं० कपटी कुगुरु तिहां मिळ्यारे
 लाल, जन्म्यो हुं जवमें विशेषरे रंणशां०६ ॥ जन्म
 मरण दुख देखतारे लाल, आव्यो तुज दरबाररे रंण
 वांञ्छीत सुख हवे दीजयेरे लाल, आपीये शिव प
 द साररेरं०शां०७॥ पूर्व जवे पारिवडारे लाल, क
 गार्यो तुमे नाथरे रं०करुणानिधी अरजी शुणो रे
 लाल, तारो जाळी हाथरे रंणशां०८॥ नगर धानेरे

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास झवेरीवाडानीशापोलअमदावाद५६

निरव्यो रे लाल,शांती जिणंद जगवानरे रंणकिर्त्ति
चंङ्कहेमाह्येरेरेलाल,दिनदिनवधतोवानेरेरंणशां.ए

॥ शांतीजिन स्तवन--देशी चंङ्गावला ॥

अचिरानंदन प्रणमीयेरे, समय समय सोवार;
शेव्याथी शिव सुख लहेरे,यह जव जस विस्तार;
यह जव जस विस्तार ते पामे, शांतीजिनेश्वर
साहिव नामे; जगमें शांती अइ तिण माटे,नाम
ठव्युं प्रज्जु शांती सुघाटे॥जीशांती जिनेसरुजी१॥
एकज जवमें जोगवी जारे,पदवी त्रण जिन राय;
नाम कहाणा प्रथमथीरे,मंरुलीक नरराय;मंडलीक
नरराय कहाणा. चौद रत्न प्रगट्या सपराणा; च
क्रवर्त्त पदवीतदनंतर,उदय आवे तव जोगवे नरवर
॥जीशांती०१॥चक्ररयण उपन्या पगीरे,चक्री जर्त्त
ठखरु,आप चढे साधन जणीरे, साधे तुर्त त्रीखंरु,
साधे तुर्त त्रीखंड जलेरा, वैताढ्य पर्वत पासे
डेरा; गुफा तिमिश्रा तास किमाड,दरु रत्न प्रहार
ऊघाड॥जी.३॥तेह कपाट उघाडतां रे, नीसरे अ-

नी वराल, चक्री कटक ऊजो रहेरे, तोथाये पर
जाल; तो थाये परजाल जूजूआ, मास ठ ताई नी
सरे धुंआ; अनुक्रमे शीतल थाये वाट, चक्री पेसे
सेना लेइ आटा॥जी.४॥तेह गुफा मांहे पेसतारे,
नीतत्र्यंतर दोय पास, योजन योजन अंतरेरे, मं
डला ओगण पचास; मंडला ओगण पचास आले
खे, कांगणी रयण अकी सहु देखे; अंधकार तिहां
जाये नास, थाये दिनकर सम प्रकास॥जी.५॥मध्ये
निम्नत निम्नगारे, दोय नदी असराल; तृण पत्रादिक
एकमेरे, डूबे तिहां तत्काल; डूबे तिहां तत्काल
जे नाखे, पहरने पिण सूबतो राखे; बीजी तटि
नीनो गुण एह, ऊतरे चक्री यत्ने तेह॥जी.६॥विद्या
धर वैताढ्यनारे आणमाने सहु कोय; आगे त्रणखंड
मलेह्ननारे, साधे चक्री सोय; साधे चक्री सोयते
किणपर, बाण नामांकित मेले बलकर; मलेह्न तणा
जे राय ऊदार, बाण पडे तस सन्ना मोऊार॥जी.७॥
तेह नामने वांचतारे, क्रोधे धमधम थाय; म

लेह ठए दल लेइनेरे, चक्री सन्मुख थाय, चक्री
सन्मुख थाय अरूऊ, जोरावर मांमे तिहां ऊऊ,
चक्री सेंती जोर न लागे, लरुतां मलेह तणा द
३ जागे॥जी.७॥ देव सानीधे तव तिहां रे, मलेह
ए तिणवार, चक्रीना दल ऊपेरे, वरसावे जल-
वार; वरसावे जलधार ते जोर, मूसलधारा डुर्दि-
नी घोर; चर्म रत्न चक्री विस्तारे, ठत्र रत्न दल
ऊपेरे धारे ॥जी.८॥मेघ वृष्टी करतां थकारे, थाके
ते सुरराय; चक्रवर्त्त पुण्यवंतनोरे, वाल न वांको
थाय; वाल न वांको थाय ते क्यारे, मलेह ठये प्र
णमे तिण वारे; आण मनावी चक्री चाले, ऋष
जकूट नग निजर निहाले॥जी.१०॥कांगणी रयण
थकी लिखेरे, चक्री आपणु नाम; खंरु प्रपाथी नि
सेरे रे, चक्री आवे निज ठाम; निज ठामे ठसें वर्षे
आवे, पट् खंरु मांहे आण मनावे; कुरुजन पदंम
हप्रिणाउरपूर, राजधानी जोगवे नरपूर॥जी. ११
चक्रवर्त्त पदवी जोगवी रे, तृण जिम ठांमी तेह;

ऋद्धि कहुं हवे तेहनी रे, सांजलज्यो गुण गेह;सां
 जलज्यो गुण गेहे साथी, लाख चोरासी हयरथ
 हाथी;ठिनुकोड पायक दल सूरा, जर्तकेत्रेषट्खंड
 ते पूरा॥जी.११॥खच्चर वेसर विविध धरारे,संख्या
 कोड चौवीस;गबरू मारू काबलीरे, उंट ते कोडी ते
 त्रीस;उंट तेकोडी तेत्रीस जोइया,जोरावरत्रणकोड
 पोठइया;एक लाख गायनुं जे दूध,जीरवे चक्री देह
 विशुद्ध॥जी.१३॥चौदरत्न नवनिधि जलारे, सहस
 पचीसे यक्ष;चौद सहस महा मंत्रवी रे,तिण कोम्नि
 मंत्री दक्ष;त्रिण कोडी मंत्री दक्ष दिवाजा, बत्रीस
 सहस मुकुटबंध राजा;चोसठ सहस अंतेजर नारी,
 वारांगना बिवणी विस्तारी॥जी.१४॥बत्रीस सहस
 नाटिक जलारे,बत्रीससहस सूदेश;चौदसहस जल
 पंथवे रे,इगवीस सहस सन्निवेश;सन्निवेश ते सुंदिर
 गाम,बत्रीस सहसविलानल गाम,सोल सहसराज
 धानी जाणो,छप्पन अंतर द्वीप वखाणो॥जी.१५॥
 गाम ठनुकोडी ग्रामडारे,कोडि ओगणपच्चास,बाग

वाडी नद्यानेतेरे, सहस ओगणपच्चास; ओगणपचा
स कूराज्य कडाणा, सोल सहस मलेठराज म-
वाणा; श्रेणि प्रश्रेणि अठार अठार, एंसी सहस
पंडित शिरदार ॥जी.१६॥ सात कोमि कोटंवीकू
रे, सोल सहस निज गेह; वर झेण मुख ते जा-
णज्योरे, सहस नवाणु तेह; सहस नवाणु तेहेरे
सुंदर, चौविस सहस संवोधन पुरवर; सहस अ-
डयाली पाटण मोटा, चौविस सहस मांडविक
कोटा ॥जी.१७॥ कर्वट खेडा जाणज्योरे, सहस चौ
वीस चौवीस, नववारो नगरी कहीरे, निरुपम स
हस वत्रोस; निरुपम वीस सहस ते आगर, सोल
सहस संख्याये चाकर; द्वीप ते सोल सहस ज
ल मध्य, कुल वत्रीसह कोड प्रसिद्ध ॥जी.१८॥ च-
क्रवर्त चढवा तणारे, हयवर कोड अठार, पंचको
डि दीवीधरारे, वत्रोस कोड सूआर; वत्रोस कोड
आजूपण धारक, त्रण लाख जोजनना थानक;
प्रवर पताका ध्वज दश कोडी, कोडी निवाणु

माडंबिक जोडी ॥जी.१६॥ लाख चोरासी दूमदू
 नीरे, लाख चोरासी निसाण; त्रण कोम जोगी
 कह्यारे, त्रण कोम हल खेमाण; त्रणकोम हल खे
 माइ जास, कोम निवाणु दासी दास; चौसठ सह
 स कळयाण कारक, कोम नवाणु ते पट धारक॥
 जी.१७॥वैद्य शेठ सारथपतीरे, एसहु त्रणत्रण कोम;
 कोम निवाणु शेठीयारे, सेव करे कर जोम; सेव
 करे करजोमि निज घर, त्रणसेंसाठ रसोइया सुं
 दर; रसवतीयां निपजावे प्रेमे, चक्री त्रणलाख
 साथे जीमे॥जी.१८॥ कोम निवाणु मसूरीयारे,तीन
 कोड फोजदार; लाख निवाणु लेखवारे, अंग रक्त
 क परिवार; अंगरक्तक परिवार ते जोई, कोमि
 निवाणु कावमीया जोई,कोमि निवाणु अइ आयत
 टोली,कोमि निवाणु पान तंबोली ॥जी.१९॥माव-
 त पांरुव जाणज्योरे, कोम निवाणु निवाणु; आठ
 कोमि ते स्वाननीरे, सत्परी कोमि वखाणु; सत्प
 री कोमी ते गामा रूमा,लाख चोरासी बोले सूमा;

शाहलल्लुभाइ वल्यमदास अवेरीवाढानीशापोल अमदावाद६ ?

कोमि निवाणु मीठा बोला, त्रणकोरु वाजिं
त्रना रमजोला ॥जी. १३ ॥ इम अनेक चक्रवर्त्त-
नीरे, बोली ऋषि अपार, ते ठोमीने ततखिणेरे,
लोधो संजम ज्ञार; लोधो संजम ज्ञार ते सार,
जाण्योजेणे अश्रिर संसार; तीर्थंकर पदवी श्रीका
र, जोगवी पहोता मुक्ति मज्जारा ॥जी. १४ ॥ तपग-
ठ नायक वंदीयेरे, श्रीविजयकृमा सूरिराय; कां-
तीसागर पंढित वरूरे, तास तणे सुपसाय; तास
तणे सुपसाय कहाया, समरथ्र शांतिजिनेश्वरध्या
या; जसवंत सागर पंढित राया, शिष्य जिनेंइ
सागर गुण गाया ॥जी०१५॥

॥ आदि जिन स्तवन-राग चोपाइ ॥

श्रीयादेश्वर प्रणामुं पाय, नात्ती सुत मरुदेवी
माय; धनुष्य पांचसें उंची काय, वनिता नगरी
केरो राय १ प्रथम तीर्थंकर ऋपन्न जिणंद, जिन
मुख देखे अति आणंद; तेइ तणा पाय अनुस-
री, पाप आलोकं परगट करी २ चिहु गति मांहे

जमतां जेह, कर्म कुकर्म कर्या वली तेह; ते स-
 घला तुं जाणे सही, पाप आलोउं हुं गहगही ३
 जलचर अलचर पंखी जीव, सो में हणीया क-
 रतां रीव; कर्म बहु आहेमो कर्यो, मृग मारेवा
 वनमें फिर्यो ४ कर्म हाथ धर्या हथियार, रिणमें
 जोध हएया केइ वार; विण अपराधे दीधा घाय,
 मेढया पाप तणा समुदाय ५ पुर पाटण परजा-
 ल्या गाम; पाप तणा बहु कीधा काम; उदर न
 रेवा खूनज कर्या, नरनारी बहु बंधण धर्या ६ क-
 र्में वन दावानल दीया, स्वामी कर्म इणीपरे की
 या; हंस मोर मृग मंगल दम्यो, तिण कारण हुं
 दुर्गति नम्यो, मांकमने तावडे नाखीया, जीव ज
 यणाए नवि राखीया; विंदु विषधर आदे चांपी
 या; तिणथी कुल नीचुं पामीया ७ चांचण जू अ-
 वगाही जेह, चांप्या मार्या उहव्या तेह; कीडी
 कंथुवो नवि ऊगर्यो, तिण कारण हुं दुर्गति फिर्यो
 ८ मंकोडी मारी धीमेल, लींख कातराने चूमेल;

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास झवेरीवाडानीशापोलअमदावादइ
 दाडुर नदेही ऊपर धस्यो; मारोने हुं डुर्गति व-
 स्यो १० मांखी इलीने अलसीया, मारी कर्म व-
 हू वांधीया; पर्म पुरुष वचने नव रह्यो, ते दुख
 जीवे सबलो लह्यो ११ खांरुण रांधण पीसण ठाम,
 जल ज़रवा वावरवा काम; ज़ोजन सोवण ठा-
 सने चंग, चंदरुवा वांध्या नही रंग १२ सांज तणे
 पम्कमणे जाण, विण चंदरुवे जीवज हाण; देह-
 रासर नवि वांध्या सार, नवि पाळ्यो उत्तम आ-
 चार १३ मृषा तणा मुज लाग्या पाप, ते किम
 ठोरुं जिनवर आप? मंत्र जंत्र बहु कामण कर्यो,
 लोन्ने पाप घणा आचर्या १४ चोरी विसन कर्यो
 नल्लसी, पाप करवा नक्यो धसमसी; परधन खा
 त पाग्निने लीया, स्वामी कर्म इणीपेरे किया १५
 ॥डुहा॥ स्वामी धर्म न जाणीयो सुगुरु न सेव्या
 पाय; समकित झिल नवि राखीयो, माफ करो
 जिनराय! ॥१६॥ ठाल-तेमुज मिठ्यामीडकरुं एराग॥
 परनारी साथे रम्यो, नवी इंडी वार्या; वे-

स्या गमन किधा घणा, साते व्यसन वधार्या ॥
 प्रञ्जुजी पातिक ठोमीये. १७ तुं ठे ठाकर माहरो,
 हुं निगुणो गुणहीण; तो पिण सेवक ताहरो, तुमे
 पूरण प्रविण ॥ प्रञ्जुजीपा. १८ ॥ पाप परिग्रह मेल-
 व्यो, स्वामी हुं अज्ञान; धन धरती में घालीयो,
 नवी दीधो रे दान ॥ प्र० १९ ॥ मदिरा पानज में कीया,
 मधु मांखण जेह; कंदमुल नक्षण में कीया, ला-
 गया पातिक तेह ॥ प्र० २० ॥ दिननां मानमें खंसीया,
 कीधी आशाज जंग; जिनवर धर्म उत्थापीयो,
 किधो मिथ्यात्व संग ॥ प्र० २१ ॥ नीशी जोजन न
 निवारियो, पीधो नीर न गाढयो, अन्नक अथा
 णा में नख्या, जिन वचन न पाढयो ॥ प्र० २२ ॥
 बालक माय विठोहीया, वढ गाय न मेली, पुरु-
 ष तुरंग समारीया, वृह नख्या उखेली ॥ प्र० २३ ॥
 गाम मुकाती हुं थयो, कर्या अकरा कर दंरु; लोन्न लग
 बहु मारीया, बाल स्त्रीयां रंरु ॥ प्र० २४ ॥ मंदिर हाट
 कराविया, कामी रस वाह्यो; धन रमणी संगे र-

शाहल्लुजाइ वल्यमदास अवेरीवाढानीशापोलअमदावाद६५

म्यो, नवि जिन आराह्यो ॥प्र०१॥ आप वखाणी
आतमा, परनिंद्या करतो; मीत्रशुं माया केलवी,
पीरु पापे नरतो ॥प्र०२॥ चतुर पणे चानी करी,
हु लांचज लीधी; वागरी निच वदोरावतां, गया
पातिक वंधी ॥प्र०३॥ कूना तोलज में कीया, अ-
धिका ओठा माप; आपण परनी ओलवी, प्रोढा
लाग्या पाप ॥प्र०४॥ मान घणो मन आणतो, पर-
हांसी करतो; परघर हाणे हर्पतो, गुण नवी उ-
चरतो ॥प्र०५॥ मातपिता नवि मानीया, देव गु-
रूने धर्म; जिनवर धर्म उत्थापीयो, कोधो मिथ्या
कर्म ॥प्र०६॥ सात क्षेत्र नवि साचव्या, नविसा-
धु आराध्या, पुन्य त्रोमी आवय करी, बहु पा-
तिक वांध्या ॥ प्र०७ ॥ दूहा ॥ पातिक प्रोढा में की-
या, हेडे हींसा वात, आप सवारथ कारणे, कीधी
परनी घाता ॥ ३ ॥ ठाढाल-गौतम समुद्र कुमार. देशी.

कीया कर्म इंगाल आगर इंटना, नीवा अगन
पचावीयाए, करसण वाढी वाग वली वृक्ष ठेदोया,

पूष्य पत्र वली चुंटीयाए॥३३॥गाम्ना हल दंताल
वेच्या वावर्था, में माग्या बहु आपीयाए; नून्य फो-
नादिक कर्म सरोवर सोसव्या; मञ्ज कञ्ज बहुमा-
रीयाए३४विणज कूविणज तेह सोपिण में की-
या, दंत चरम नख केशनाए, सहस्र मेंण घन-
सार प्रेमे पोइसमा, आगर जइमें वहोरीयाए ३५

ढाल. चौपाइ॥ लाख तणो कीधो व्यापार, सा
जी साबू सोमलखार; लूण गुली अरणेटो वली,
वहोरी मन हुवो बहु रली३६ मणसील तूंअर ने
धाहमी, विणज न मृक्यो एके घमी; वली विष
केरी वहोरी जात, पाप कर्म कीया दिन रात ३७
मधु मांखणने टंकण लीण, इण विणजे हुवे न-
वहीण; दूपद चौपद लेइ वेचतो, पाप करंता ऊ-
जम अतो३८लोह विणज वार्या जिन जेह, पि
ण में आदरिया नित्य तेह; लोढाना वेच्या हथि-
यार, न कर्यो पाप तणोज विचार३९ सुढया अ
नने वहोर्या सही, ते नरज्या खांज्या गह गही;

घाणी तल पीलाव्या जाण, नवि पाली जिनव-
रनी आणध०अनर्थ दंरु न वार्या आप, हांस क-
तूहल लाग्या पाप; चोर सती वां लेवा घस्यो,
पाप करंता अती उलस्यो४? दोय घनी सामाधिक
तणी, ते में नव कीधी आपणी; पोपो एक न
प्रेमे कर्यो, हाय! हुंतो दिन रयणे फर्यो ४२ पाप
तणा गुंध्या जंजाल, कीधा कर्म थयो विकराल;
देशावगासिक दशमो व्रत, ते में नवि कोधोज
वैवित्रा॥४३॥साधु साधवीश्रावक सोय,सेवा नक्ती
न कीधी कोय; मन शुद्धे नवि दीधो दान, तो
किम लक्ष्मी लहु निधानधधतिर्थनू मन चाले गयो,
नाटिक जोवा ऊजो रह्यो; असती पोप कर्या में
वहू, तुं जिन पातिक जाणे सहू ॥४५॥

सुमति नाथनी सुमति प्रदाता-देशी॥इणी पेरे पाप
कर्या बहु प्रेमे, पून्यनी वात न जाणीरे; नव अ
नंता इणी पेरे हाय्यो, न शुणी जिनवर वाणीरे,
४६॥ त्रिभूवन तारण तुज विण उजो, अवरनही

कोइ स्वामीरे, तुं ठांमे तो प्रञ्चु हूं छूटुं, करो कृपा
 शिव गामीरे॥त्रिञ्चूवन तारण०४७॥राय प्रदेशीने
 जिम तार्यो, धन्य केसी गुरु जीवारे; तुंतो तिर्थ
 कर प्रञ्चू पहिलो, तीन चूवननो दीवारे ॥ त्रि०४८
 त्रिसलानंदन वीर मनोहर, चंडकोसीयो तार्यो रे;
 शांतीनाथ तणे वली जीवे, पारेवो उगार्योरे॥त्रि०
 ४९॥हुं आव्यो प्रञ्चु सरणे तारे, मनथी नवि वि-
 सारोरे; सकल पाप तणो ज्ञय टाली, ऊतारो ज्ञ
 व पारोरे ॥ त्रि०५०॥ विनती करतां करुणा आई,
 चूख्यो ठाकर महारोरे; सकल पाप तणो क्षय की
 धो, तुं मोटो जग तारोरे॥त्रि०५१॥पूर्व पून्य तणो
 अंकूरो, प्रगट थयो मुज आजोरे; सत्रुंजय स्वा-
 मी नयण निहाड्या, सहु सरीया मुज काजोरे ॥
 ॥त्रि०५२॥ संवत सोल ठासठने वर्षे, श्रावण शुद्ध
 दिन बीजोरे; त्रांबावती नयरी जिन साखे, पाप
 पखाली रीज्योरे॥त्रि०५३॥कलस॥तुं तरण तारण
 उरित वारण, स्वामी आदि जिणंद ए, प्रञ्चू नाञ्जी

नंदन नयन निरख्यां, होवे अती आनंदए ॥५४॥ तप-
गष्ट ठाकर वचन साकर, विजयदेवसुरी तणा; शाह
सांगण सुत रिषन्न बोले, पाप आलोइ आपणा. ५५

॥ आदिजिन विन्तीरुप स्तवन ॥

जिनजी जाणरे ते दिन वीसर्या, चन्न गय न्न-
मण विचार; देव दयालु दरिशाण दीजिये, जिम
न पडूं संसार ॥जि०१॥ आदि निगोदे पुत्रल पू-
रीया, सूक्ष्म वादर जेद; ज्यादिक करी चार
प्रकारशुं, पाम्यो बहु विघ खेद ॥जि० २॥ पुढवी
पाणी अग्नीने वायरो, वनस्पतीय मऊार; दुती
चौरिंदी पंचेंदी पणे, काल अनंतो धार ॥जि०३॥
कही एक खणीयो माटी पणे, कही एक जलमें
पीघ; कही एक उन्ही अग्नीये वालीयो, पवन उ
रानी दीध ॥जि०४॥ वनस्पतीमें ठेदन जेदना, की
षा कट्टुका कोडि; रस करवाने जंत्रे पीलीयो, मा
यां माली मोडि ॥जि०५॥ ठोली ठेदी ठणी वृंदो
कीयो, ऊपर दीधुं लूण; खाधो इंझी लंपट माणसे,

तिहां मेलवे कूण॥जि०६॥साधारणमें साधारण
 पणे, निवसे जीव अनंत; एकज कटके खाधे कं
 दने, ते सहूए विण संत ॥जि०७॥ गाजर सूत्रा
 जाजी पालमें, हुं वेचाणो देव; चांगल चांगल मा
 कीणा वरु, कीजे शो अहमेव! जि०८॥ खांरुण
 पीसणमें हुं आवीयो, तस आवर पिण चूरि; लट
 मकोमा कीमी जुं पणे, मार्यो चांपी चूरि॥ जि०९
 जलथल खचरमें हुं ऊपनो, मार्यो मांडी घात; पं
 खी जाते सिंचाणे ग्रह्यो, हणीयो तिहां विलख
 ता॥ जि०१०॥ हिंसा करमें हिंसा आचरी, पहुतो
 नर्क मजार; ठाकुरजी तिहां वेदना आकरी, पा
 म्यो विविध प्रकारा॥ जि०११॥ नरगां उतरतो ग
 र्ज वासमो, जीव पाम्यो बहू वार; कलमल जंवा
 ला मांहे, तिहां वसियो वार हजार ॥जि० १२॥
 नीचुं माथुं उंचा पग रहे, गोमा हीयमा वार; आं
 ख्यां आगे मूठी राखवी, जणणी जठर मजार॥
 जि०१३॥ अग्नी वर्ण करी कोइ एक सूयिका, चां

शाहलल्लुजाइ वल्यमदास ऊवैरीवाढानीशापोलअमदावाद७१

पे रोमा थान; आठ गुणी गणो एहथो, वेदनां ग
र्जावास वखान ॥जि०१४॥ योनी चंत्रे वेदन अ-
ति सही, वाळपणानां दूख; ताठ ताप वर्षा व्या
घो घणी, सही तिहां तरस झूख ॥जि०१५॥क्रमें
क्रमे योवननी पयडी चड्यो, व्याप्यो विषय क
षाय; कार्य अकार्य जे जे में कीया, तुं जाणे जि
नराय ॥जि०१६॥ परधन देखी अमधन पूरतो,
मन आणी बहु रीस; तीव्र प्रणामें वांध्या कर्मजे,
तुं जाणे जगदीस ॥जि०१७॥ पुण्य विशेषे सुरनी
गति लही, तिहां अविषया व्याप; परदेवीने रूपे
मोहीयो, तिहां विडव्यो आप ॥जि०१८॥ इणीपे
रे चिहुगती फेरा में करी, सहीया वहु संताप; ता
स विवरणा विवराशुं कही, तुं जाणे माय वाप
जि०१९॥ देव तुमारे वचने शांजर्या, जे जे दीठा
दूख; ते संजारतां हीयमो गहगहे, नागी निझ
झूख ॥जि०२०॥ हम तुम विञ्चे पापी पिशुनडो,
मोह करेठे शेह; खारीलो ते अतो खारे ज्यो, तु

म विचे करै विठोह ॥जि०११॥ किरपा दृष्टे जो
 मुज सादसुं, जिम वयरी वस आय; सुजस वधे
 जिनजी तुम चौ गुणो,सेवक काम सराय॥जि०
 ११॥ तुं जग पीयर तुं जग राजियो, तुं जगनो प्र-
 तिपाल, जगदानंदन तुं जगजीवनो, तुं मोटो नूपा-
 ल॥जि०२३॥कलश--तुं मोटो नूपाल पृथ्वी पति,
 प्रथमनाथ मरूदेवी तणो;आहरुपुर मंरुण अदन्नूत
 महिमा, आप देव उल्हास पणो;आज सनाथ हुआ
 सेवक जन, आज फलीआशा सघली; गुणसागर
 वीनवे आदि जिनेश्वर,तुम नूक्यां आनंद रली॥१४॥
 ॥श्री समकीत स्तवन—राग सोरठ ॥

श्री जिनप्रतिमा हो जिन सरखी कही, दीगं
 आणंद अंग; समकित विगडे हो संका कीजंता,
 जिम अमृत विष संग॥श्री०१॥ आज नही कोइ
 तिर्थकर इहां, नही कोइ अतिसयवंत; जिनप्रति
 मानो हो एक आधारठे, आपे मुक्ती एकंत॥श्री०
 २॥ सूत्र सिद्धांत हो तर्क व्याकर्ण ज्ञएया, पंदि-

शाहलल्लुजाइ वलयमदास श्वेरीवाढानोशापोलअमदावाद७३

त पिण कहे लोक; जिन प्रतिमाने हो जे माने
नही, तेहनों सघलो फोक ॥श्री०३॥प्रतिमाने आ
गेहो नमुथुणं कहे, पूजा सत्तर प्रकार; फल पिण
बोळ्यां हो हित सुख मोक्षनां, डुपदीने अधिकार
॥श्री०४॥ रायपसेणी हो ज्ञाता जगवती, जीवा-
ज्जिगमादि मांऊ; ए सूत्र माने हो प्रतिमा माने
नही, माहरी मायने वांऊ ॥श्री०५॥ साधुने बो-
ळ्यो हो जावस्तव जलो, श्रावकने ड्य्य जाव; ए
बिहु करणी हो करतां निस्तरे, श्रीजिन प्रतिमा
प्रजाव ॥श्री०६॥ पारसनाथ हो तुज प्रसादथो,
सरदहणा मूज एह, जव जव होज्यो हो समय
सुंदर कहे, श्रीजिनप्रतिमा शुं नेह ॥श्री०७॥

॥ श्रीनेमी जिनस्तवन—राग खंजायती ॥

नेम कुंवर वीढ विराजे, जादव जानी केशरी
था; महाराज चढे गजरथ तुरीयां. ए आंकणो ॥
अंसी सहस सेजवाले साथे. मंगल मुखो गावे
गोरीयां ॥म०॥ अंग प्रचंरु महावल मंगल, गात

वडा सोहे गिरीयां॥म०१॥ ऐरावत सम अंग सुचं
गा, सोवनमें साकत धरोयां ॥म०॥गंग तरंग च-
पल गति गाढा, खेत खरा करता खरीयां॥म०२॥
अश्व अनोपम उंचा सोहे, हींस करे हेंवर हरीयां
॥म०॥ वड वखती प्रभु तोरण आये, साथ घणा
चूप संचरीयां॥म०३॥ अपठर सरखी राजूल रं-
जा, गोख चडी जेवे गोरीयां॥म०॥जयजयका-
र हुवो जगमांहे, रमणी राजूल रंगे वरीयां॥म०४॥
अग्निनव इंद्र विराजे प्रभुजी, सरखी जोडी ज-
ली मिलियां॥म०॥राजेमती तन चूषण सोहे, ख
लके कंकण कर चूडियां ॥म०५॥ दखण प्रभुजी
तोरण आये, खंजाइत राजन जुमीयां॥म०॥तोर
णसें प्रभु फेर सिधाये, चंद्र कहे मुगते मिलीयां ६

॥ श्रीवीरजिन स्तवन-राग सारंग ॥

अनंत तिर्थंकर संकर केरी, आणा लेइ गुण-
वती; बत्तीसबध नाटिकनी रचना, जोमे जावे स
चोपती॥ प्रभु आगल नाचे सुरपती० १॥ पेहेलो

जोजन एक प्रमाणे, शुद्ध करे तिंहा वसुमती; त-
दन्तर अंतर तसजागे, विरचे पीठीका सोज्जती
प्र०३॥ वाम नूजाथी अठोत्तरसो कुमरी विरचे म
लपंती; तिम दक्षिण दिशी नूजाहुंती, कुमार पं
क्ती जाणे रतीपती॥ प्र०३॥ तननन तननन रीरी
ताने, ततथेइ ततथेइ नाचंती; धपमप ध्रोंध्रों मा
दल वाजे, वाजे वीणा ऊणकंती॥ प्र०४॥ तवल मं-
जिरा जेरी नफेरी, मधुर स्वरे ते नाचंती; सप्त
स्वर तीन ग्रामे मीलती, रागना घोळणा घोळंती
॥ प्र०५॥ विचविच ईंझाणी वली नाचे, सोवन चू
नीयां खलकंती; घूमरी लेती फूदडी फरती, को-
मल वेह मरोडंती॥ प्र०६॥ तानरुमान सुगान ए
तीनुं, नविचूके तिंहा एक रती, सुरनर किन्नर अ
सुर विद्याधर, जोवे गणधर नूपंती॥ प्र०७॥ एवेरे
नाटिक मास ठ ताई, ऊजा जोवे केइ व्रती; तो
पिण नूख तृपा नवी लागे, श्रीजिनराज प्रजाव
थो॥ प्र०८॥ एह नाटिक जेणे दीठो होशे, धनध-

न तेहज गृहपती; जसवंत शिष्य जिनेंद्र ते ना
टिक, जोवण उलसित ठे अती ॥प्रण॥

॥ श्रीपार्श्वजिन स्तवन—रागसोदागर ॥

वयण अमारो लाल हयमे धरीजे, सेवक उप
र साहेब महेर करीजे लालमण पास जिणेसर
वाल्हा अर्ज शुणीजे, अर्ज शुणीजे अंतर खोली
मीलीजे लालखोणपासजिणे०१॥ तुज विण कोइ
लाल अवर न ध्यावुं, तुज विण अवर न हीयमे
रहाउ, लालही.पा.१॥ प्रत्यक्ष तुंतो लाल कामण
गारो, तन मन हेरीने लीधो अमारो॥ला.ली. पा.
३॥ अन्न न जावे लाल पाणी न जावे, दीठावी-
ना वाला नींद न आवे ला.नीं.पा.४ ॥ मेंतो तम
साथे लाल प्रीत वणाइ, प्रीत वणाइ तिणमें खो
रु न कांइ ला. खो.पा. ५ ॥ रात दीवस लाल तु
मने चितारुं, सूतां स्वप्नामें वाला अधिक संज्जारुं
ला.अ०पा०६ ॥ हुंतो राखुबुं लाल आश तुमारी,
आश पुरो थें ठो परउपकारी ला. प. पा०७॥ जे

गिरुवा तेतो वेह न दाखे, पोताना जाणी संका
 नाम न राखे.ला.ना.पा.७॥ कृपण थइने लाल वे
 शी जो रहेशो? तो जगमांहे किर्ति किणविध ल-
 हेशो?ला.कि.पा०९॥मनना मोटा लाल थाओ तो
 वारू,सहु मांहे जस लहिये करतव सारू;ला.क.पा
 १०॥ एवा निस्नेही लाल निपट न होइजे. तम
 ने सहु सेवक सरखा राख्या जोइजे; ला.स.पा७
 ११॥नयण सलूणा लाल सन्मुख जोवो, रीस न
 राखो मनमें सुप्रसन्न होवोला.सु.पा०११॥अश्वसे
 न नृप कुलमें रविचंदा, वामाराणीना नंदा आ
 पो आनंदा ला.आ.पा७१३॥तुं जगनायक लाल तुं
 जिणचंदा,कहेजिनहर्ष तुमारा हुं वंदा ला तु.पा.१४
 ॥ श्रीपार्श्वजिन स्तवन—पारणानोराग ॥
 माता वांमादे वोलावे जमवा पासने, जमवा वे
 ला थइठे रमवाने चित जाय; चालो तात तुमा
 रा बहु थाये ऊतावला, वहेला हालोनेजोजनीया
 टाढा थाय॥मा०१॥मातनुं वचन शुणीने जमवा

ने बहु प्रेमशुं, बुद्धी बाजोठ ढाली बेठा थइ हुंशी
 थार; विनय थाल अजुआली लालन आगल मू-
 कीयो, विवेक वाटकीयो सोजावे थाल भजार॥
 मा॥शासकित सेलडीना गेलीने गट्टा मूकीया,
 दाननां दाढम दाणा फोली आप्या खाल; समता
 सीताफलनो रस पीज्या बहु राजीया, जुको जा
 मफल प्यारा आरोगोने पास॥मा०३॥मारा ना-
 नडीयाने चोख्खा चित्तनां चूरमां, सुमती साकर
 ऊपर ज्ञावसु जेलुं धरत; जकी जजीया पिरस्या
 पास कुमरने प्रेमशुं, अनुभव अथाणा चाखोने
 राखो सरत॥मा०४॥प्रचुने गुण गुंजाने ज्ञान गुं
 दवडा पीरस्या, प्रेमना पेंडा जमज्यो मान वधा
 रण काज; जाणपणानी जलेबी जमतां ज्ञागे नू
 खनी, दया डुधपाक अमीरस आरोगोने आज ॥
 मा०५॥संतोष सीरोने वली पून्यनी पूरी पीरसी,
 संवेग साक जला ठे दातार ढीली दाल; मोटाइ
 मालपुवाने प्रजावनानां पूडला, विचार वनी व-

घारी जमज्यो मारा वाल ॥मा०६॥रुची रायता
रुडां पवित्र पापड पीरस्यां, चतुराइ चोखा ओ-
शावी आएका नरपूर, नपर इंझी दमन डुध तप
तापे तातु करी, प्रीत्य पीरस्युं जमज्यो जगजी-
वन सहनूर॥मा.७॥प्रीती पाणी पीधां प्रजावतो-
ना हाथथो, तत्व तंवोल लीधां सिधल सोपारी
साथ; अकल एलायची आपीने माता मुख वदे,
त्रिभूवन तारी तरज्यो जगजीवन जगनाथ॥मा.
८॥ प्रभुना थाल तणा जे गुण गावे ने सांजले,
जेद जेदांतर समजे ज्ञानी ते कहेवाय; गुरु गु-
मान विजयनो शिष्य कहे शिर नामीने, संदा
सोजाग्य विजय थावे गीत गाय सदाय ॥मा०९॥

॥ श्रीपार्श्वजिन स्तवन-देशी जलानो ॥

मेरे तो तेरे दीदारथे, दिलन्यंतर चाहेरे; वादल
भूसूर ज्युं चुप रहे, हम कोन गुनाहेरे ॥ वामाजी
के नंदना संखेश्वर साई रे.१॥ रातदिवस सृतां जा
गतां, तुम मेरे गुसाई रे ॥वा०१॥ जैसे चकोरा हो

चंदधे, तेसे वड्या सुरहीरे; वडुआ देखत मातकुं,
जेसे वालम विरहीरे ॥वा.३॥सूर देखी चकवा ह
से,जसे घन मोरारे; तेसे प्रभु दीदारथें, दिल ह-
रिखितमेरारे॥वा०४॥जक्त वडल जगवंतजी, तुम
विन कुण आगे रे? नोहरा करी करी जोरथें, मन
वांछीत मागेरे?वा०५॥ काम क्रोध माया विषे,
खपटाणो नदारोरे; विरुद पतित पावन तणो सो,
तुमारो सुधारोरे॥वा०६॥ घर घर वन वन डुंढतां,
जो कबहुं पावुंरे, तो में हारिषित होयकें, प्रभु वा-
जा वजावुंरे॥वा०७॥ पूरव पुन्य पसायथी,सबही
वन आईरे; सुगुरु सुधर्म सुवासना, शुभ्र पदवी
पाईरे ॥वा०८॥जो तुम बोमो साहिबा, हम तोही
न बोमुरे; चरण अही वीनती करुं, प्रीत्य सुत ज्युं
जोडुंरे ॥वा०९॥ चुनचुन कलियां चंपकी, माला
पहेरावुंरे,केशरकी अंगियां रचुं,सो दिन कब पावुंरे!
वा.१०॥तुमतो हमारे साहिबा,हम दास तुमारोरे;
उत्तम दरिशन पाईया,वड ज्ञाग्य हमारोरे॥वा.११॥

शाहलल्लुभाश्वल्यमदासश्वेरीवाढानीशापोलअमदावाद ८१

स्वर्ग मृत्यु पातालमें, जिन सेवा कीनीरे; तिनसे दे
व दया करी, निज पद्मीदीनीरे ॥वा०११॥ चरण
सरण तोरो कीयो, जलो जानां सो करीयो रे;
प्रज्जुजीनो दरिशाण देखतां, निज काज सब स-
रीयोरे ॥वा.१३॥ श्री कुशलसागर वाचक तणो,
शिष्य चरणनो रसियोरे, उत्तम सागर वीनवे,
वीनती चित्त धरियोरे ॥ वा. १४ ॥

॥श्रीसत्रुंजय जिन स्तवन ॥

मोरा आतमराम किए दिन सेत्रुंजे जाशुं ?
सेत्रुंजा केरी पाजे चढतां, ऋपन्न तणा गुण गाशुरे
मो०१॥ ए गिरिवरनो महिमा निशुणी, हड्डे स-
मकित्त वासुं; जिनवर ज्ञाव सहित पूजीने, ज्ञव
ज्ञव निर्मल थाशुरे॥मो०२॥ मन वच काया शुद्ध
करीने, सूरजकुंडमां न्हाशुं; मरुदेवानो नंदन नि-
रखी, पातिक दूर पलाशुरे॥मो०३॥ इणगिरि सि-
द्ध अनंता सिध्या, ध्यान सदा तस ध्याशुं; सकल
जनममां ए मानवज्ञव, लेखे करी चित्त लाशुरे॥

मो०४॥ सुरवर पूजीत प्रभु पदकज रज, निलवट
 तिलक चढाशुं, मनमें हरखी मुंगर फरसी, हड्डे
 हर्ष वधाशुरे॥मो०५॥ समकित्ती साधरमी साथे,
 सद्गुरु संग मिलाशुं; छहरी पात्नी पाप परखाली,
 दुर्गती दूर पलाशुरे॥मो०६॥ मिथ्यात्व वासुं सम
 कीत पासुं, गिणतीमां त्यारे गणाशुं? नय विमल
 केहे धन धन ते दिन! परमानंद पद पाशुरे॥मो०७
 ॥मौन एकादशीस्तवन-वैरागीथयो एदेशी॥

प्रणमी पूछे वीरनेरे, श्रीगोयम गणराय; मृग
 शिर शुद्धि एकादशी रे, तपथी शुं फल आयरे ॥
 जिनवर उपदीसे तिंहा सांजले सहु समुदायरे॥१॥
 वीर केहे गोयम शुणारे, हरी आगल कह्यो नेम;
 तेम तुम आगल हुं कहुं रे, सांजलो मन धरी प्रे-
 मरे॥जि०७॥ द्वारिकानयरी समोसर्धारे, एकदिन
 नेम जिणंद; कसन आव्या तिंहा वांदवारे, पूठे प्र
 श्र नरिंदरे॥जि०३॥ वर्ष दिवसनां दिन मिली रे
 तीनसो साठ कहंत; तेहमां दिन कुण एहवारे

तपथी बहु फल हुंतरे? जि०४॥मृगशिर शुद्धी ए
कादशीरे, वर्णवी श्रीजगनाथ; दोढसो कळयाण
कथ्यारे, जिननां एकण साथरे॥जि.५॥ श्रीअर
जिन दीक्षा ग्रहीरे, नमीने केवल नाण;जन्म दी
क्षा केवल लह्यारे, श्रीमल्ली जग ज्ञाणरे॥जि०६
वर्तमान चोविसीनारे, ज्ञर्त्ते पंच कळयाण; ए पां
चे ज्ञरते थडरे, पंचाधिक वीस जाणरे ॥जि०७॥
पांचे ऐरवर्त्ते मिलीरे, कळयाणक पंच पंच; दश
त्रि सहुए मिलीरे, पचास कळयाणक संचरे ॥जि०
८॥ अतीत अनागत कालनारे, वर्त्तमानना वली
जेह; दोढसो कळयाणक कळ्यारे, उत्तम इण दिन
एहरे॥जि०९॥ जे एकादशी तप करे रे, विधीपू-
र्वक गुण गेह; दोढसो उपवासां तणारे, फल लहे
ज्ञवियण तेहरे ॥जि.१० ॥ ढाल वीजी-धोमीतो
आई थारा देशमां मारुजी ए देशी॥ हिवे एका-
दशी तप तणो माधवजी, विधी कहुं निर्मल बु-
द्धो हो गुण रागी नरेशर सांजलो जादवजी; देव

जूहारो देहरे मा० गुरु वंदो ज्ञाव विशुद्धीहो गु ०१
 अहो रत्तो पोसह करीमाण गुरु मुखे करो पञ्च-
 खाणहो गुण देव वंदो त्रण टंकना मा० सांजलो
 सद्गुरु वाणहो गु० १॥ दोढसो कट्याणक तए
 माणगुणणो गुणो एक मन्नहो गु० जणण गुणण
 किरीया विना मा० नवि बोले अन्य वचन्नहो गु० ३।
 मौन ग्रहो निशी दिवसनो माण राखो शुभ परि-
 णामहोगुण मान एकादशी ते जणीमा० निरुपम
 एहवुं नामहो गु० ४ प्रथम दिने एकासणुं मा०
 रणे एहिज रीतहोगुणवार वर्ष तप इम करेमा०
 शुद्ध धर्मशुं प्रीतहोगुण ५॥ अंग अग्यारे ते जणे माण
 पदिमा तप इग्यारहोगुण प्रति मासे उपवासनो
 मा० तप करे निरुपम वारहो ॥ गु० ६॥ सुव्रत शेठ
 तणी परेमा० मन राखे थिरता जोगहोगुणतो एका
 दशमें जवे माण लहे शिव वधु संजोगहोगु० ७॥
 (ढाल त्रोजी-देशी ललनानो) हिवे उजमणुं तप
 तणुं, एकादशी दिन सार ललना, दिन इग्यारे देहरे,

स्नात्र पूजा अधिकार ललना ॥ जगवंत ज्ञाखे ह
 री ज्ञणी ॥ ढोणुं ढोविये देहरे, धान इग्यार प्रका
 लपत्रीफल फोफल सूखडी, नवनवी ज्ञांत इ-
 ग्यार लपत्र०१ केशर सूखड घोतीयां, कांचन क
 अ जंगारल० वृष धाणाने वाटकी, अंगलुहणा
 धनतार ल०ज०३ अंग इग्यारे लिखाविये, पूंगाने
 रमालल०जावी दोरा मावनी, लेखण कांवी नि-
 हल०न०४जीलमल चंडु आज्ञला, ठवणी आ
 ना वाजल०पाटो जपमाला ज्ञली, वासना वटु-
 आ साजल०५नीजणाने वली पूंजणी, कवली
 कोथली तामल०रेसमनी पाटी रुयनी, मुहपत्ती
 जयणा कामल०ज०६॥ज्ञानना ऊपगरण ज्ञला,
 इग्यार इग्यार मानल०साधर्मिक इग्यारने, पोपी
 ले पकवानल०ज०७॥ते सांज्ञली हरी हखिया,
 अरे व्रत पञ्खाणल०तिथि एकादशी तप करे,
 बार वरस गुणखाणल०ज०८॥ तिर्थंकर पद तिण
 थकी, गोत्र निकाचित कीवल० अमम नामे जिन

बारमां, होसी तप फल सीधल०न्न०ए इण विष
 श्रीवीरे कह्यो, ए अधिकार अशेषल० तेह ञणि त
 प तुमे आदरो, लेशो सुख सुविशेषल०न्न० १०॥
 (कलश)श्रीवीर जिनवर सयल सुखकर वरणवा
 एकादशी, तै शुणीय वाणी ञविक प्राणी तप क
 रण मन उल्लशी; जशवंत सागर सुगुण आगर
 शिष्य जिनेंइ सागरे, एकादशी यह स्तवन की
 घो शुणीय ञवियण आदरे ॥११॥

॥ श्री सिद्धचक्र स्तवन. देशीञवियानी ॥

सकल कुशल कमलानो मंदिर, सुंदिर महिमा
 जास; नवपद मय नवनिधीनो दाता, सिद्ध अनेक
 निवासरे ञवियां सिद्ध चक्र सुखकारी, आराधो
 नरनारी रे ञवियां सि०श॥प्रथम पदे अरिहंत आ
 राधो, फटिक रत्न समवान, पद्मराग मणी पेरे
 राता, बीजे सिद्धनुं ध्यानरेञ०सि०श॥ त्रीजे अ
 चारज अनुसरिये, कांचन कान्ती अनूप, पद चो
 थे उवजायने प्रणामो, इंडनील सम रूपरेञ०३॥

सर्वसाधु पद पांचमें समरो, साम वरण सुख-
 कार; ठवे दरिशन ज्ञान सातमे, आठमें चारित्र
 साररे ज्ञ०४॥ तपनुं आराधन पद नवमें, चारेही
 उज्वल वर्ण; पहिलो गौतम तेहिज मंगल,कीजे
 एहीज सर्णरेज्ञ०५॥आसो चैत्री अठाइ मांहे,नव
 आंवल नव ओली; सिद्ध चक्रनी पूजा करतां,दूख
 सवी नाखे ढोली रे ज्ञ०६॥ सिद्ध चक्रनी पूजाथी
 सघली, संपत्ती निज घर आवे, छष्ट कुष्ट प्रमुख
 जे रोगा, तेपिण दूरे जावेरेज्ञ०७॥ नयरी नजेणी
 पृथ्वीपाल राजा, पुत्री दोय तस सारी; सुरसुंद-
 री मिथ्या मती माणो, मयणा जिनमत धारीरे
 ज्ञ०८॥ सुरसुंदरी कहे सवी सुख अमने,तात तणे
 सुपसाय; मयणा कहे एह फोक खुशामत,सुख
 छख कर्म थायरेज्ञ०९॥ते वचने कोप्यो नृप एवे;
 आव्यो उंवरराय, सातसें कोठी तणो अधिकारी.
 तिण मागी कन्यायरे ज्ञ० १०॥ नृप कहे मयणा
 तुज कर्म, ए वर आव्यो रसाल! तव मयणा मन

धैर्य धरीने! कंठ ठवी वरमालरे! ज्ञ०सि०? १॥ शुभ
 वेला परणी दाय पहोत्या, श्रीजिनवर प्रासाद;
 प्रथम देव पूजी गुरु पासे; आव्या घरी आल्हादरे
 ज्ञ०१२॥ प्रणमी मयणा कहे प्रभु एहवो, जाखो
 कोइ उपाय? जेहथी तुम श्रावकनी काया, सही
 निरोगी आयरे !! ज्ञ०१३॥ गुरु कहे अमने मंत्र
 यंत्रादिक, करवानो नही आचार? योग्यपणुं जा-
 णी तुम्हे कहीये, करवाने उपकाररे ज्ञ०१४॥ नव
 दिन नव आंबिल तप करीने, सिद्धचक्र नित्य पू-
 जे; नवण तणुं जल अंगे ठांटे, रोग ते सघला ध्रु-
 जे रे!! ज्ञ०१५॥ गुरु वचने आंबिल तप करतां, सि-
 द्ध चक्र आराध्यो! उंबर कोढ गयो सहु दूरे, रूप
 अनूपम वाध्योरे ज्ञ० १६॥ श्रीश्रीपाल नरेइ थयो
 ते, ! परण्यो बहु कन्याय ! प्रजापाल पिण थयो
 समकीती ! श्रीजिनधर्म पसायरे! ज्ञ० १७॥ अनुक्रमे
 राज लेइ चंपानुं, पाले अखंभित आण; जग मांहे
 जस वास थयो बहु, नित नित रंग मंडाणरे ज्ञ०

१०॥ ते माटे ज्ञवियण बहु ज्ञावे, सिद्धचक्र करो
 शेवा; यह ज्ञव परज्ञव बहु सुख संपती, जेम पा-
 मो स्वय मेवारे ज्ञण१ण॥ महा मंत्र परमेष्ठी तणो
 ए, ज्ञवडुख नासे तंत्र; सकल सिद्धी वस करवा
 अर्थ, एह अनोपम यंत्ररे ज्ञ० २०॥ एहनो महिमा
 केवली जाणे, किम ठद्वस्थ प्रकासे; ते माटे ए
 सकल धर्मथी, सार धर्म जिन ज्ञासेरे ज्ञ० २१ ॥
 सुरत वंदर रही चोमासो, स्तवन रच्यो ए वारू;
 संवत सत्तर वासठा वर्षे, संघ सकल हितकारूरे
 ज्ञ० २२॥ सिद्ध चक्रनी महिमा शुणतां, सुख संप-
 ती श्राय लारी; श्रीविजयराजसरिश्वर विनवे, दान
 विजय जयकारी रे ज्ञ० सि० २३॥

॥ श्रीनवपद स्तवन ॥

नवपद महिमा ध्यावोहो, गुण गावो तनमन
 ज्ञावशुं, कांइ सफल करो अवतार; आतम तत्त्वनुं
 सोधकहो, अनुबोधक निर्मल ज्ञाननुं, कांइ ज्ञव
 रोधक करतार ॥ न० १॥ परम पदारथ दायकहो,

गुण लायक नायक मोहनं, कांइ सिद्ध चक्र पद
 सार, केइ तर्या केइ तरशे हो, जवि शुद्ध मन
 एहने सेवतां, कांइ जिम होय जवनो पार॥ न०
 ३॥ अरिहंत सिद्ध वली सूरीहों, उवजाय मुनी-
 वर दीपतां, कांइ दरिशाण ज्ञान प्रमाण; चरण क
 रण तप ध्याता हो, जगमाता राता धर्मना, कांइ
 परम पुरुष परधान ॥ न० ३ ॥ मयणा सुंदरी साची
 हो, गुण राती जिनमत रागिणी, कांइ पूज्यो श्री
 सिद्धचक्र; श्रीपाल नरेशर ध्यायो हो, गुण पा-
 यो परतिख पेखतां, कांइ परत कियो जवचक्र॥
 न० ४ ॥ अंतर यामी स्वामीहो, शिव गामी आरा
 मी कामनुं, कांइ परमात्म प्रतिज्ञास; आत्म
 तत्वनुं योगीहो, उपयोगी निज गुण जोगनुं, कांइ
 तरणी सम परकास ॥ न० ५ ॥ पतित उधारण ता
 रणहो, जव वारण कारण सिद्धनुं, कांइ धारण
 निर्मल ज्ञान, सेवक जन एक तारी हो, निरधारी
 आरी शेवना, कांइ करी में ते मन मान ॥ न० ६

शाहलल्लुजाइ बल्यमदासज्ञवेरीवाढानोशापोलअमदावाद.९१

अधिष्टायक सुर जेहना हो, घणुं तेहना संकट चूरवे;
कांड पूरवे वांढीत कोरु; सिद्ध चक्र मन वसियोहो,
शिवरसियो उलसित ज्ञावगुं; कांडवंडवेकरजोरु. ७

॥ जिनपूजा स्तवन—देशी ज्ञविकानी ॥

श्रीजिनविंव जुहारो, आतम परम आधारोरे ज्ञ-
विकाश्रीण॥ जिनप्रतिमा जिन सरखी जाणो, नक
रो शंका कांड, आगम वाणीने अनुसारे, राखो प्री
त सवाशरे ज्ञश्री. १॥ जे जिन वीव स्वरूप न जा
णे, ते कहीये किम जाण, जूड्या तेह अज्ञाने ज्ञ
रीया, नहीं तिहां तत्व पिठाणरे ॥ ज्ञश्री १॥
अंवरु श्रावक श्रेणीकराजा, रावण प्रमुख अनेक;
विविध परे जिन ज्ञक्ती करतां, पाम्या धर्म वि-
वेकरे ज्ञ०३॥ जिन प्रतिमा जिन ज्ञक्ती करतां,
होय निश्रे उपकार; परमार्थ गुण प्रगटे पूरण,
जूवो आङ्कुमाररे ज्ञ०४॥ जिनप्रतिमा आकारे ज-
लचर, ठे बहु जलधी मजार; ते देखी बहुला म-
ठादिक, पाम्या प्रीत्ये ज्ञव पाररे ज्ञ. ५॥ पंचमें अंगे

जिन पूजानो, प्रगटपणे अधिकार; सुरीयात्ते सुर
जिन पूज्या ते, रायपत्तेणी मऊाररे ज्ञ. श्री.६ ॥
दशमें अंगे हिंसा दाखी, यज्ञ पूजा जिनराज,
एहवा आगम अर्थ मरोमी, करे तेह अकाजरेज्ञ.
७॥समकितधारी सतीय डुपती, जिन पूज्या म-
नरंगे; जूवो एहनो अर्थ विचारी, ठठे ज्ञाता अंगे
रेज्ञ.८॥विजयदेवे जिनपूजा कीधी, मन वच का-
या वस्तु साखी; डव्य ज्ञाव वेहु जेदे जाणो, जी
वाज्जीगमठे साखीरेज्ञ.९॥ इत्यादिक बहु आगम
साखे, कोइ संका मत करज्यो? जिन प्रतिमा देखी
नित्य नवलो, प्रेम घणो चित्त धरज्योरे ज्ञ०१०॥
श्रीचिंतामणी पार्श्व पसाये, श्रद्धा होज्यो सदाइ;
श्रीजिनलाज गुरु उपदेशे, श्रीजिन चंड सवाइरे॥

॥ श्री आल्लोयण गर्जित स्तवन ॥

बेकर जोमी वीनवुंजी, शुण स्वामी सुविदीत;
कुड कपट मूकी करीजी, वात कहुं आप वीत
॥कृपानाथ मुज वीनती अवधार, तुं समरथ त्रि-

झूवन धणीजी, तुज शेवकने तार कृपानाथ सु०
 १॥ झवसाथर झमतां थकांजी, दीठां डुख अनंत;
 झाग्य संयोगे जेटीयोजी, झयझंजण झगवंत कृ
 सु०१॥ जे डुख झांजे आपणोजी, तेने कहीये दूख;
 ते दूख झंजण तुने शुण्योजी, शेवकने द्यो सुख
 कृ०३॥ आलोयण लीधा विनाजी, जीव रुखेरे सं-
 सार; रुपी लक्ष्मणा महा सतीजी, एह शुण्यो
 अधिकार कृ.४॥ डुसमें काले दोहीलोजी, सुधो सु
 गुरु संयोग; परमार्थ प्रीठे नहीजी, गडुरी प्रवाहे
 लोग कृ०५॥ तुज आगल मुज पापनीजी, आलो
 यण लेन आज; मावाप आगल वोलतांजी, वा-
 लकने शी लाज! कृ०६॥ जैनधर्म सहुको कहेजी,
 थापे गह्व गह्व वात! सामाचारी जूइ जूइजी, सं-
 सय पड्यो मिथ्यात कृ०७॥ जाण अजाणपणे क
 रीजी, बोळ्या उत्सूत्र वोल; रत्ने काग उमावतां
 जी, द्यार्यो जन्म निटोल कृ०८॥ झगवंत झारव्यो
 ते किंहांजी! किंहांमुज करणी एह !! गज पाखर

खर किम सहेजी! सबल विमासण तेह!! कृ०॥
 आपे परुप्युं आकरुंजी, जाणे लोक महंत; पिण
 न करुं परमादीयोजी, मा.साहस इष्टंत कृ.१०॥
 काल अनंते में लह्याजी, त्रणे रत्न श्रीकार; पिण
 प्रमादे पानीयाजी, क्यां जइ करुं पोकारकृ.११॥
 जाणुं उत्कृष्टी करुंजी, उद्यत करुं विहार; धोरज
 जीव धरे नहीजी, पोते बहु संसार कृ.१२॥ स्व-
 ज्ञाव पड्यो कोइ आपणीजी, नगमे जुंडीरे वात!
 परनिंद्या करतां थकांजी, जावे दिनने रात कृ.१३
 किरिया करतां दोहीलीजी, आलस आणेरे जीव;
 धर्म पखे धंधे पडयोजी, नकें करशे रीव! कृ.१४
 अणहुंता गुण को कहेजी, तो हरखुं निशदीस; को
 हित शिख जली कहेजी, तो मन आणुं रीस कृ.
 १५॥ वाद जितण विद्या जणीजी, पर रंजण उप-
 देश; मन संवेग धर्यो नहींजी, किम संसार त-
 रेश कृ.१६॥ सूत्र सिद्धंत व्याख्यानमांजी, गुण-
 तां कर्म विवाग; कृण एक मनमां उपजेजी, मुज

मरकट वैराग कृ. १७॥ त्रिविध त्रिविध करी उच
रुजी, अहँत् आप हजूर, वारंवार जाखुं वलीजी,
जन्म जरा करदूर कृ. १७॥ सुख माटे सीधिल वनी-
जी, कीधा आरंज क्रोरु; जयणा नकरी जीवनी-
जी, देव दया करी गोड कृ. १८॥ वचन दोष व्या-
पक कह्याजी, दाख्या अनरथ दंरु; कुरु कह्युं बहु
केलवीजी, व्रत कीधा सतखंडकृ. १९॥ अण दीघो
लीजे तृणोजी, तोही अदत्ता दान; ते दूपण ला-
ग्या घणाजी, गणता नावे ज्ञान कृ. २१॥ चंचल चे-
तन चेतें नहीजी, राचे रमणीरे रूप; काम विटं-
वना शी कहंजी, तुं जाणे ते स्वरूप कृ. २२ ॥
माया ममतामें पडयोजी, कीघो अधिको लोभ;
परिग्रह मेळ्यो कारमोजी, न चढी संजम शोभ
कृ. २३॥ लाग्या मुजने लालचेजी, रात्री ज्ञोजन
दोष; में मन मूक्यो मोकलोजी, न धर्यो धर्म सं-
तोष कृ. २४॥ इणजव परजव दूहव्याजी, जीव
चौरासी लाख, ते मुज मिठामी डुकहुंजी, जग-

वंत तोरी साख कृ.१५॥ कर्मादान पत्रे कल्याजी,
 प्रगट अठारह पाप; जे में शेव्या तेहनीजी, व-
 क्षिस द्यो मावापकृ.१६॥ मुज आधार ठे एटलोजी
 सदहणा ठे शुद्ध; जैन धर्म मुज मन गमेजी, जि
 म साकरशुं दूधकृ.१७॥ ऋषभदेव तुं राजियोजी,
 शत्रुंजय शिणगार; पाप आलोया आपणाजी
 कर प्रभु मोरी सार कृ.२०॥ मर्म एह जिन धर्मनो
 जी, पाप आलोया जाय !! मनशुं मिठामी डुकुं
 डुंजी, देतां डुरित पुलाय कृ.२१॥ तुं गती तुं मती
 तुं धणीजी, तुं साहिव तुं देव; आण धरुं शिर ता
 हरीजी, जवजव तोरी शेव कृ.२२॥ कलश ॥ इम
 चढी सत्रुंजय चरण जेव्या, नात्नी नंदन जिन त
 णा; कर जोमी आदी जिणंद आगे, पाप आलोइ
 आपणा; पूज्य जिनचंद्र सूरिश सद्गुरु, प्रथम उ
 ष्य मुजश घणे, गणी सकलचंदजी विनय वा-
 चक, समय सुंदर गुण गणे ॥३१॥

॥ श्रीसीमंधर जिन स्तवन ॥ .

मोरी वीनतमी अवधारो, साहेव सीमंधर म-
हाराज; त्रिजून साहेव अर्ज शुणीजे, दर्शण दी
जे आज ॥मारी.साहे.१॥ आप वस्या महा विदेह
क्षेत्रे, हुं इण जरते राज; एह मेलो किम मिल-
शे साहेव, तारण तरण जिहाज ॥ मो. सी. २ ॥
जर्त विचाले पर्वत म्होटो, नाम वैताढ्य सुसार;
पचवीस जोजननो ठे उंचो, पचास जोजन वि-
स्तार ॥मो.३॥ गंगा सिंधू दोनुं नदीयां, आडी अठे
अपार; सहस्र अठवीस वीजी नदीयां, ए वेहुनो
परिवार ॥मो.४॥ तेह आगे वली पर्वत म्होटो, चु-
ह्मेमवंत नाम; एक सहसने वावन जोजन, वा
रे कला अजिराम ॥मो.५॥ क्षेत्र अठे वली प्रजुजा
आमो, जुगळ्यां केरो वास; इकवीससेने पांच
जोजन, पांचकला आज्ञासा ॥मो.६॥ रोहिता साने
रोहिता नामे, नदीयां महा विस्तार, उपनसहस
वली वीजी नदीयां, ए वेहुनो अधिकार ॥मो.७॥

महा हिमवंत पर्वत म्होटो, जोजन बहु विस्तार;
 चार सहस दोसो दश जोजन, दश कला मनुहार ॥मो. ७॥
 आठ सहस सत चार अनोपम, इकवीस जोजन खास;
 एक कला वलि रूप अनुपम, क्षेत्र अठे हरिवास ॥मो. ८॥
 हरि कंता नेहरि सलोला, नदीयां ठे प्रत्यक्ष;
 बीजी नदीयां ठे प्रज्जु आडी, सहस बारे एक लक्ष ॥मो. १०॥
 निषध पर्वत छे वली मोटो, जोजन बहु विस्तार;
 सोल सहस आठसैं बयाली जोजन. एक कला मनुहार ॥मो. ११॥
 सीता नामे नदी वडेरी, सब नदीयां शिणगार;
 पांच लाख वली बत्तीश सहस, एहनोठे परिवार ॥मो. १२॥
 लाख जोजननो मेरु पर्वत, नाम सुदर्शन सार;
 गजदंता वली मारग विचमें, आवुं कीणें प्रकार? ॥मो. १३॥
 कांचन गीरीवर वारा पर्वत, केम सोल गज नाम;
 ज्जुशाल वन मारग विचमें, आवुं किण विध स्वाम? ॥मो. १४॥
 वेन गरी वली पर्वत मोटा, नदीयां ओघट घाट;
 किण

विध आबुं सुगुणा साहेव!! मारग विसमी वाट !

मो.१५॥ दक्षिण ज्ञर्त्ते हुं वस्यो वालम! पुखलावइ

वस्या आप! किंहा कुमुदी ने किंहा चंड! हम तुम

तेवो मेलाप!मो.१६॥निश दिन ध्यान धरुं धणी

धारी, वसिया हृदय मऊार,जन मन रंजन जव

जय जंजन, जारतीनो जंफारा॥मो.१७॥ संवत अ-

ठारसें इकवीसे, कसन पद्द पोस मास; बीज ति

थी बुधवार अनोपम, जिनपद वंदन ज्ञास॥मो.

१८॥ मनवांछित सुख संपति दाता! पूरो मननी

आज्ञ!खरतर हर्षजी पूज्य पसाये,रूपचंड लखेखास.

॥ श्रीपूजा विधि स्तवन-देशीचोपाइ ॥

प्रणमुं वीर जिनेश्वरदेव, चोसठ इंड जसु सारे

शेव; श्रीजिन पूजा विधिशुं करुं, जिम जव सा-

ह्यर लीला तरुं॥दातण करवुं पश्चिम सद्दी, न्ह

वण पूर्व सन्मुख रही; उत्तर मुख शुज्ज चीवर

धरे, पूर्व उत्तर विचपूजा करे॥ धरेपेशतां वामे

जाग, शुज्ज स्थानक देहराशर लाग; दोंढ हाथ

उंचुं परमाण, दक्षिण पश्चिम प्रतिमा मुख जाण३॥
 पश्चिम सन्मुखे पूजा करे, ते चोथे ठामे संतति
 हरे; दक्षिणे होय संपति नाश, अग्नी खूणे वमो
 विनाश४॥ वाव्य खूणे नवि संतति होय, तिम नै
 ऋते कुलनुं क्षय जोय; इसाने घर वास न थाय,
 ए दिशी वीदिशि जो मन ज्ञाय॥५॥ चरण जानु
 कर खंध विशाल, मस्तक तिलक अनुपम ज्ञाल;
 कंठ हृदय नात्री पूजिये, नव तिलके नव निध
 लीजिये६॥ चंदन विण नवि पूजा कही, वास पूजा
 प्रजाते लही; कुसुमादिक पूजा मध्यान, धूप दीप
 संध्याये जाण, प्रतिमा वाम ज्ञागे वरधूप, दक्षि
 णे दीपक फल रूप; फल नैवेद्य प्रमुख जे होय,
 अग्र पूजा ते आगल होय७ दक्षिण दीशी कीजे
 ध्यान, चैत्य वंदननुं एहिज मान; हवे अवस्था शु
 णज्यो तीन, ते ज्ञावता नवि आओ दीनण॥ ८-
 द्यस्थावस्था त्रण सार, जन्म राजने श्रमणाधार,
 प्रतिमा परिकरजे सुररूप, कलश ग्रहीने रह्या अ

नूप१णाजिण वेलाये कीजे पखाल, तेह अवस्था
 जावो बाल; पूष्प मालनी राखी देव, करो नि-
 रंतर जिनवर शैव. ११॥ पूष्प चढावो जइ जिण
 वार, जावो अवस्थाराज विचार; केश रहित जिन
 मुख शिर पेख, श्रमण अवस्था दृष्टे देख॥ १२॥ ए
 ठद्वस्था वस्था जाण, बीजी केवलीनी मन आण;
 पाडिहार आठे करी तेह, चितवित वाधे जिनशुं
 नेह? ३॥ नजय पासे केलवे उदार, पुष्प वृष्टो करे
 माला धार; वीणा वाधे जय वंस वाद, निखिजा
 वो दिव्य ध्वनी नाद? ४॥ तेज पुंज जामंडल जेह,
 जिन शिर पूंठे देख्युं नेह; उत्र धरे उपर सुर रही,
 जेरी छुंजनी वजावे सही? ५॥ सिंहासन उत्र चा-
 मर होय, जिनवर माट घटे जे जोय; यह अव-
 स्था जावी सार, सिद्ध अवस्था शुणो उदार? ६॥
 पर्यकासने वेठा देव, कानसगगे रह्या वलो हेव;
 चैत्य वंदन करतां जावीये, गज्जावास फरी ना-
 वीये? ७॥ ए अवस्था तीन विचार, हवे शुणि पू-

जा दोष निवार; खल्युं हाथथी जूमी पड्युं, पगे
 लाग्युं शिर उपर चड्युं १७॥ नाज्जी थकी हेठल जे
 धर्युं, कु वस्त्रे घाल्युं ते परिहर्युं; मलिन लोके फ-
 रस्युं जे होय, कीमे खाधुं तिम वली जोय १८॥
 कुसुम पत्र फल कीजे त्याग, जिन पूजा उपरे
 जो राग; अशुद्ध पूष्प चढावे आप, तेहथी होय
 अती संताप २०॥ पद्मासन आसन ज्ञाखीये, ना-
 साग्रे नयणा राखीये; मौन वदने धरो मुख कोष,
 जिन पूजो निर्ममता रोष २१॥ वस्त्र तणो हवे सु-
 णो विवेक, खंमित संधी मलिनज ठेक; तेह त-
 णो करवो परिहार, जिन पूजा उतारे पार ॥ २२॥
 ज्ञमा स्वाति वाचक इम अखे, पूजा प्रकर्णादि-
 कने विषे; विधी विशेषे ग्रंथे ज्ञली, जोइ जरु का-
 टो पाप जूंगली २३॥ जे जिन पूजा विधी सा-
 चवे, सुख संपति पामे इण ज्ञवे; जन्म जरानी
 पीमा कही, जिनवर पूज्यां जावे सही २४॥ निर्मल
 थइ जिन पूजे नेह, तेने थावे ज्ञवनो ठेह; बहुल

कर्मि करे बहुल संसार, ते किम पामे पूजा आ
 चार? २५॥दिल्लही मंडण वीरजिणंद, तुज विण
 नवि वूटुं नव फंद; सरणे शेवक राखो देव, तजी
 हवे में कुमती शेव २६॥तप गठ गगन विकासन
 चंद, श्रीगुरु हीर विजय सूरिंद; पंमित विनय
 विमल गुरु शिष्य, जयो गुण विमजकहे जगदोस.

॥ श्री पार्श्वजिन दश नव स्तवन ॥

श्रीसारदहो, पाय प्रणमेवि करशुं कवित रलि-
 यामणा; गुण गाइसहो, पास जिणंद जिम घर
 होवे वधामणा१॥ पोतनपुरहो, नयरी मजार अ-
 रिवृंद रूडो राजियो; तसु प्रोहितहो, विश्वाचू-
 ति वेहु पुत्रे करी गाजियो२॥ नव पहेले हो, अ-
 मर विचूति गज उपन्या वीजे नवे; नव ती-
 जे हो, देवा मांहे कर्ण वेग चोथे नवे३ नव पां-
 चमें हो, सुर होवंत वज्रनाज ठठे नवे; सुर उ-
 पन्याहो, सातमें जाण चक्रवर्त नव आठमें ४॥
 अपराजितहो, देव विमान नवमें नव सुर सुखे

रमे; अवतरियाहो, पौसह मास दशमी दिन द-
 शमें जवे॥वाणारसीहो, अश्वसेनराय वामाने
 कूखे अवतर्या; अध रयणीहो, उप्पन कुमारि चो-
 सठ सुरपति नवराविया६॥पिया मायेहो, कुंवरह
 नाम पास दीयो पूगी रली; जेणे परणीहो, राज
 कुमारि प्रजावति रूपे जली॥७॥शांजलो हो, पास
 कुमार दशे अवतारे अवतर्या; वरकाणे हो, ठामे
 बइठ पाय तले सुरनर संचर्या॥८॥तोरा महोटाहो,
 कलि अवदात चंड कला जिम निर्मला; तारी
 आवे हो, जग सहु यात्र सहुना जांजे आमला
 ए ॥ जो कागल हो, गयण करेवि सहु वनराजी
 लेखणी; तल धरती हो, मस्सी जरेवि तो तुम
 गुण नवि सके गणी १०॥तुज आगलहो, अपठर
 वृंद रागे नाटिक सहु करे; तिहां पेखेहो, सुरनर
 चंद डुख डुर्गति दूरे हरे११॥डुखीयानांहो, तुं डुख
 गमावि देवे पूत्र अपूत्रियां; अने रोगीनांहो, रोग
 निवार एक मना जे ध्याइयां १२॥ गुण गावेहो,

नित्य प्रकासी करजोडी उज्जो खरो; तेविसमांहे
जिनवर पास सेवकने सुखीयो करो १३ ॥

श्रीवीर जिनस्तवन—चरणालीचामुं-राग.

राग विना तुं रीऊवे, रीऊ विना अरिहंत हो;
जोग विना सुख जोगवे, नवि काम धरे जगवंत
हं॥मन मदिर मोहन आवीइं१॥दाम नही जिन
ताहरे, पिण ठकुराइ नवि पारहो; संबंध कोइशुं
न ताहरे, पिण बंधव परे अधिकारहो॥मनमं.१॥
मैत्र विना हित चितवे, तो विण कारण उपकार
हो; दानेठे सुरतरु सारिखो, पिण कंचन नही पा
रहो॥म०३॥राग ज्यो दील माइरो, प्रजुते तिहा
कीधो प्रवेशहो; जन रंजन ते नवि आदर्यो, ति-
हां राग नही लवलेशहो॥म०४॥ अकल पंथ एक
ताहरो, तुंतो तारे सहु संसारहो; अलगो-पिण ए
क संसारथी, पंकजपरे जगदाधारहो॥म०५॥ हुंहुं
सायर तमे चंडमा, प्रज अम मोरा तमे मेइहो;
तुमे तरुवर अमे पंखीयां, मुने तुमशुं अविदरु नेह

१०६ ॥ उच्चवनो सर्वे सामान पुरो पाडनार-

हो॥म०६॥बालक परे जाणी करी, करो करुणा
दृष्टि रसालहो; प्रजू राजनगरना राजिया, जिन
वीर जिणंद दयालहो॥म०७॥ विजयदेवसूरीश्वरु,
पाटे विजयसिंह सूरिंदहो; तस शिष्य उदय वा-
चक जणे, धरी हैडे अति आनंदहो. म०८

॥नेमिजिन स्तवन—मारुजी होराज. राग ॥

समुजविजय सुत नेमि कुमार, जेंणे गोमी रूमी
राजुल नारा॥जोलायादवराय, विण अवगुण मते
कां तजोरे॥१॥जोतुं तजेतो कोइ दोष वताय, तो
सुज मन मांहे आणंद आय॥जो०१॥ उत्तमजन
नुं नही ए काज, बांध्य ग्रह्यानी नवि रहे लाज ॥
जो०३॥जीव दया वसी तुम मन माय, वलेवले
राजुल गोमि किम जाय॥जो. ४॥ नव जव केरो
मूकी हो रंग, मुक्ति धूतारी शुं जोडयो होसंग॥
जो०५॥ पशूओने शिर देइजी दोष, मो अबल
पर किम करो रोष ॥जो०६॥ नेम राजुल बे मि-
ल्यया निर्वाण, चतुरकुशल वदे इम वाण॥जो.७॥

॥सुविधीजिनस्तवन-मालाकिहा छे.राग.॥

लोकोत्तर तुज योगनी मुद्रा, वाला मारा थिर
 आसन मय सोहरे; सरस चित्तें शुक्ल ध्याननी
 धारे, सुरनरनां मन मोहरे॥ लागे मुने मीठीरे,
 तारी अजव शीयोगनी मुझरे एतो टाळे मोहनी
 निद्रारे प्रत्यक्ष दीठीरे॥ त्रिगढे बेसी रत्न सिंहा-
 सणे वा०चिहुदिशे चमर ढलावेरे; अरिहत पद
 प्रचूनो जोगी, तोपिण योगी कहावेरे ॥ला० १॥
 अमृत ऊरणी मीठी तुम वाणी वा०जेम आपाढो
 मेघ गाजेरे; श्रवणे शुणतां हीयडामां पेशी,संदे-
 ह मन तणा जाजेरे॥ला ०३॥ कोडी गमे उजा
 दरवारे वा०जय मंगल सुर वोलैरे; त्रण ज्ञवननी
 ऋद्धि तुज आगे, दीसे इम तृण तोलैरे ॥ला०४॥
 जेद लहु नही योग युक्तिनो वा०सुविधी जिणंद
 वतावोरे; कांति कहे प्रेमशुं करी करुणा, मुज
 मन मंदिर आवोरे॥ला०५॥

॥ सीतल जिन स्तवन-बेमलेजार-देशी ॥

रामानंदन पाप निकंदन, सीतल शीतलवाणी;
 बलिहारी ल्युं मोहन तारी, ज्ञाव जक्ति मन आ
 णी मीठा मुज लागो होराज तुम शेवामां रहि-
 शुं, खांते खिजमत करतां खासी जे कहेस्यो ते
 सहिशुं? मीठा मु०१॥ महिमा सागर देव दयाकर,
 शुं! रूठोछो अमने! तारक दूरे करस्यो तोपिण!
 नहि ठोमीशुं तमने! मी०२॥ दिलरंजन मुज दि
 लमां आवी, दूर रह्या केम अटकी? नाचत रस
 जरो लावी राखे! कहो किए विध घुघट-
 की? मी०३॥ आलिम मधुर थको प्रजु न्यारो!
 मालिम जव सागरनो! कालिम रही रमही तनु
 नायक, जालिम मुक्ति नगरनो मी०४॥ ठेदेरिपु
 रीते जय जेदे, तुज करुणानो अंस; प्रेम सरो-
 वर मांहे जीले, कांति धवल गुण हंस॥ मीठा. ५॥

॥ श्री चतुर्विंशति जिन स्तवन ॥

॥ उहा ॥ सुमता नलिनी बोधवा, निरुपम जे

नलि नीस; पचवीसे ढाले स्तवुं, शुणज्यो जिन
 चौवीस॥ (नमा नमो मनक महामुनी, देही)
 नमो नमो ऋपन्न जिनेश्वरु, मारुदेवीनोठे नंदरे;
 नाम थकी सुख संपजे, दरिझणे परमाणंदरे॥नं.
 १॥ (नमोरे नमो श्रीसत्रुंजय गिरिवर) अजित
 जिणसर साहेव मेरा, मेंहुं बंदा तेरारे; जव सा-
 गरना वारवा फेरा, नहीको देव अनेरारे॥अ०१॥
 (धणरा ढोला.) संजव जिनवर नामथीरे, पाप
 सेंजव नवि होय, गुणरा पूरा; श्रीजो जिनवर
 सेवतारे, सुख संपति नित होय गुणरा पूरा॥३॥
 (इम धन्नो धणने परचावे) अजिनंदन जिन अर्ज
 अमारी, अवधारों अजिमानीरे; आज थकी अम
 उपर धरजो, प्रजुजी घणी महेरवानी ॥अ० ४॥
 (चीर हमारा द्योने राजिंदा) सुमति स्नेही सेवतां,
 सुमति सदा दिल आय सनेही; पंचम जिनवर नाम
 थी, सुख संपति नित्य थाय सनेही॥सु.५॥ (प्रवहण
 तिहांथी पूरीओरे लाल) पद्म प्रजु अवधारीयेरे लाल,

वीनतनी महाराय शिवगामीरे, ठठाजिनना ध्यान
 श्रीरंदा०डुःख दोहग सविजाय शिरनामीरे॥प.६
 (नंदजीनालादरे) सातमा स्वामी सुपास जिन-
 रायाके वारी मोरालादरे, माता सुसीमाना ते
 जायाके वारी मोरालादरे; तुजशुं मुजने घणीठे
 मायाके वारी मोरा लालरे, ताहरी कंचन वरणी
 कायाके वारी मोरा लालरे ७ (कोइलो पर्वत धूं-
 धलोरे लाल) चंडप्रजू जिन आठमोरे लाल, से-
 वीजे जले जावरे चतूर नर; जवसायरमां पामि
 योरे लाल, साची जे जिन नावरे च. चंड०॥७ ॥
 (धन्याशी) सुविधी सुविधी जिनवरनी सेवा, क-
 रवानो मुज हेवारे; जगमें जोतां नही को एहवा,
 नवमा जिनवर जेवारे॥सु०८॥ (देशी गरबानी)
 दशमोरे दशमोरे देव दयाल त्रिजुवन केरो राजी
 योरं, एहनोरे एहनोरे जगजसवाद महियल मांहे
 गाजीयोरे; एहनारे एहनारे चरण सरोज मुज म-
 न ब्रमरे आदर्यारे, जेहथीरे जेहथीरे संपति कौम

सुख सयला सहेजे वर्यारे ॥१७॥ (देशोआठेलाल)
 श्रीश्रेयांस गुणवंत जले जेव्यो जगवंत आजहो
 वारुरे सुखकारु गुणठे जेहनारेलो, आजहो देखोरे
 दुर्गतिनो जय दूरे टळ्योरेलो ११॥ (मयणरेहासती)
 वसु पूज्य सुतने वीनवुं होराज, वीनतमी महा
 राय वारु वासुपूज्यजी; सेवा करतां जेहनीहोराज,
 नित नित मंगल आय वारु वा० ११॥ (मेंदी रंग
 लाग्यो.) वंगे विमल जिनेश्वरुरे लाल, विमल वि
 मल गुणजास जिनशुं रंग लाग्यो; जक्ति करतां
 आपनीरे लाल, पहुचे सुज मन आस जिनशुं ॥
 १३॥ (नदी यमुनाके तीर जमे दोय पंखीयां)
 ज्ञान दरिशाण चारित्र अंतानो धणी, प्रणमुं ना
 थ अंतके जक्ति करुं घणो; एह तणा गुण जा
 एके जाणे कुण गणी, स्तवना हर्ष पसायके रा
 जे एह जणी ॥१४॥ [नंदन सलूणा नंदनारेलो]
 जानुं नरिंदना नंदनारे लो, कीजे तुमने वंदनारे
 लो; दरिशाण दीवो ताहरोरे लो, सफल मनोरथ

माहरोरेलो॥ना०१५॥(साहेबा मोतीमो हमारो)
 शांति जिनेश्वर चरणनी सेवा, देज्यो मुजने ज्ञ-
 वो ज्ञव देवा; साहेबा सस्नेही हमारो मोहनास,
 स्नेही ॥ सोलमो जिनवर पामोने साचो, वोजा
 देव थको कांइ राचो.साहे.१६॥ (कपूर होवे अति
 ऊजलोरे) कह्यो न जाये कारमोरे, कुंथु तणो अ-
 वदात; सुखदाता स्वामी मिळयोरे, त्रिज्जुवन के-
 रो तातरे; बहिनी जिनशुं अविहम नेह ॥ १७ ॥
 [बिबे मुनिवर वहोरण पांगर्योरे] अंतरजामीश्री
 अरनाथजीरे,साचो जे मुक्ति वधुनो साथजो;स्वा
 स पहेलांथी मोने सांजरेजी, ज्ञक्ति वशेथी श्री
 जिनवर हाथजो॥अंतर.१७॥[हरीया मन लागो]
 उगणीसमा अरिहंतनी, ओलगनी अन्निरामरे;
 जनजी गुणवंता॥ ओलग करंता जेहनी, लहीये
 अविचल ठामरे जि०१८॥ [साहेब बाहू जिणेसर
 वीनबुं] साहेब मुनि सुव्रत मन माहरे, वसियो
 देव दयाळरे साणमनमोजी मोटे धमे, सेवकजन

प्रतिपावरेसाण्ण॥ [अरणीक मुनिवर चाळ्या गो
चरी] नमीयेरे नमीये जिन इकवीशमो, सकल
कला जंडारोजी; जग जयवंतारे जिनजी वाल-
हा, जीवन प्राण आधारेोजी नमीण्ण॥ हारे मा
रे यादव कुलमां दीपक सरीखो नेमजो, मातारे
शिवादेवी केरा नंदनारेलो; हाण्तारी नारी राजु
लना जरतारजो, जावेरे नित्य उठी कीजे वंदना
रे लो. ११॥ [करेलडां घडीदेरे] आस फली हवे
माहरी, पास तणे सुपसाय; दरिशाण दीगो ता-
हरो, दिन दिन दोलत थाय; जिणंद गुण गाश्ये
रे॥ १३॥ [राग घन्याश्री] वीर धीर त्रिशालानो वेटो,
नही कोइथी ते हेगोजी; मेरु समोवड मन जस
मोटो, सिद्धारथ नृप नहि ठोटोजी ॥ वीण्ण१४॥ क
लश—तपगञ्ज राजा चढत दिवाजा, श्री विजय दे
व सूरिश्वरू, तस शिष्य श्री ऋद्धिविजय सोदे, न
मे जास मुनीसरू; तस शिष्य सुंदर कवी पुरं-
वर, हर्ष विजय गुरु सुखकरा; तसुचरण शेवी

राजविजये, शुण्या चौविस जिनवरा ॥१५॥

॥ श्री पंच तीर्थ स्तवन ॥

आदेए आदेए आदि जिणोसरू ए, पुंरुरीक पुं-
रुरिक गिरि शिणगारके रायण रुखे समोसर्याए,
पूरव पूरव नवाणुं वारके आदे०॥नलालो॥आदेय
आदि जिणंद जाणी गुण वखाणी जेहनां, मन
रंग मानव देव दानव पाय पूजे तेहनां; लखचो-
राशी पूरव पोढा आयु जे'नुं जाणिये, शे'त्रुंज सा-
मी, ऋषज गामी ध्यान धवलो आणिये १ दीठो
ए दीठोए दीयोदल मंरुणोए, मीठोए मीठोए
अमिय समानके शांति जिणोसर सोलमोए; सो
हेए सोहेए सोवनवानके दीठोए दीयोदल मंडणो
ए॥उणदियोदल मंडण डुरित खंडण दीठां दारिड
चूरए, सेवियां संकट सेवे नासे पूज्या वांछित पू-
रए; सुर करीं माया शरणे आया पारेवो जिण
राखियो, दाता नलेरो दया कैरो दान मारग दा-
खियो॥१॥ गिरुओए गिरुओए गढगिरनारनो ए;

जस शिर जसशिर नेमिकुमारके समुद्र विजय
कुल जय करुए; शिवादेवी शिवादेवी कूखे म-
ल्हारके गिरुणान्णगिरनार गिरुन्न डुंगर देखी हैने
हरखा हुं सखी! नव अंग नवेरी नेमि केरी क-
रिश पूजा नवलखी!!जिण चित्त मीठी दया दीठी
राणी राजुल परिहरी! संसार टाली शियलपाली
वेगे मुक्ति वधू वरी ३जास्युए जास्युंए देव जीरा
जलेए, करस्युं ए करस्युं ए सफल बेहाथके साथ
मिळयो संघ सामटोए; पूजेवा पूजेवा श्री पारसना-
थके जास्युं०॥३० जीरानलो जगनाथ जाणी हैये
आणी वासनां, मद मान मोनी हाथ जोनी गाइशुं
गुण पासनां; ढमढोल ढमके घुघर घमके रंग रू
नी रासनां, प्रज्जु सेव करतां ध्यान धरतां सुख
आवे आसनांअसाचोए साचोए जिन साचोरनोए,
त्रिज्जुवन त्रिज्जुवन मंडण वीरके धीरपणे जिणे
तप तप्याए; सायर सायरपणे गंजीरकेसाण ॥३०
साचोर स्वामी सदा साचो चौपट मल चिहुं दि-

शि तपे, प्रभु पाप चूरे आश पूरे जाप जोगीसर
जपे; ससी सूरमंरुल काने कुंरुल हैये हार सुहा-
मणो, जिनराज आज दयाल देखी उपन्यो आ-
नंद घणो५॥पांचेइ पांचेइ मेरु समानके प्रह न-
ठीने जे स्तवेए, जसु घेर जसुघेर नवे निधानके
मुनि लावण्य समय ज्ञणेए ॥७७७७ मुनी ला-
वण्य सुंदर शूणे नरनारी सदा, ऋद्धि वृद्धि समृ-
द्धि आपे कापे दोहग आपदा; पातिक पुलाये कु-
शल आए ज्ञावधी ज्ञवियां ज्ञणो, पंचेइ तिर्थ
स्तवन शुणतां सुख आवे अति घणो ॥६॥

॥ श्रीसत्रुंजयतिर्थस्तवन—राग खंजायती॥

॥ सहियां मोरी चालों सत्रुंजय गिरि जेटवा,
ज्ञाव धरी जगवंतहे; सहियां मोरी इणगिरि कां
करे कांकरे; सिध्या साधु अनंतहे सहियांमो७ १
सणमारगे ठअरी पालतां, जे सेत्रुंजय जायहेसण
जव तीजे सात आठमें, सीजे कर्म खपायहे सण
चा०श॥सणदोयगति डुंगर देखतां, कर्म करे चक

चूरहे स० नरक अने तीर्थचनां, दुःख करे सवि
 दूरहे स०चा०३॥स०पंच तिर्थ वरुा जैनमें, शे-
 त्रुंजो गिरनारहे स०समेतशिखर आवू पांचमो,
 अष्टापद अधिकारहेस०चा०४॥स० अष्टापद अलो
 पठे, चावा तीरथ चारहेस०जावधरीने जेटीये,चि
 हुं गति फेरुणहारहेस०चा०५॥ स०जैन मांहे स-
 त्रुंजयगिरी,शिव मांहे नदी गंगहे स०एह तिर्थ ज-
 गू मोटका, रहेशे सदाइ अजंगहेस० चा०६॥ स०
 ठठे आरे प्रलय दोशे, गिरिवर नदियां निवाणहे
 स०तिण दिन पिण सत्रुंजयगिरी,रहेशे सातहाथ
 प्रमाणहे स०चा०७॥स०सूर्यकुंड अठे जल ज्यो,
 कीजे शरिरे सनानहेस०आदि जिणंद अर्चाकरी,
 लहिये स्वर्ग विमानहेस०चा०८॥ स०रायणरुंखठे
 विस्तर्यो,आदेग्वरना पायहेस०प्रेम धरीने जेटीये,
 पूज्यां पाप पलायहेस०चा०९॥स०पाप नासे ज
 वसातनां, गिरि दीगं ततकालहेस०मेह वूठा म-
 ही मंरुले, नासे जेम दुःख दुकालहेस०चा० १०॥

स० मानव जव अठे दोहिलो, वली श्रावक कुल
 अवतारहेस० शेत्रुंजोगिरि नहि पृजियो, गयो ज-
 न्म दोय हारहेस० चा० ११॥ स० देश मांहे सोरठ
 वसो, जिहां शेत्रुंजो गिरनारहेस० वसे जिहां जे
 जन सासता, धनधन ते नरनारहेस० चा० १२॥ स.
 उदय हर्ष शिष्य विनवे, ऋद्धि हर्ष जोडी हाथहे
 स० शेत्रुंजो साहेब सेवीये, अरिहंत आदीनाथहे १३

॥ राणकपुरस्तवन—क्षमागुणआदर रागा ॥

राणकपुरे रिसहेसर सामी, अवधारो अरदास
 जा; वीतक वात कहुं शिर नामी, आणी मन उ-
 ल्हासजी ॥ राणक० १॥ अंतरजामी आगत कहेंतां,
 लाज नही मुज कांयजी; दरिशाण दीगो अरिहंत
 तोरो, पूरव पून्य पसायजी ॥ रा० २॥ काल अनंता
 जवमें जमतां, लाध्यो नरजव एहजो; पिण प्र-
 माद वसे मदमातो, आलें हायो तेहजी ॥ रा० ३॥
 कर्म कठोर तिके में कीधा, कर्म वसें किरतारजी;
 कहेंतां पार न पासुं जिनवर, सरणगति साधार-

जी॥रा०४॥ कूड कपट केलविया बहु विध, कर
 धरी पाप अनेकजी; देव धर्म गुरु विगत न जाणी,
 नाण्यो मनमें विवेकजी॥रा०५॥ साची शीख दे
 वे कोइ तिणशुं, आणुं मन मांहे रीसजी, अव-
 गुण लाख अठे मुज मांहे, तार तार जगदीसजी
 रा०६॥ परनी वात करे सारो दिन, तोपिण ना-
 व्यो अंतजी; अठता गुण पोताना दाख्या, सहू
 आगल एकंतजी॥रा०७॥ क्रोध मान माया लोने
 करी, कीधा कार्यमें तेहजी; करुणा सागर किण
 विधे थाशे, ठूठकवारो ठेहजी? रा०८॥ पाप करी
 पस्तायो नांही, दीधा दोष असंखजी; कूफो वाद
 करी हठ मांज्यो, राखवा आपणी रेखजी ॥रा०
 ९॥ पंच महाव्रत लेइने जांग्या, जन्म गयो मुज
 फोकजी; त्रिभुवनपति हुं आखर तुमशुं, पासुं स
 घला थोऊजो॥रा०१०॥ समजावीने श्रीजिन वा-
 णी, परने ठन उपदेशजी; पिण प्रमाद वसे मद
 मातो, तुं जाणे रिसदेशजी॥रा०११॥ कुगुरु कुदेव

तणी मति आणी, लोप्या पंच आचारजी, प्र-
वचन शास्त्र बहु जलवीया, कहेतां नावे पारजी
रा०११॥संजम लेइने शुद्ध न पाळ्यो, बोळ्या आ
लपंपालजी,मंत्र यंत्र औषध पर पोख्या,ज्योतिष-
नां जंजालजी॥रा०१३॥विधि मारग करतां मुज
चित्तें, आलस आण्यो अंगजी; सहगुरु शीख न
मानी सूधी,कर्म तणे प्रसंगजी॥रा०१४॥किरिया
करतां पंचम काले, खरो कठिण व्यवहारजी; नि
श्रे मारग युंही राखुं, एक तुंहीज आधारजी॥रा०
१५॥मन वचनने कायार्ये करी, लाग्या डषण जे
हजी; देव गुरु साखे मुज होज्यो, मिळामि ड
कड तेहजी॥रा०१६॥ तुं तारक हुं शेवक तारो ?
तार तार मुज स्वामीजी; जव जय जंजण जग
शरणागत, साच कहुं शिर नामीजी॥रा०१७॥मु
ज करणी तो ठे प्रज्नु माठी, तोपिण तुमची ला
जजी; सांजलो दासनी वात ए स्वामी,बिरुद ग-
रिब निवाजजी॥रा०१८॥मात पिता तुं बांधव सा

शाहल्लुजाइ वलयमदासद्गवेरीवाढानीशापोलअमदावाद.१३१

हेव, प्रथम नाथ अरिहंतजी; जुगळ्या धर्म नि-
वारण सागर, ज्ञान्य विजे एक तारजी॥रा०१ए
श्रीनेमिजिनस्तवन-धनधनजिनवाणीदेशी.

समुद्र विजय सुत नेमि विराजे, एतो यादव वं
समें गाजेरे मोरा प्रभु ब्रह्मचारी; नवयोवन धर
आयुधसाळा, क्रीडा करे रंग रसाळारे मोरा प्रभु
ब्रह्मचारी ॥ प्रभु ब्रह्मचारीतो राजुल नारी, तजि
गया गढ गिरनारी रे मोरा०१॥ गदा उलाढे ने
गगन जमावे, सारंग धनुष्य चढावेरे मो०पंचाय-
ण पूर्यो मन रंगे, हरि वात विचारेढे अंगेरे मो०२
मास वसंत गोपी सव आवे, नेमिशुं व्याव मना-
वेरे मो०मान्यो मान्यो बोले हरिराणी, जइ प्रण-
म्यो सारंगपाणीरे॥मो० ३॥धूंधूं धपमप मादल वा
जे, जादव जान विराजेरेमो० नेमिकुंमर वर तो-
रण आवे, राजुल आणंद पावेरेमो.४॥राजकुमारि
राजेमती हर्षे, गोखे चढी पीन निखेरे मो०प्रीतम
पधारीने प्रीती वधारी,अष्ट जवांतर नारीरे॥मो.५॥

३२२ देवचंदजी कृत चौविंसी अर्थ साथे दोढरूपयो-

रोऊ सिसला मृग बंधण टाली, नेम चाढया रथ
वालीरे मो० रंगमहेल जइ दानजदीधो, सहसावने
संयम लीधोरे मो० ६॥ प्रीतम पासें राजे मतीराणी,
संजम ले सुख जाणीरे मो० कर्म खपावे वे मुक्ति
सिधावे, अजरामर पद पावेरे मो० ७॥ घोघा नगरे
शोत्रे हद ज्ञारी, संघ सदा सुखकारीरे मो० धर्मविजे
कहे नित्य हुं वंडु, शिवपुर गया दुःख वारीरे मो० ८॥

॥ श्री पार्श्व जिन स्तवन ॥

चवदे राजना चोकमें हो राजन, चनगई सेरा
मांय, सुगुणा थाने ओलगे हों राजन, मूरख फे-
रा फरी जाय ॥ मूरख फेरा फरी जाय अहो
वामजीना जाया मोरी अरज शुणीजे होराज
॥१॥ दरिशाण तारो देखवा होरा० रात दिवश रहे
चाय; तुम गुण मुज हैने वसे होरा० जिम
गुण गुणाने हो न्याय ॥ जि० २ ॥ देवअवरदीठा
घणाहोरा० मानुं ए आवल फूल; बाह्यअग्निंतगु
णे ज्ञर्याहोरा० जगगुरु तमेठो अमूल ॥ ज० ३ ॥ सा

चो साहेव माहरोजी कांइ, पास अमोऊरो देव;
 जवजव तारा चरणारीहोराण्देजोजी तुमपयशेव
 ॥ दे० ४ ॥ एकवार सामुं जुवोजी कांइ, निखोंजी ग-
 रिवनिवाज, गिरुआठे जे गुण करेहो रा० बांध्य अ
 ह्यानीठे लाज ॥ वां. ५ ॥ कीजे कोमि उवारणाहोरा०
 लली लली लागु तुं पाय; जन्म मरण दूर करो हो
 रा० रामविजय गुण गाय ॥ रा० ६ ॥

॥ श्रीसीतल जिन स्तवन-देशी चोपाइ ॥

आज लगे धरि अधिक जगीश, सेव्यो सीतल
 विश्वावीश; जो कांइ कीधी होय वक्षीश, तो सं-
 जारो श्रीजगदीस! अवसर आव्ये करी अरदास!
 तोपिण कांइ न पूगी आश! तेम उतां तुजपर वि-
 श्वाश! शेवकने देज्यो शावाश! १ जो तें मुज का-
 ढ्युं होय काम? तो ते दाखो लेशने नाम! हुं तुज
 शेवक तुंमुज स्वाम! केताइक दिन चालशे काम!
 ३ जन्म लगे नवनवा अवदात! गातां बोले मुज
 दिनरात; तोपण नेह न धरे तिलमात, तंतवेला

वातांनी वातध्वोल जलांइ पिण जिनराज, तें मौ
न शुं कीनी महाराज; जो जाणो पोतानी लाज,
तो राखो द्यो अविचलराज ॥५॥

॥ श्रीसीमंधरजिनस्तवन-तिर्थतेनमुंदेशी. ॥

पूर्व विदेह पुखलावइ जयो जगपतीरे, श्रीसीमं
धरस्वाम प्रहसमें नित्य नमुंरे १ जगत ज्ञाव प्रका-
शतां ज्ञवी प्रतिबोधतारे, उपकारी अरिहंत ॥ प्र. १ ॥
धन्य देश! धन्य ते धरा! धन्य ते नरारे! जिहां,
विचरे जिनराय ॥ प्र. ३ ॥ धन्य दिवश! धन्य ते घमी!
देखुं आंखडी रे! ज्ञक्तिवञ्जल जगवंत ॥ प्र. ०४ ॥
महेर निजर अवधारजो पतित उदारजोरे, जि-
नहर्ष जणे सस्नेह ॥ प्र. ५ ॥

॥ श्रीसीमंधरस्तवन-एदोय गणधरएदेशी. ॥

श्रीसीमंधर साहेबा, हुं किम आवुं तुम पास
हो मुणिंद; दूरे विचे अंतर घणो, मुने मिलावारी
घणी आस हो मुणिंद ॥ श्रीसीमंधर साहेबा. १ ॥

इणें जरतने बेहमे, तुंमे प्रभु विदेह मजारदो

मु०रुंगर वली नदीयां घणी, तिहां कोशतो केइ
हजारहो मु०श्री०१॥प्रभुजी देता होस्यो देशना,
कांइ सांजले जिहांना लोगहोमु०धन्य ते गाम
नगर पुरी! ज्यां वर्ते पून्य संयोगहोमु०श्री०३॥ घ
न्य ते श्रावक श्राविका! कांइ निखे प्रभु मुख चं
दहोमु०मुज मनोरथ मन तणा, कांइ फलस्येजा
ग्य अमंदहोमु०श्री०४॥ वरतारो वर्ते रह्यो, कांइ
जोशी मांडयुं लगन्नहोमु०कहो सीमंधर कद जे
टस्यु? मुज मन लागी लगन्नहोमु०श्री०५॥पिण
जोशी नहीं एहवो, कांइ जांजे मननीत्रांतहोमु.
इण जव तात कृपा करी, मुज आण मिलावो
एकांतहोमु०श्री.६ वीतराग जावे सदा तुमे,वर्तो
बो जगनाथहोमु०मे जाण्युं तुम केडथी! इवे हुं
थयो स्वामी सनाथहो मु०श्री.७॥पुख्खलमें वि-
जया वसे, कांइ नयरी पुंडरिगिणि स्वामरे मु०
सत्यकीनंदने वंदनां, कांइ अवधारो गुणना धाम
होमु०श्री०८॥राय श्रेयंस कुलचंदलो, राणी रुक

मणी केरो कंतहोमुण्वाचक रामविजय कहे,तुम
ध्याने हुवो मुज चित्तहो ॥मुण्श्रीणाए॥

॥ श्रीसीमंधर जिन स्तवन ॥

सीमंधरजी शुणज्यो म्हारी वीनती,तमे ठोजी
परम दयालजी; नक्ति वञ्चल नगवंतठो सेवकन
ठो प्रतिपालजी॥सीमंधरजी०१॥राय श्रेयंश कुले
अवतर्या, सत्यकी राणीहे मातजी; वृषन लंछन
पाय तल विषे, संयम रमणी विख्यातजी ॥सी-
मं०१॥आमा आमा मुंगर वन घणा, दैवे नव दीर्घ
पांखजी! कहो किण विधथी आवी मलुं,अलजो
करेठे म्हारीआंखजीसी०३॥अलगापिणहूकमा!जे
वसे जेहने चित्तजी!अणगमता गलिये मिले! मन
पाखे न हुवे प्रीतजी॥सी०४॥ तुज विण देव अने
रमा, तेह मुजने नवि सुहायजी!सरस मेवा तजि
साहिबा! कुंण निबोलियां खायजी!सी०५॥रागने
छेष मनमें नही,सो परमेश्वर दीठाजी; चाखिया
विण केम जाणीये? एह फल करवा के मीठा-

जी!सी.६॥प्रेम निजरजर निरखजो, मुने देज्यो
शिवपूर वासजी; गणि लालचंड इणि परे जणे,
साहिव ठेळ्ही अरदासजी ॥सी.७॥

॥ श्री युगमंधर जिन स्तवन ॥

युगमंधर नमु जावशुं, विचरे विदेह मजार ला
लरे; विप्र विजय विजयापुरी, वीजो जिन जय-
कार लालरे॥ युगमंधर नमुं जावशुं.१॥ कळपवृक्ष
विंतामणी, कामकुंज सुखकार लालरे, सुरधेनुं
सम पूरवे, वाञ्छित सुख श्रीकार ला.यु.२॥दीपेदि
नकर सम प्रजु, लोकालोक प्रकाश ला. शोन्ने चं
इ जेम वीजनो, समपे शिवपुरवासला. यु. ३॥सु-
रगिरि सम तुज धैर्यता, साह्यर परे गंजीर ला.
निर्मल नाण चरण गुणे, जेहवुं गंगा नीर ला. यु.
४॥जक्त वछल आता सही, तीन जगतनो तात
ला. वालकनी प्रतिपालणा, जेम करे निज मात
लाण्यु०५॥ अरजी एह अव धारीने, आपो अनंता
चारला.किर्त्तिचंडकहे मुज प्रते, शिवरमणीशुंप्यार.

॥ अथ श्री स्तुति समञ्चय ॥

॥ श्री शांति जिन स्तुतिः ॥

शांती जीणंद दीणंद सम जाणो, षट्खंड केरो
 नाथ कहाणो, तीन जुवननो राणो; सुर नरपति
 जसु शेवे पाय, मंगल कमला नवनिद थाय, वि
 धन विशेषे जाय ॥१॥ तेरश दिन जनम्या जिन
 राज, इंद्र इंद्राणी आवे साज, सारे आत्म काज;
 जन्म महोच्चव करे हित जाणी, सुरगिरि ऊपर
 प्रज्जुने आणी, लाज लहे गुणखाणी ॥२॥ जिनवर
 वाणी अति गुण खाणी, सांज्जली आदरे जे ज्जवि
 प्राणी, पामे शिव पटराणी; सूत्र निर्युक्ति टीका
 सार, चूरणी ज्ञाप्य अती मनुहार; आदरे ज्जवी
 सुखकार ॥३॥ शांतिजिणंदनी रक्काकारी, निर्वाणी
 देवी नीरधारी, गरुडयक हितकारी; गुण गावै
 नित्य जे नरनारी, तेनां वाञ्छित पूरणहारी; किर्ति
 चंद्र सुखकारी ॥ ४ ॥

॥ श्रीरोहिणी तपनी स्तुति ॥

रोहिणी तप रंग करो प्राणी, सकल सुमंगल
कारण जाणी, लाज लहो गुणखाणी; अजित जि
एंदनो जन्म ते जाणी, आवे इइ अने इंजाणी;
जाव अधिक मन आणी ॥१॥ अतित अनागतने
वर्तमान, चवन जन्म दिहा गुणखाण; केवल मु-
क्ति कल्याण; दशक्षेत्रे दाख्या जिन जाण, नक्षत्र
रोहिणि ठे गुणखाण, आदरो जवि शुभ्र जाण २
पेश प्रचूनी एहज वाणी, सुगंधकुमारे साची
जाणी, पर्यदा हर्ष जराणी; तप करि काया निर्मल
कीधी, अजरामर पदवी जिणे लीधी; शिवरमणी
वसि कीधी ॥३॥ शासनदेवी सोले वखाण, जग उ-
द्योत करे जिणजाण; आपे बुद्धि विन्नाण; रोहि
णीराणी ए तप कीधो, जव त्रिजे सवि कारज सि
धो; किर्त्तिचंड जस लीधो ॥४॥

॥ श्रीशांति जिन स्तुति ॥

शांति जिणंद सदा सुखकार, नित्य उगी ज-

पीये नरनार, ज्ञेव्या लहो ज्ञव पार॥१॥ विहरम
 न वंदू जिन वीश, त्रिलोकतारण अविचल ईश
 ऋषजादिक चौवोश. अतीत अनागतने वर्त्तमान
 ऋषज चंज्ञानन धरु नित ध्यान, वारीखेण वद
 मानरग्रंग अग्रधारने उपांगवार. दश पयत्रा ठठे
 धार, च्यार सूत्र मूल सार; नंदी यनुयोग द्वार उ
 द्वार, निर्युक्तिने टीका सार, ज्ञाप्य चूरणी मनु
 द्वार; शांतिनाथनी निर्मलवाणी, अमृत शुं एने
 अधिकि जाणी, प्रित्ये पियो ज्ञवि प्राणी ३ शो-
 लमां जिनना गणधर सार, ठत्तीस कहिये अति
 सुखकार, वरिया शिव वधू सार; ठद्वस्थ पणे एक
 वर्ष प्रमाण, पचविश सहसमें ऊणो जाण, पा-
 छयो केवल नाण; समतशिखर गिरि अणसण
 कीळ, नव सत साधू साथे लोळ; आत्मकारिज
 सीळ; गरुड यक्ष निरवाणी जेह, संघ सकलने
 हितकर तेह, किर्त्तिचंद्र गुणगेह ॥४॥

॥ श्रीसीमंधर जिन स्तुति ॥

श्रीसीमंधर जग धणी, तुज जेटण मुजने खं
ति घणी; तुम नामे दूर्गति दूर टले, सुख संपत्ति
सघली आय मले॥१॥ जंबूद्धीपमें राजंता, चार जिने
श्वर छाजंता; घातकी आठुं जाणीये, पुखखरे आठ
वखाणीये॥२॥ समवसरण मांहे राजंता, गुणपें-
चीश वाणी गाजंता; विहरमान थे देशना, अमृत
ध्वनीये एक मना॥३॥ सीमंधर आसन रखवाली,
पंचांगुली देवी लटकाली, संघ चतुर्विध हितका-
री, किर्त्तिचंद्र कहे ए सुखकारी॥४॥

॥ श्रीसोवनगढ चौमुख जिन स्तुति ॥

सोवनगिरि सोहे श्रीकार, आदिजिनेश्वर अति
मनुहार, सरुल तिर्थ शिणगार, अद्भूत चौमुख
विंव विराजे, मंदिर तोनुही महोटा ठाजे, शोना
गवणे गाजे१ अष्टापदगिरि आदि जिणंदा, पंच-
मी गति पाम्या सुखकंदा, वासुपूज्य जिनचंदा;
समतशिखर सिध्या जिनवीश, गढ गिरनार पावा

पुरि ईश, सिध्या जिन चौविश ॥१॥ श्रीमुख ज्ञा-
 पित द्वादश अंग, निर्मलवाणी जिम जलगंग
 ज्जोली करो मन चंग! पंचांगो प्रमाणे जे साधे
 मन वच काया शुद्ध आराधे, शिवसुख संपति वा-
 धे ॥३॥ श्रीसंघ केरी रक्षाकारी, शासन देवी अति
 मनुहारी, इति उपद्रव्य वारी; शुभ करणी अनुमोद-
 नकारी, मनवांछितपूरेनिरधारो, कीर्त्तिचंद्रजयकारि

॥ श्रीसिद्धगीरीनी स्तुति ॥

विमलाचल वंदू आदि जिनेश्वर देव, सुरपति
 जिहां सारे निशदिन एहनो सेव ॥ जिनवर इहां
 आव्या नेमि विना त्रेवीश, मुनिवर वली सिध्या
 कोडाकोमि जगीश २ ॥ सिद्धाचल महिमा ज्ञाप्यो
 सूत्र प्रसिद्ध, ज्ञावे ज्ञवि ज्ञेते पावे अविचल रिद्ध,
 तीरथ रखवालूं कवम यद्ध अजिराम, सहु संघ
 विघनहर किर्त्तिचंद्र सुखधाम ॥४॥

॥ श्रीप्रतिपदा दिने जिन स्तुति ॥

एक मिथ्यात्व असंयम अविरति दूर करो शि

व वसियाजी, संयम संवर निरति तणा गुण क्हा-
यक समकित रसियाजी; कुंधुनाथ सत्तरमां जि-
नवर जे ठठा नरदेवजी, पडिवा दिवसे शिवग-
ती पहोत्या शेवुं ते नित्य मेवजी १॥ एक कळ्या-
णक संप्रति जिननो इम दशनो परिमाणजी, व
शक्तेत्रे मली तीन चोविशिये तेनां तीस कळ्याण
जी; एकम तीथ्रि अनोपम जाणी समकित गुण
आराधोजी, सकल जिनेश्वर ध्यान धरीने मनवां-
छित फल साधोजी २॥ एक कृपारस अनुभव सं-
युत आगम रयण निहाणजी; जविक लोक उप
कार करेवा जापे श्रीजिन जाणजी, जिम मिंठा
लेखे नवि लागे एकादिक विण अंकेजी, तिम
समकित विण पक्ष न लेखे एकम सम सुविवे-
केजी ३॥ कुंधु जिनेश्वर शासन सानिध्य शेवे गंधर्व
यक्षजी, वांछित पूरे संकट चूरे देवी बला प्रत्यक्षजी;
संवेगी गुणवंत महायश संयम रंग रंगीलाजी, श्री
नयविमल कहेजिननामे नितनित नवलीलीलाजी

॥ श्रीबीजनी स्तुति ॥

मही मंरुणं पुत्र सोवन्न देहं, जिणाणं दणं के
 वलन्नाण गेहं; महानंद लब्धि वहू बुद्धि रायं, सु-
 शेवामि सिमंधर तिथ्यरायं ॥१॥ पुरा तारगा जेह
 जीवाण जाया, ज्ञवि संतिते सब्ब ज्ञव्वाण ताया;
 तहा संपयंजे जिणावंदमाणा, सुहंङ्गितुमे निलो-
 य प्पहाणा ॥२॥ डुरुत्तार संसार कुब्बार पोयं,
 कलंकावलो पंक परख्वाल तोयं; मणोवंठियथ्थे
 समुदार कप्पं, जिणंदागमं वंदि मोसुं महप्पं ॥३॥
 विकोसे जिणंदाण एंजो ज लोणा, कला रुव ला-
 वण्य सोहग्ग पोणा; वहं तस्स चित्तं मिणि चं-
 पि जाणं, सिरो ज्ञारई देहिमें शुद्ध नाणं ॥४॥

॥ श्रीसीमंधर जिन स्तुति ॥

सीमंधर स्वामी निर्मला, तुम ज्ञान उपनुं के-
 वला; सीमंधर स्वामी तार तार, मुज आवागम-
 न निवार वारं सित्तर सय जिनवर वंड़ीये, जसु
 नामे पाप निकंड़ीये; संप्रति जिन सोहे वीश सार,

ते न्नवियण वंदो वार वार ॥ १ ॥ जिनवाणी
साकर सेलनी, पीतां जाणे अमृत वेलनी; जिन
आगम सागर शेवता, लहो विद्या रयण सोहाव
ता॥३॥सीमंधर जिनपद अनुचरी,श्रीसंध प्रते बहु
सुख करी; कनकाजासा शासनसुरी, द्यो वांछित
देवी पंचांगुरी ॥ ४ ॥

॥ श्रीविमल गीरी जिन स्तुति ॥

सत्रुंजय मंरुण आदी देव, ज्ञावे न्नवियण की-
जे शेव; रायण तल पगला तुम तणा, पूजे फल
फूले जन घणा॥त्रेविश तिर्थंकर समोसर्या वि-
मलाचल ऊपर गुण न्नर्या; गया गिरनारे नेमी
नाथ,ए जिनवर विश्वे विख्यात॥१॥ सोहम स्वा-
मी उपदिष्ट्या, जंबु गणधर मन वस्था; पुंडरगि
री महिमां जे मांहे,ते आगम समरु मन उंछाहे
॥३॥ चक्रेसरीदेवी कवरुयक्त; मनवांछीत पूरण
कल्पवृक्त; सिद्धक्षेत्रे जे वसे देवता, न्णणे नंदीसर
तसुपय सेवता ॥ ४ ॥

॥ श्री चतुर्थिनी स्तुति ॥

सर्वार्थ सिद्धि चवीए, सरुदेवी उदरे उपन्नतो;
युगल धर्म श्रीऋषज्ञजीए, चोथ तणे दिन धन्न
तो॥१॥मल्ली पास अजिनंदनए, चविया वलि पा-
श्व नाणतो; विमल दिक्का इम खट थयाए, संप्र
ति जिन कढयाण तो॥२॥चार निकेपे स्थापनाए,
चउविह देव निकाय तो;चउविध चोमुख देशना
ए, ज्ञाषे श्रुत समुदाय तो ॥३॥गौमुख यक चक्रे
सरीए, जिन शासन रखवालतो सुमति संयोगे
सुवासनाए, नय धरी नेह निहालतो ॥४॥

॥ श्री पंचमीनी स्तुति ॥

पंचमी तप कीजे सुखकार, पंचमि जनम्या
नेमिकुमार; ज्ञान रत्न सुकुल संयोग, पामीजे
वलि नवला जोग ॥१॥ ऋषज्ञादिक जिनवर अ-
जिराम, प्रह उगीने लीजे नाम; सेवे सुरनर केरा
चंद, पंचमी उपदेशी आणंद॥२॥ज्ञाव जक्ति मन
आणो घणी, सांजलो वाणी जिनवर तणी;ज्ञान

पंचमी आराधो सार, जिम पामो जवसाह्यर पा
 रा॥३॥पंचमी तप विधिए आदरे, देवि अंबिका
 सानिध्य करे; चंडविजे गुरु जावे जणे, नवनिध
 तेहने घर आंगणे ॥ ४ ॥

॥ श्रीपंचमीनी स्तुति ॥

नेमि जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर वंदो मन उल्ला
 सजी, श्रावण शुद्धि पंचमि दिन जन्या हुओ त्रि
 जग प्रकासजी; जन्म महोत्सव करवा सुरपति
 पंच रूप करि आवेजी, मेरु शिखरपर ओत्सव क-
 रिने विबुध सयल सुख पावेजी ॥१॥ सत्रुंजय
 गिरनारे वंदो, कांचनगिरि वेन्नारोजी,समत शि-
 खर अष्टापद आवू जइ तारंग जुहारोजी; श्रीफल
 वद्धि पास मंडोवर शंखेश्वर शुभ देवाजी,सयल
 तिर्थनुं ध्यान धरीजे कीजे अहोनिश शेवाजी॥२॥
 धरदत्तने गुण मंजरी प्रबंध नेमिजिनेश्वर दारव्यो
 जी, पंचमि तप करतां सुख पाम्या सूत्र सकल
 मां जारव्योजी; नमो नाणस्स इम गुणणो ग-

णिये विधिये यह तप कीजेजी, उजमणुं उलट
थी करीने पंचमि गति सुख लीजेजी॥३॥पंचमि
नुं तप जे नर करशे आश पूरे अंबाईजी, दोलत
दाई अधिक सवाई देवी दे ठकुराईजी; तपगढ
अंबर दिनकर सरिखो, श्रीविजेसिंह सूरीशजी,
वीरविजयपंढितकविराजाविबुधसदासुजगीशजी.

॥ श्रीअष्टमीनी स्तुति ॥

अष्टमी अष्ट प्रमाद सवि ठंणीये, अष्टमीधर्मशुं
प्रेम बहु मंडीये; अष्टमी आदि जिनवर संयम
रली, अष्टमी पासजिन मुक्ति पहोता वली ॥ १॥
अष्टमो द्विप नंदीश्वर सोहे, एकसोअष्ट जिनविंब
मन मोहे; ए चार अष्टाहिका सुरासुर गहगहे,
पूजा करी आगले अष्टमंगल लहे॥२॥ पासजिन
वर तणा अष्ट गण गणहरा, एकसो अठोत्तर अंग
लक्षण धरा; शुणी जिनवाणी आगम रचे ते सदा,
अष्टमी पालतां अष्ट सुख संपदा ॥३॥ अष्ट मह
कर्म घन पमलनी नाशनी, अष्टमंगल करो वर

कमल वासनी; अष्टमी प्रवचन देवी ते ज्ञय हरे,
अष्टमी पालतां सुर सानिध्य करे ॥४॥

॥ श्री अष्टमीनी स्तुति ॥

अग्निनंदन जिनवर परमानंद पद पाभ्या, वली
तव नेमिश्वर जन्म लही शिव काम्या; वली मो
क्ष चवन विहुं पाभ्या पास सुपास, आठमने दि-
वसे सुमति जन्म सुप्रकास ॥१॥ वली जन्मने दि-
क्षा ऋपज्ञ तणा तिहां होय, सुव्रत जिन जन-
भ्या चवन संज्ञवनुं जोय; वली जन्म अजितनो
इम अग्यारे कल्याण, संप्रति जिनवरनां आठम
ने दिन जाण ॥२॥ जिहां प्रवचन माता आठ तणो
विस्तार, अरुजंगी जाणे सवि जग जीव विचार;
ते आगम आदर आणीने आराधो, आठमने दिवसे
आठ अक्षय सुख साधो ॥३॥ जिन शासन रक्षक
विद्या देवी सोल, समकितिने सानिध्य करती
कुंकुमरोल; अनुज्ञव रस लीला आपे सुजश ज
गीश, गुरु धीर विमलनो नय विमल कहे शिष्य.

॥ श्रीसिद्धगीरो अने गिरनार स्तुति ॥

त्रिभूवन मांहे तीरथ सार, श्रीसत्रुंजयने गिरनार; महियल महिमा जेहनो खरो, आदि ने मि जिन वंदन करो ॥१॥ गिरुआ तिर्थना गुण ठे घणा, तिर्थकर चौवीसे तणा; विहरमान वंदू जिन बीश, सर्व सिद्धने नामुं सीश ॥ २ ॥ आवे इंद्राणीने इंद्र, लावे नर नारीनां वृंद; करे पूजाने महोष्ठव सार, पून्य तणो नवि लाजे पारा ॥३॥ मयगल पेरे जे मलपती, शासनदेवी सोले सती; वीरतणीवैयावच करे, नविक जीव सुखसंपदवरे.

॥ श्रीशंखेश्वर पार्श्वजिन स्तुति ॥

श्रीशंखेश्वर पास जिणेंद्र, दरिशाण दीठे अती आणेंद्र; मोहनवल्ली कंद; प्रत्यक्ष महिमा जेनो जाणी, आवे सुरनर उत्तम प्राणी, जाव नक्ति मन आणी; पुरिसादाणी पुहवी प्रसिद्ध, नाम ज पंता सघली रिद्ध, दरिशाणथी नवेनिद्ध; महिमावंत मन मोहन स्वामी, पूरव पून्य पसाये पामी,

सेवो अहो निश घामी१॥सित्तरसो जिन समरण
 कीजे, मानव जवनो लाहो लीजे, कारज सघला
 सीजे;पनरे क्षेत्रे एह जिणंद, सेव करे जस सुरनर
 इंद, टाले दोहग दंद; संप्रतिकाले जिनवर वीश,
 सीमंधरादिक नामुं सीश, जाव जले जगदीश;
 सित्तरसो जिन यंत्र पसाय, अलिय विधन सवि
 दूरे जाय, मनवांछित फल थाय॥२॥साधु साध्वी
 विमानिक देवी, अग्निखूणे एह पर्षदा लेवी, जिन
 वाणी निशुणेवी; ज्नुवनपती वलि व्यंतर देवी,
 ज्योतिपी देवी एम कहेवी, नैऋत खूणे रहेवी;
 वाव्य खूणे वलि व्यंतर देवा, ज्नुवनपती ज्योति
 पि करे शेवा, बोधवीज फल लेवा; वैमानिक देव
 राजा राणी, ईसान खूणे एह कहाणी, इम शुणे
 सहु जिन वाणी ॥३॥ घमघम करती घुघरी घम
 के, कटिलंके कटिमेखला खलके, वांहे वहेरखा
 जलके; मस्तक वेणी वासिंग वसियो, सार श-
 रीरे कंचुक कसियो, जिन चरणो चित्त वसियो;

१४२ ॥ दरेककामने माटे पत्र व्यवहार आपमाणे करवो-

धरणें इरामारंगरसाली, अती वशाजाणो सारमराळी,
पास शासन रखवालो; श्रीतपगच्छ सुविहितसुखदा
इ, तेज रुची विबुध वरदाई, द्यो दोलत मुज माइ

॥ श्री पार्श्वजिनस्तुति ॥

जय पास देवा करुं सेवा अश्वसेन कुल नृषणं
नयरी वाणारसी शुद्धाणं विमल विगलित दू
षणं; पय कमल फणिधर नविक सुखकर नील
तनुं वय वंदनं, प्रभु पाप चूरण आशपूरण देव वं
मा नंदनं; संसार तारण सुखकारण कर्म अरि
दल गंजनं, देवाधिदेव तिलोक नायक कमठमान
विहंरुनं; तुम नाम निर्मल सहज शीतल पा
तिमिर नवि दिणयरं, लख्खचोराशी जीव बांधव
नमो पास जिनेश्वरं ॥१॥ सोहम्म स्वामी शुद्ध
मुनिवर आगमसूत्र प्रकासिया, अंग अग्यारे उ
पांग बारे विविध जेद निवासिया; संदेह नंजन म
नह रंजन एक मना अइ सरदहे, घन कर्म गंज
पापमंजी तेह मुक्ति श्री लहे ॥३॥ अहोलोक वा

सनी अलियनासनी देवी श्री पद्मावती, कटी दोर
कुंमल हार ऊगमग वीजली जिम राजती; धर-
णेंड देवा तणी राणी संघ मंगल कारणी, श्रीसुत
समुड मुनिंङ केरी सर्व आशा पूरणी ॥४॥

॥ श्री मौनएकादशीनी स्तुति ॥

भृगशिर शुद्ध एकादशीए, ज्ञाखी नेमिजिणंद-
तो; मुक्तिवधूनो मांरुवोए, आदरे ऋश्व नरिंदतो;
वर्ष अग्यार आराधिये ए, एकादश वलि मासतो;
जाव जीव लगि जे करे ए, पामे शिवपुर वासतो
॥१॥ कळयाणक कळ्या एह तिथिए, नेउ जिननां
जाणतो; त्रीश चोवीशी तिहांथकीए, पंच पंच
गिणति आणतो; ज्ञरतादिक दश क्षेत्रनाए, जि-
नवर सधला जाणतो; त्रणे काल मिलि ध्यावतां
ए, पामे पद कळयाणतो ॥ २ ॥ अंग अग्यारे जे
ज्ञणेए, पम्निमा तप अग्यारतो; सुव्रतशेठतणीप-
रेए, सुरपद्मी लहे सारतो; अग्यार अग्यार प्रका-
रनीए, पामे परिगल ऋद्धतो, आगमने आराध-

तांए, न्नवियण पामे सिद्धतो ॥३॥ नेमिनाथ जि-
नवर कहे ए, एकादशी अधिकारतो; पूठे क्रश्च न-
रेशरुए, निशुणे प्रषदा बार तो; शुणी अनुमोदे
आदरेए, माधव परे जग सारतो; शासनदेवी सुख
करुए, किर्त्तिचंड हितकारतो ॥ ४ ॥

॥ श्री पार्श्वजिन स्तुति ॥

आहोर नयरे पार्श्व जिणंद, जेव्या ज्ञाजे नव
ना फ्रंद, आपे परमाणंद; दशमो प्राणंत कल्प
कहीजे, विशाखा नक्षत्र योग लहीजे, चवन क-
ल्याण कहीजे ॥१॥ दशमी दिने जनम्या सुख-
कार, राणी प्रजावति अति मनुहार, वरिया पास
कुमार; त्रीस वर्ष गृहवास कहीजे, संजम रमणी
प्रेमे वरीजे, दिवस चोराशी लहीजे ॥२॥ केवल
रमणी वर्या प्रज्ञू पास, अंग उपांगने पयत्रा खा-
स, ठठेद मूलसूत्र जास; नंदीने वली अनुयोगघास;
बलाख प्राये ठत्री हजार, त्रिपदीनो विस्तार ॥३॥
मुज मन मीठी एहज वाणी, अमृतशुं अधिकी

गुणखाणी, सुविहित गुरु दिल आणी; पास यद्द
अधिष्टायक जेह, संघ चतुर्विध हितकर तेह, के-
शरं विजय गुण गेह ॥ ४ ॥

॥ श्री नेमिजिन स्तुति ॥

चंपक केतकी पाडल जाई, सेवती मालती सु-
हार्ई, परिमल पुद्दवी नमार्ई; वारु श्रावक पूजे
फूले, वली विशेषे अति बहु मूले, ईहां जीव म
ज्जुले; कारण साधु ज्जलीपरे जाणे, वशर स्वामी
गुरु इणपरे आणे, वली विशेषे वखाणे; पुजीक-
रीने करशुं शेव, एहज लागी मुज मन टेव, वंडु
श्री अरिहंत देव ॥१॥ आंवा रायण सरस खजू-
रा, सदा सदाफल ने वीजोरा, रूमा फल जंजीरा;
खरुवूजा कोहला वडेरा, जंबू नींबू जावे जलेरा,
अती मोटा नालेरा; नारंगी नारंगा केला, पाकी
दाहिम कीजे जेला, ढोवो मेलो समेला; वली
ढोवो खुरसाणी सेव, मुज मन लागी एहज टेव,
वंदू सधला देव ॥२॥ निवजाने साकरनी जोरु;

पिस्ता डाख बिदाम अखोड, खातां पूगे कोरु;
 अति नजला सरस गुंदवडा, सांजरिया हिवणां
 वरसोमा, खारिकने सिंधोडा; घणी सुखडी इण-
 परे आवे, गुंदगीरी सेलमी सुहावे, चारोली पिण
 जावे; गुलने गुंद जली गुलघाणी, सवि हुंति मीठी
 जिनवाणी, शुणो जविका मन आणी ॥३॥ खाजा
 लाडू मुर्कि मांमी, जली जलेबी न सकुं गंडी,
 घेवरशुं रठ मांडी; खीर खांड मांडानी जाति,
 घणी अठे पकवाननी जाति, ऊपर दीधी पाति;
 सुरहो धीने उन्हो धान, कूण करे कंसार समान,
 ऊपर फोफल पान; घणा सालणा जली सजाई,
 हरखे पिरसे अपणी माई, जो त्रूठे अंबाई! ॥४॥

॥ श्री गिरनार नेमिजिन स्तुति ॥

सुर असुर वंदित पाय पंकज मयणमल्ल अक्षो-
 न्नितं; घन सघन स्याम शरीर सुंदर शंख लंठन
 शोन्नितं; शिवादेवि नंदन त्रिजग वंदन जविक क-
 मल दिनेश्वरं; गिरनार गिरिवर शिखर वंदू नेमि

नाथ जिनेश्वरं ॥१॥ अष्टापदे श्री आदि जिनवर
वीर पावापुरि वरं, चंपापुरी श्री वासुपुज्यजि नेमि
रेवा गिरिवरं; समेतशिखरे वीश जिनवर मुक्ति
रहोत्या मनहरं, चौवीश जिनवर तेह वंदू सयल
संघ सुहंकरं ॥२॥ अग्यार अंग उपांग वारे दश
पयन्ना जाणीये, ठ ठेद ग्रंथ पसथ्य हृथ्या चार
मूल वखाणीये; अनुयोगघार उदार नंदीसूत्र जि-
न्तमत्त गाईये, वृत्ती चूरणी सूत्र आगम पंच चा-
लिश ध्याईये ॥३॥ विहुदिशि वालक दोय जेहने
सदा ज्ञवियण सुखकरं, डखहरे अंबालंब सुंदर ड-
रिय दोहग अप हरं; गिरनार मंरुण नेमि जिनवर
चरण पंकज ज्ञयहरं, श्री संघ मंगल करे अंबा
देवी देवे शुज्जवरं ॥ ४ ॥

॥श्रीमौनएकादशीनी स्तुति॥

नेमिश्वरने श्री नारायण प्रश्न करे पाय वंदी-
जी? सकल पर्वमां जेह महाफल ते मुज कहे
आनंदीजी! जिन कहे? मृगशिर मौन एकादशि

वर्षो वर्ष आराधेजी, चौविहार उपवास पोषहथी
ते शिव संपती साधेजी॥१॥दशहेत्रे पंच पंच क-
द्वयाणक सर्व मली पञ्चासजी, त्रिहुं काले ते
त्रिगुणा करतां दोढ सतक थाय खास
जी; उज्वल मृगशिर एकादशी दिन जिन जप
माला गणोयेजी, संपद सधलो सन्मुख आवे आ
पद सवि अवगणोयेजी॥२॥ प्रतिमा ज्ञान पूजा
उपगणना प्रत्येके अग्यारजी, फल पकवान मेवा
बहु ढोवा, स्वामी वञ्चल सारजी; गुरु वचने ईम
मौन एकादशि उजमणो जे करशेजी? सुव्रत शे
ठ तणी परे ते नर शिव कमला सुख वरशेजी!
३॥ देव देवी जे सम्यग् दृष्टी शासन सानिध्य का
रीजी, संघ सकल फल वाञ्छित पूरो दोहग दुःख
निवारीजी; एकादशी तप आराधकने मनकामित्त
सुख आपोजी, हंस कहे? जिन आगम आणा न-
वियण थिर करि आपोजी ॥४॥

॥ श्री शांति जिन स्तुति ॥

गजपुर अवतारा, विश्वसेन कुमारा, अवनी तळे
 नृदारा, चक्रवी लहो धारा. प्रति दिवस सवारा,
 सेविये शांति सारा, ज्वजलधि अपारा, पामिये जे
 म पारा॥१॥ जिनगुण जस मछो, वासना विश्व
 वल्ली, मन सदन सचछो, मानवती निसछो. स-
 कल कुशलवल्ली, फूलमे वेग फूछो, दूरगति तस
 रुछो, त्यां सदा श्री बहुछो॥२॥ जिन कथित वि-
 शाला, सूत्र श्रेणी रसाला, सकल सुख सुखाला,
 मेलवा मुक्ति वाला. प्रवचन पद माला, दूतिकाए
 दयाला, नरधरी सुकमाला, मूकीये मोहजाला३॥
 अति चपल वखाणी, सूत्रमें जे प्रमाणी, जगवती
 ब्रह्माणी, विघ्नहंतानिवाणी. जिनपदलपटाणी, कोरी
 कळयाणखाणी, नदयरत्नेजाणी, सुखदातासयाणी४
 ॥ श्री वीर निर्वाणामावास्या स्तुति ॥

॥ अमावस्या थइ कजली, वीर तणे निर्वाण
 मिली; राय अठार करे उद्योत, दीवाली दिन त्यां

१५० सुडावहोतेरीनी वारता एक रुपैया.

थी होत॥१॥ श्रीश्रेयंश नमि लिये ज्ञान, वासुपूज्य
ग्रहे संयम ध्यान, संप्रति जिनना थया कळयाण,
अमावश्या दिन हे गुणखाण ॥२॥ काल अनादो
मिथ्यात्व निवास, पूरण संख्या कहोहे तास; श्री
गम ज्ञान लही जिण सार, क्रश्च पक्ष जीत्यो ति-
णवार ॥३॥ मातंग यक्ष सिद्धाई देवी, सानिध्य-
कारी हुवे नित मेवी; कहे नयविमल शुभ्र चित्त,
मंगल लोल करो नित नित ॥४॥

॥ श्री वीर जिन स्तुति ॥

शासन नायक वीरजीए. पामो परमाधारतो;
रात्रे जीमण मत करोए, जाणी पाप अपारतो;
जो डुकर देवा न मलेए, तो आदर पामो अपा-
रतो; नेम नवकारसी नित करोए, सांजे करो चौ
विहारतो ॥१॥ वासी वरुाने रींगणाए, कंदमूल तुं
टाल तो; खाता खोट घणी कहीए, ते माटे मन
वालतो; काचो दूधने ठासमांए, कठोल जमवुं
निवारतो, ऋषजादिक जिन पूजतां ए, राग धरे

शिव नारतो ॥२॥ होली बलेव ने नोरताए, पींपले
पाणी म रेमतो, शीलसातमने वासी वरुण ए,
खातां मोठी खोरतो; सांजली समकित दृढ करो
ए, मिथ्यात्व पर्व निवार तो; सामायिकावश्यक
नित करोए, जिनवाणी जमी सारतो ॥३॥ ऋतु
वंती अरुके नही ए, न करे घरना काम तो, तेनां
वांचित पूरशे ए, देवी चकेश्वरी नामतो; हितो
पदेशे हरख घणो ए, कोइ म करशो रीस तो;
किर्ति कमला पामशे ए, जीव कहे तस सीसतोध

॥ श्रीदीपमालिकानी स्तुति ॥

शासन नायक श्रीमहावीर, सात हाथ हेम व-
र्ण शरीर, हरो लंछन जिन धीर; जेहनो गौतम
स्वामी वजोर, मदन सुजट गंजन वरुवोर, सा-
यर परे गंजोर; कार्तिकामावाश्या निर्वाण, ङ्ख
अद्योत करे नृप जाण, दीपक श्रेणो मंमाण, दी-
वालो प्रगट्यो अजिधान, प्रातःसमे श्री गौतम
ज्ञान, वर्द्धमान धरो ध्यान ॥१॥ चौवीसे जिनवर

सूखकार, पर्व दीवाली अति मनुहार, सकल पर्व
 शिणगार; मेराया केरे अधिकार, श्रीमहावोर
 सर्वज्ञाय पद सार, जपीये दोय हजार; मज्जिम र-
 यणी देव वंदीजे, महावोर पारंगताय नमोजे,
 तस सहस दोय गणोजे; वली गौतम सर्वज्ञाय
 नमीजे, पर्व दीपोत्सव इण परे कीजे, मानव ज
 व फल लीजे॥१॥ अंग अग्यार ने नपांगवार, प-
 यन्ना दस ठडेद मूल सूत्र चार, नंी अनुयोग द्वा
 र; ठ लाख अने ठत्त।स हजार, चौदे पूर्व विरचे
 गणधार, त्रिपदीनो विस्तार; वीर पंचम कळया-
 षक जेह, कळपसूत्रमें ज्ञारव्यो तेह, दीपोत्सव
 गुण गेह; नपवास ठठ अठम करे जेह, सहस
 लाख कोम फल लहे तेह, श्रीजिनवाणी एह॥३
 वीर निर्वाण समे सुर जाणो, आवे इंड अने इं.
 झाणो, ज्ञाव अधिक मन आणी; हाथ ग्रही दीवी
 निशि जाणो, मेराया मुख बोले वाणी, दीवाली
 कहेवाणी; इण परे दीपोत्सव करो प्राणी, सक-

ल सुमंगल कारण जाणी, लाज विमल गुणखा
णी; वदतो रत्न विमल ब्रह्माणी, कर कमंरुल
वीणा पाणी, द्यो सरस्वति वर वाणी ॥४॥

॥ श्री सोमंधरजिन स्तुति ॥

श्रीसोमंधर मुजने वाला, आज जलो सुविहा-
णुजो; त्रिगडे तेजे तपता जिनवर, मुज त्रूव्या हुं
जाणुजी; केवल कमला केली करतां, कुलमंडण
कुलदोवोजो; लाखचोराशी पूरव आयू, रुक्मिणी
वर घणु जीवोजो ॥ १ ॥ संप्रतिकाले वीश तिर्थ-
कर, उदया अजिनव चंदाजी; केई केवलो केई
बालक परण्या, केई महिपति सुखकंदाजी; श्री
सीमंधरआदि अनोपम, महाविदेहे जिणंदाजी; सु-
रनर कोरुकोडि मलो तिहां, जोवे मुख अरविं-
दाजी ॥ २ ॥ श्रीसोमंधर त्रिगढो जोवा, हुं अल-
जायो वाणीजी; आरुा हुंगर आवी न शकुं, वाट
विषम अरु पाणीजी; इण क्षेत्रे रही पाव हुं लागुं,
सूत्र अर्थ मन आणीजी; अमृत रसथो अधिक व-

खाणी, जीवदया पटराणीजी ॥३॥ पंचांगुली में
 प्रत्यक्ष दीठी, जाणु हुं जग माताजी, पहेरण च-
 रणा चोली पटोली, अधर अनोपम राताजी; स्वर्ग
 झूवन सिंहाशन बेठी, तुहिज देवी विख्याताजी;
 सोमंधरशासनरखवाली, शांतिकुशलसुखदाताजीध

॥ श्री सिद्धगिरीनी स्तुति ॥

आगे पूरव वार नवाणु, आदि जिनेश्वर आया-
 जी; शत्रुंजे लाज अनंतो जाणी, वंदू तेहनां पा-
 याजी; जगबंधव जग तारण ए गिरी, दीठा दु-
 रगति वारेजो; यात्रा करतां बहरो पाल, कारिज
 तेहनां सारेजो ॥१॥ श्रीसत्रुंजय अष्टापद नंदीसर,
 उजंत अर्बुद आदेजी; समतशिखर गुणवंता गि-
 रिवर, सफल जनम जे वांदेजी; अतीत अनागत
 ने वर्त्तमाने, जिनवर हुवा अने होसेजी; जे जन
 तीरथ इणपरे वांदे, तेहने शिवपद आशेजी ॥२॥
 सोमंधरजिन सुरपति आगे, सत्रुंजय महिमां दा-
 ख्योजी; वंदू आगम गणधर गुंथ्युं, जेणे ए तीरथ

ज्ञाख्योजी; सिद्ध अनंत थया ए गिरीपर, अर्हंत
 आगम बोलेजी; सकल तिर्थमां राजा कहीये, नहि
 कोइ सत्रुंजय तोलेजी ॥ ३ ॥ कवचयुक्त गौमुख
 चक्रेसरी, सत्रुंजय सानिध्य करीजी, सकल मनो-
 रथ संघना पूरे, वांछित समकितधारीजी, श्रीवि-
 मलाचल जगजयवंता सब लहे सक्ति तमारीजी,
 देजो देवा सत्रुजयसेवा, कारिजसिद्धि अमारीजी॥
 ॥ श्री पार्श्वजिन स्तुति ॥

वरकाणो वर मंरुण पास, त्रूथ्यो वांछित पूरे
 आश; हुंहुं प्रज्ज तुम केरो दास, शेवकने देज्यो
 सुखवास ॥१॥ आदिश्वर विमलाचल नमो, गिर-
 नारे जिन वाविसमो; सकल सुरासुर सारे सेव,
 वंदू सघला अर्हंत देव ॥२॥ जिन वचन तुमेआ-
 दर करा, जिन जवसाह्यर हेलां तरो; आगम अर्थ
 जिण हैमे रमे, कुमति पिशाच न ठले किमे ३॥प-
 रचा पूरे पदमावतो, सकल संघना गुण गावती, रोग
 सोग टाले आपदा, कमल विजय द्यो सुख संपदा॥

॥ श्री पजूषणा पर्व स्तुति ॥

वर्ष दिवसमां सार चौमास, तिण मांहे वलो
 झाडवमास, आठ दिवश अति खास; पर्व पजूषण
 करीये उल्लास, अठाईनो करो उपवास, पौषध ल्यो
 गुरु पास; वना कल्पनो बेलो कीजे, तेहतणो व्या-
 ख्यान शुणीजे. चौदे स्वप्न वंचीजे; प्रतिपदादिन
 जन्म वंचावो, उच्छव महोच्छव मंगल गावो, विर
 जिनेश्वर ध्यावो ॥१॥ बीज दिने दिक्षा अधिकार,
 सांऊ समे निरवाण विचार, वीरतणो परिवार;
 तीजतणे दिन पास विख्यात, वलो नैमोश्वरनो
 अवदात, नवली नवजव वात; चौविश जिननां
 अंतर त्रेविश, आदि जिनेश्वर श्रीजगदीश, तास
 वखाण शुणीश; धवल मंगल गीर गुंहली करीये,
 वली प्रज्ञावना नित्य अनुसरिये, अठम तप जय
 वरिये ॥२॥ आठदिवश लगे अमार पलावो, तेह
 तणो पडहो वजडावो, ध्यान धर्म मन लावो; सं-
 वत्सरी दिन सार कहावे, संघचतुर्विध जेला थावे,

वारेलें सूत्र शुणावे; स्थिरावली साधू समाचारी,
 पट्टावली प्रमाद निवारी, शांजलज्यो नरनारी;
 आगमसूत्रजे पणयालीश, कळपसूत्रशुं प्रेमधरीश,
 शम्भू प्रणमीश ॥३॥ सत्तर जेदी जिन पूजा
 ट्रेक खेला खेल मचावो, विधि शुं स्नात्र
 वरथी देहरे जावो, संवत्सरी पडि-
 धने खामो खमावो; स्वामिवञ्जल

करण कीजे, यथाशक्ति दान मानज दीजे,
 पुन्य जंडार जरीजे; श्रीविजयसेनसूरि गणधार,
 जसवंतसागरसुगुरुनदार, जिनेंइसागर जयकारध

॥ श्रीसिद्धचक्रजीनी स्तुति ॥

श्रीसिद्धचक्र जे सेवे जवी, तेनां मनवांछित
 पूरे सवी; कष्ट कर्म सवि जाय टली, दिन दिन
 वाधे वान वली ॥१॥ अरिहंत सिद्ध सह सुखका-
 र, सूरि वाचक महा मनुहार; सर्व लोकमें साधु
 वली, जाप जपंता पामे रली ॥२॥ स्वेत लालने
 सोवन वान, हरित् अंजन प्रौढ प्रधान; उज्वल वर्णें

चारे वली, नवपद जपतां नवनिध मली ॥३॥ सिद्ध
चक्र तप जे आदरे, विमलेसर सानिध्य नित करे,
किर्त्तिचंद्रहे रंगरली, द्यो मुज वाञ्छित मुक्तिवली ॥

॥ श्रीसिद्धचक्रजीनी स्तुति ॥

श्री सिद्धचक्र सेवो नवि लोका, धणकण कं-
चन केरा योगा, मनवाञ्छित लहो जोगा, दुष्टकुष्ट
जावे सवि रोगा, जावे सघला मनथी सोगा, सी
जे सयल संयोगा, राय राणा माने दरवार, धन
धन सकल जपे संसार, सोहे बहु परिवार, नवपद
महिमा म्होटी कहीये, एहने ध्याने अहोनिश रही
ये, शिव सुख संपति लहीये ॥१॥ मध्य दले जिन
वर चौवीश, हुआ अने होशे जगदीश, वाणी गुण
पेंतीश, अतिशय सोहे जस चौतीश, माया मा-
न नही जस रीश, सोहे सबल जगीश, कांचन
वाने सोल बिराजे, दोय राता दोय धवला ठाजे,
स्यामला दोय बिराजे, दोय निला इम सवि जिन
राज, धवले ध्याने ध्यावो आज, श्रीसिद्धचक्र सु

ख काज ॥१॥दोप अढार रहित जगवंत,आठे जे
 दे सिद्ध महंत, आचारिज गुणवंत; पंच वीश गु-
 णे नवजाय, सत्तावीश गुणे मुनीराय, समकित
 जेद कहाय; नाण चरण तप जेदे ध्यावो, आसो
 चैत्री शुं मन लावो, नवदिन पावन थावो; आग-
 म जापित ए जिनवाणी, शुणी आराधो सिद्ध
 चक्र प्राणी, एह साची गुणखाणी ॥३॥ श्रीसिद्ध
 चक्रनी जे रखवाली, चक्रेसरी देवी रतनाली,प-
 गै नेउर वाचाली; कटि मेखल खलके कटिदेशी,
 मन मंथर चाले शुज्ज वेशी,सोहे नाप्ती निवेशी.
 उदर हृदय कर करज विराजे, मुखथी चंदो ग-
 यणे जाजे,सधली शोजा ठाजे; श्रीविजय प्रज्ज
 सूरिश सहाई, कुशलसागर वाचक सुखदाइ,
 उत्तम शिष्य सवाइ ॥४॥

॥ श्रीसिद्धचक्रजीनी स्तुति. ॥

वीर जिनेश्वर ज्ञुवन दिनेश्वर, जगदीश्वर जय
 कारीजी, श्रेणिक नरपती आगल जंपे, सिद्धचक्र

विध सारीजी; समकित दृष्टी त्रिकरण शुद्धे, जे
 न्नविद्यण आराधेजी; श्रीश्रीपाल नरिंदपरे तस,
 मंगल कमला वाधेजी॥१॥ अरिहंत विचे अने सि
 ष्ठ सूरि पाठक,साहू चिहुं दिशे सोहेजी; दंसण ना
 ण चरण तप विदिशे, एह नवपद मन मोहेजी;
 आठ पांखडी हृदयांबुज रोपी,लोपी रागने रीश-
 जी; नुँ ह्री पद एकेकनी गणीये,नवकार वाली वी
 शजी॥२॥ आशो चैत्रे शुद्धि सातमथी, मांडी
 शुद्ध मंढाणजी; नवनिध दायक नवनव आंबिले;
 इम एक्याशी प्रमाणजी; देववंदन पम्किमणुं पू
 जा, स्नात्र महोन्नव चंगजो; एह विधी जिण ग्रं
 थे गुंथी, प्रणमुं अंग उपंगजी॥३॥तप पूरे उजम-
 णो कीजे, लीजे नरन्नव लाहोजो; जिन गृह प-
 ऋमा स्वामी वञ्चल, साधु नक्ति उठाहोजी; वि
 मलेसर चक्केसरी देवी,सानिध्यकारी राजेजी; श्री
 गुरुविजयहमांसुपसाये,मुनिजिनमाहिमाठाजेजी.

(इति स्तुति समुच्चय संपूर्णम्).

॥ अथ श्री स्वाध्याय समुच्चय ॥

॥ श्रेणिक राजानी सजाय ॥

डुहा. श्रेणिकने समकित नही, तेह समेरी वात; श्रोता शुणज्यो कान दइ, थिर करि मन वच गात ॥१॥ राजगृही नगरी जली, श्रेणिक त्यां राजान; राणी तेहनी चेलणा, सकल गुणानी खान ॥२॥ आवे लाल देशी ॥ राणी चित्त मजार, करे अनेक विचार, आवे लाल राजा समकित किम लहेजी ॥३॥ राजा चित्त मिथ्यात, जावे अधिकी वात, आ. एक दिन राणीने कहेजी ॥४॥ आज गयो गुरु पास, उपन्यो केवल खास, आ. मात पिता स्वर्गे गयाजी ॥५॥ धारा तातनो तात, वली चेरानी मात, आ. इणहीज वन हिरण्या थयाजी ॥६॥ राणी कहे एह वात, साची दशे नाथ, आ. केवली देखवा जावसांजी ॥७॥ देखवा गया दोय साथ, पूवी सघली वात, आ. नूतो देइ घरे आ-वीयाजी ॥८॥ तापसी सह परिवार, जिमतां हर्ष

अपार, आ. राणीना गुण उच्चरेजी ॥७॥ जीमीने चा-
 ल्या जाय, गुरु करो कहे राय, आ. आज दिहा-
 मो नही जलोजी ॥८॥ म्होटो तापस तिणवार,
 मोजनी जुवे वारंवार, आ. राजा मन संका प-
 डीजी ॥९॥ राणीने पूढे राय, मोजनी किस विध
 जाय, आ. राणी कहे ए केवलीजी !! ॥१०॥ श-
 रमाणो ते राय, धर्म तापसनो जाय, आ. जीव
 लेइ कोले पड्याजी ॥११॥ थारो मेलो धर्म, जूडो
 जेहनो जर्म, आ. राणी थें किम धारीयोजी ॥१२॥
 राणी ज्ञाषे ताम, इम मत बोलो स्वाम, आ. कर्म
 बंधे ठे आकरोजी ॥१३॥ थारो धर्म ठे जेह, बोध
 कहावे तेह, आ. ज्ञक करे हाथीतणोजी ॥१४॥
 एहवा गुरु तुम राय, जेहना साथी आय, आ. ते
 किम तरशे बापनाजी ॥१५॥ राजा ज्ञाखे एम,
 नहि थारा गुरुने नेम, आ. परनारीने जोगवेज
 ॥१६॥ अवसरे देशुं वताय, अज्ञक नित ते खाय,
 आ. राणी कहे म्हारा नहीजी !! ॥१७॥ बल देखे

नित्य राय, जैनमुनीकोइ आय, आ. लाज गमा-
 रुं तेहनोजी ! ॥१७॥ नही देखे कोइ गूऊ, राय
 अयो ठे अबूऊ, आ. एकदिन रमवा नीसर्योजी.
 ॥१८॥ वनमें मंदिर एक, काउससगगे रह्यो मुनि
 देख. आ. वेश्या आणी तिण समेजी ॥१९॥ घाली
 मंदिरमांह्य, तालो दीधो त्यांह्य, आ. राजा आवा-
 से गयोजी. ॥ २० ॥ काउसगग पारी मुनीराय,
 जाण्यो सवि अजिप्राय, आ. जैनतणी हांसी हु-
 थैजी ॥२१॥ अवसर आयां कपट्ट, करे मुनी वेष
 पलट्ट, आ. सर्वधूत स्वेतांवराजो ॥२२॥ डहा ॥
 मुनिवर मनमें चितवे, जाला गुंधी राय; लब्धि
 इहां नही फोरवुं, धर्मकि हानी आय! ॥ देशी चोपाइ ॥

लब्धि फोनि मुनि कियो विस्तार, अग्नी
 लगाई तेणीवार; ज्ञानूत वणाई चोली अंग, वन
 वेगे वावानो धिंग ॥१॥ सिंगी जटा वणाइ मज-
 बूत, वण वेगे जोगी अवधूत; सिंदूर टोको अ-
 खीयां लाल, विठाय वेगे चीत्रा खाल ॥२॥ हाथ

कमंडल पग पावडी, सेली जटा वणाइ बेवडी;
रुडाकनी माला लोहनो कम्पो, आगल लइ बेठो
लाखनो घम्पो ॥३॥ मुंऊ कंदोरो काष्ठ लंगोट, वलि
वणाया ज्ञज्ञूतना गोट; विजया कुंडी ने त्रिदंडीन,
लोहतणो कीनो चीपोन ॥४॥ वलकचिरीनी वींटी
गाल, नुठ बेठो चीत्राकी खाल; धगधग धूणो धि-
खाइ ताम, चिलम तमाकू महेड्या ठाम ॥ ५ ॥
अडगू होय जब मांज्यो जाप, अलखू जगावी बो
दयो आप; मुजथी अलगी रहेजे नार, रखे काथे
होवे थारी ठार ॥ ६ ॥ थर थर धूजी वेस्यानार,
कठिण फंद मुज लाग्यो लार; जो हवे निकसुं दे-
हेरा बा'र, तो हुं आइ नवे अवतार! राजा रा-
णीने बोलीयो, थारा गुरुनो चरित्र जून; वेइया
घाली मंदिर मांहा, प्रत्यक्ष पेखो जइने त्यांय ७
राणी कहे राजा तिण ठाय, थारा गुरु होसे म-
हाराय; म्हारा गुरुनी पुरी प्रतीत, धर्मतणी वे
राखे रीत ॥७॥ राजाए ढंढेरो फेरियो, लोक बहू

त्यां जेगो थयो ! राजा राणी हर्ष अपार, जाय
 खोल्या देहराना वा'र ॥१०॥ अलख् जगावी नि-
 कळयो वा'र, धके जोगी ! लारे वेश्या नार ! राजजी
 हाको वाको थयो ! कठिने पेठो ! ने कठिने गयो !
 ॥११॥ राणी रायने बोली हसी ! धारा गुरुनी वा-
 तज इसो ! इसा गुरु थारा महाराज ! परनारी शुं
 करे अकाज ! ॥१२॥ राजा मुख नीचो घालीयो !
 राणी समकित सन्मुख कीयो ! धन्य ! धन्य ! हो
 म्होटा ऋषिराज ! धर्मतणी थें राखी लाज ! १३
 एक दिन राजा वनमें जाय, मुनि अनाथी देख्या
 त्यांय; पुठी वृत्तंतने शुणियो धर्म, मिळ्यात्वतणी
 त्यां जाग्यो जर्म ॥ १४ ॥ समकित पाभ्यो तेहने
 पास, उत्तराध्ययने जोइजो खास; पांच प्रकारे
 कुगुरु वली, अवंदण जाख्या त्यां केवली ॥१५॥
 शुणी वात समकित दृढ करे, तोते निश्चे शिव-
 पद वरे; वीर जिणडनी एह ठे वाण, धन्य धन्य
 ते प्राणी गुणखाण ॥१६॥ रुची प्रमोदे समकित

वथी स० सांजलो जिनवर वाणरे स० वारे जेदे
 तप तपी स० टालो डुरगति ठाणरे ॥ स०६॥स०
 आसो मासे नीपजे स०सवि फूले वनरायरे स०
 आणा सहित क्रिया करी स०निश्चय मुक्तिये जा
 यरे॥स०७॥स० कार्तिक मास दीवालीये स० दी-
 पकनो उद्योतरे स०दर्शन ज्ञान चारित्रनी स० त
 पशुं वाधे ज्योतरे ॥स०८॥ स० मृगशिर्गमें मन
 स्थिर करी स० जपीये अरिहंत जापरे स० आरंज
 सघला छांडीये स० जागे जव संतापरे ॥स०९॥
 स०पाश महीने प्रोती घरो,स०योनी चोराडो ला
 खरेस० आतमा कीजे निर्मलो स० अरिहंतनी
 करी शाखरे ॥स०१०॥स०महा महीने मद मोडीये
 स०ठोडीये कामिनो संगरे स०समता चित्तमें रा
 खीये स० कीजे कुमतिनो जंगरे॥स०११॥स०फा
 गुण मासे होलीये स० खेले जग सहु लोकरेस०
 पाप थानिक प्रजातीने स०आश्रव कीजे फोकरे॥
 स०१२॥ स० नरनारी जावे जणे स०तरवा जव

१६८ वैद्यकल्पद्रुम ह्रींदो, भाषा टोका साढाचार रूपैया.

जल पाररे सण्गजावास नही उपजे स० पामे शिव
पुर साररे॥सण्१३॥स०चेतन कहे समता शुणो ?
सण्परचिया वारे मासरे सण्पार्श्व प्रचुना ध्यानथी
सण्किर्त्तिचंड सुख खासरे॥स० १४॥

॥पन्नरतीथीनी सजाय—देशी रसीयानी॥

एकम कहे तुं आतम एकलो, डुविध धर्म दि-
क्ष धाररे रसीया; तीन तत्व सुधा चित्त धारीये,
जिम लहो चनगति पाररे रसीया॥ साजन आ-
वोरे अम धरे प्राहुणा॥१॥पंचमी तिथी गति पंच-
मी जे लहे,षट् काया प्रतिपालरे र॥ सातम सात
नये करी शोजती, जय देजो तमे टालरेर०साण
२॥अष्टमी आठ कर्म क्षय काजीये, नव तत्व न-
वसरो हाररे र०दीपे समकित दश रुचिये जलो;
अग्यारे अंगना धाररे र०साण३॥वारे जेदे तपस्या
धारीये, कठण काठीया टालरे र० चौदे नियम
संजारो चुंपशुं,गुणठाणा संजाळरे र० साण४॥ जेह
मिथ्यात्व अमावस परिहरो, मन धरो सिद्धनो

ध्यानरे र० पुनमनी परे जश लहो जगतमें, पा-
मो अमर विमानरे र० सा०५॥ इणपरे आतम प-
क्ष संजालीये, निर्मल दंसण नाणरे र. किर्त्तिचंद्र
कहेध्यावुंनिश दिने;पामवा पद कढ्याणरेर.सा.६॥

॥सातवारनी सऊाय-देशीरंगीलानी.॥

करजोमी कहे कामनी रे लाल, पाठा फिरी म
त्त जायरे रंगीला; विल विलती विण कारणेरला
ल, शांजलो यादवरायरे रंगीला ॥ राणी राजूल
वीनवेरे लाल? वीनतमो अवधाररे रंगीला, शां-
जलो सातेइ वाररे रंगीला, आवो अम घरवाररे
रंगीला, राणी.१॥ आदित्यवारे आवज्योरे लाल,
आगली प्रीत संजाररे रं. नवजव नारी तुम त-
णीरे ला. किम ठोमो निरधाररे रं.राणी. २॥सो
मवाररे सखी शांजलोरे ला. सजिये सोल दिण-
गाररे रं. आज पोन्न घरे आवशरे ला. सफल हो
शे अवताररे रं.रा. ३॥ मंगलवारठे अति जलोरे
ला. वत्ते मंगल मालरे रं. साहेव आवो सेजमीरे

१७० ॐ ज्वर तथा व्याधी नीवारण कोमत दोढ रूपैयो.

ला. मुजने नयणे निहालरे रं.रा.४॥ बुधवारे मु-
ज बोलमारे ला. शांजलो बुद्धि जंडाररे रं. एक
सहस आठे सहीरे ला. लक्षणतो नही पाररे रं.
रा.५॥गुरुवारे गीरनारथो रे ला. घरे आवो यादव
नाथरे रं. रात दिवस सुखे नीशरेरेलाणमुजने क-
रो सनाथरे रं.रा.६॥ सजनी शुकरे स्वामीनेरे ला०
जाय मनावो आजरे रं० करुणा करो प्रज्जु मोप-
रेरेलाण राखो अमारी लाजरे रं० रा०७॥ धावर
वारे धिरता करीरे लाण बोली राजुल नाररे रं०में
पिण संयम आदरुरे ला. मिलशुं मुक्ति मोऊाररे
रं०रा०८॥ सातेवार चित्त नजलेरे लाणजे गावे नर
नाररेरं० सुखशाता पामे घणीरे लाण पामे सुर अ
वताररे रं० पामे मोहू डुवाररे रं.रा.९॥ राजुलपरे
दिन रातमांरे लाण नेमिजिणंद धरुं ध्यानरे रं०
किर्तिचंडकरजोमीनेरेलाणदिनदिन वधते वानरे रं.

॥ श्रीजंबुस्वामीनी सजाय ॥

॥ दोहा ॥ अर्हन्मुख उत्पन जई, नारती ब्रह्म

सुताय; जसु समरण संक्षेपथी, लीला अधिक
 लहाय॥१॥ पय पंकज प्रणमुं सदा, गुरु गुण-र-
 यण जंमार; ज्ञान नयन दाता गुरु, ऊतारे जव
 पारश॥ श्रीमद् वीर जिनेश्वरू, तस कुल सोहम
 स्वाम; पाट थया गुण युत जला, सगवीश य-
 ज्ञाना धाम॥३॥ मुनिवर पाठक शोभता, सुविहि
 त सूरि अवेह; थया अने वली आवशे, दुष्पस्त
 सूरि लग जेहा॥४॥ तेह तणा सुपसायथी, प्रगटे
 पुन्य अंकूर; दुःख दुर्गति दूरे टले; हुवे आनंद ज
 रपूर॥५॥ ढाला॥ धोज करे सीता सतारे लाल. देशी॥

शम दम गुणाना आगरूरे लाल, गुरु गिरुआ
 गणधाररे सुगुणनर, पंच महाव्रत पालतारेलाल,
 संयम सतरे प्रकाररे सु०॥ जविजन शेवो जावशुं
 रे लाल, प्रणम्या पातिक जाधरे सु० जवि० १॥
 वारे जेदे तप तपेरे लाल, पाले पंचाच ररे सु०
 जय साते जम जांजीयारे ला० तेरे कर्मा निरा-
 धाररे सु० ज० १॥ विद्या चन्द्रश शोभतारे ला०

षट् मत शास्त्रना जाणरे सु०मंत्र यंत्र नवि के-
 लवेरे लाणनिशदिन वहे जिन आणरे सु०ज्ञ०३॥
 त्रेवीश परिग्रह त्यागीयारे ला०जाग्यो अनुज्ञव
 जोररे सु०सुमती सखी संग खेवतारे ला०मार्यो
 मोह वड चोररे सु० ज्ञ० ४॥ अनुज्ञव रस प्याला
 पीयेरे ला० जोगवे निजगुण जोगरेसु० अप्रमत्त
 जारंम पररे ला० साधे सूधो जोगरे सु० ज्ञ० ५॥
 निंध्या स्तुति श्रवणे शुणीरे ला० नवि धरे रागने
 रोषरे सु०सूरा परिसह जीतवारे ला० चारित्रमें
 नही दोषरे सु०ज्ञ० ६॥ तेजवंत दिनकर जिस्यारे
 ला० नदधी जिस्या गंज्जीररे सु० अडग मेरू पर्वत
 जिस्यारे ला० शशि सम अमल शरीररे सु०ज्ञ०७
 देश मगध अति दीपतारे ला० नगरो राजगृही
 ठामरे सु०कासव गोत्रमें दिनमणीरे ला० जंबू-
 स्वामी तसु नामरे सु०ज्ञ०८॥ सुरनर ध्यावे प्र-
 मोदशुरे ला० धन धन तस अवताररेसु०धर्मवि-
 जय ध्यावे सदारे ला०ज्ञवोदधि पार उताररेसु०ए

॥ श्री चलाणा राणीनी सजाय ॥

॥ वालम वहेला आवजो. एदेशी ॥ एक दिन
 वीर जिनेश्वरु, साथे बहु लेइ परिवाररे; गुणसि
 ल चैत्ये समोसर्था, मिलि तिहां परखदा वाररे॥
 श्रेणिक वंदन आवीयो० १॥ वाणी निशुणी महा
 वीरनी, आणंद अंग न मावेरे, पाठा वलतारे ति
 हां पेखीयो, काउसग्गे रह्यो मुनि जावेरे श्रे० २॥
 शीत ऋतु ताढ सवली पने, जीणो वलो वाजेठे
 वावरे; चेलणानो चित्त चमकीयो, मुनिवर वस्या
 मनमांयरे श्रे० ३॥ से'जमें सतीरे चेलणा, श्रेणि-
 क प्रीतम पासेरे; निज हाथ रह्यो जब वाहिरे,
 चेलणा मनमें विमासेरे श्रे० ४ ॥ श्रेणिक मनमें
 संसय पडयो, कुसती हशे एह नाररे; अन्नयकु-
 मारने इम कहे, एहने वालो महेल मजाररे ॥
 श्रे ५॥ वीर कहे श्रेणिकराय शुणो, शील समो
 जग नही कोयरे; चेडा राजानी साते सती, शी
 ले शिरोमणी जोयरे श्रे० ६॥ प्रजावतीने पद्माव-

ती, मृगावती ठे गुण खाणीरे; शिवा वलो चौथी
जाणीये, शियलमें रेख समाणीरे श्रे० ७ ॥ जेष्टा
ने चेलणा अति जली, सुजेष्टा ए सातमी जाण
रे; वित्तजय पाटणे जाणीये, राय उदाई मन आ
णरे श्रे० ८ ॥ चंपा नयरी दधि वाहनो, कोशंबीये
सत्तानिक जाणोरे: राजगृही नयरीये शोजतो, तुं
ज श्रेणिकवर राणोर श्रे० ९ ॥ नंदीवर्द्धन जल शो
जतो, कत्रिकुंड गाम वलि होयरे; चंद्र प्रद्योतन
उज्जैणीये, सुजेष्टा वरी नहीं कोयरे श्रे० १० ॥ जग
गुरु चरम जिनराजजी, शीलनो महिमा तिहां
दाख्योरे; सोहमस्वामी सूत्रे कह्यो, त्रिकरण जो
ग मुनि राख्योरे. श्रे० ११ ॥

॥ उहा ॥ इणि परे देई दर्शना, संसय कीधोदूर;
श्रेणिक मन संतोषियो, उपन्यो आनंद पूर ॥ १ ॥
ढाल ॥ वीरा चंदला ए देशी ॥ जगवन् संशय जां-
जीयोरे, हरख्यो चित्त नरेश; तुत तिहांथी उठीने
रे, कीधो नगरे प्रवेशरे ॥ जवियण सांजलो ० १ ॥

आवतो अन्नयने देखीने रे, जारेजा वेगे कुमार; श्रे
 णिक जंपे चेलणारे, सती शिरोमणी साररे ॥ ज०
 २ ॥ अन्नयकुमार आझा थकी रे, दिल में थयो न
 जमाल; संयम लेवा कारणेरे, श्रेणिक मन जं-
 जालरे ॥ ज० ३ ॥ सुनंदा तव सांजलीरे, दीक्षा ले-
 वाने काज; आवीने कहे रायनेरे, आझा द्यो मुज
 आजरे ॥ ज० ४ ॥ नंदावतीने संयतीरे, नदोत्तरा व
 ली नार; चोथी ठे वली नंदिणी रे, तरवा जवजल
 पाररे ॥ ज० ५ ॥ शिवा मरुता समकितारे, मरुदेवा
 मन आण; जज्ञ सुजज्ञ सुजयारे, समण जूत दाय
 जाणरे ॥ ज० ६ ॥ त्रयोदश माता साथ लही रे, चा-
 ढ्या अन्नयकुमार; श्रेणिक तसु महोच्चव करे रे,
 नयणे वहे जलधाररे ॥ ज० ७ ॥ अन्नयकुमार आवी ति
 हां रे, वंदे प्रज्जुनारे पाय; पंच महा व्रत आदरी रे,
 नित्य करे अंग सजायरे ॥ ज० ८ ॥ चारित्र पाली
 निर्मलो रे, वार वरस गुणखाण; अणसण करीने न-
 पन्यो रे, सर्वार्थ सिद्धि विमाण रे ॥ ज० ९ ॥ महा

विदेहमें सोऊशे रे, पामशे पद निर्वाण; सुनंदा
दिक तेरे जणो रे, पामीठे शिव ठाणरे ॥ ज० १० ॥ त्रि
शला नंदन वीरजी रे, पूरो वांछित आश; कोर्त्तचंइ
कहे मुज जणीरे, देज्यो शिवपुर वासरे ॥ ज० ११ ॥

॥ प्रातःस्मरण गौतमाष्टक सजाय ॥

प्रह ऊठी गौतम प्रणमीजे, मनवांछित फलनो
दातार; लब्धि निधान सकल गुणसागर, श्रीवर्द्ध-
मान प्रथम गणधार ॥ प्रह. १ ॥ गौतम गौत्र चौद
विद्या निधि, पृथ्वी माता पिता वसुज्जुति; जिन
वीर वाणी शुणी मन हरख्यो, बोलाव्यो नामे इं-
इज्जुति ॥ प्र० १ ॥ पंच महाव्रत ले प्रज्जु पासे, दे
जिनवर त्रिपदी मनरंग; श्रीगौतम गणधर तिहां
गुंथ्या, पूरव चौद डुवादस अंग ॥ प्र० ३ ॥ लब्धे
अष्टापद गिरि चढीया, चैत्यवंदण जिनवर चोवी-
श; पन्नरसें तीडोत्तर तापस, प्रतिबोधी कीधा निज
शिष्य ॥ प्र० ४ ॥ अज्जुत एह सुगुरुनो अतिशय, सु-
दीक्षादे केवलनाण; जावजीव ठठठ तप पारण,

खीरखांड गौचरी मध्यान ॥प्र०५॥ कामधेनुं सु-
 रतरु चिंतामणि, नामे महा यश करे ते निवास;
 तेह सुगुरुनो नाम जपंता, लाज्जे लक्ष्मी लील वि-
 लास ॥ प्र० ६ ॥ लाज्ज धणो लहे विणज व्यापारे,
 आवे प्रवहण कुशल केम; श्रीगौतमनो ध्यान ध-
 रंता, पामे पुत्र कलत्र बहु प्रेम ॥प्र०७॥ गौतम-
 स्वामी तणा गुणगातां, अड महा सिधि बलि नवे
 निधान; समय सुंदर कहे सुगुरु प्रसादे, पून्य उ-
 दैय प्रगट्यो प्रधान ॥ प्र० ८ ॥

॥ श्री आतमगुण चिंतन सजाय ॥

तुं आतम गुणजाणरे जाण, साधु वचन मन
 आणरे आण; जरत चक्रवर्ति खटखंड साधी, ज्ञा-
 वना ज्ञावतां लही समाधी ॥ तुं आतम०१॥ प्र-
 सनचंड ऋषि ज्ञयो सरोप, मन फेरत फिर पायो
 भोक्त ॥तुं०२॥ शुक्ल ध्यान धरि गजसुकमाल, प-
 होत्यो पंचम गति तत्काल ॥तुं०३॥ दृढप्रहारी करी
 हत्या चार, गयो मुक्ति निज गुण संज्ञार ॥तुं०४॥

१७८ कौतुक रत्न भांडागार चित्रसहित सवारूपैयो.

रावण समकित ज्ञयो नद्योत, तव वाध्यो तिर्थ-
कर गोत ॥तुं०५॥ देखो जृंगी प्रत्यक्ष ध्यान, करत
कीट ज्ञयो ताहि समान ॥तुं०६॥ कहेत बनारसी
वारंवार, तुमविण कवण बुढावणहार ॥ तुं०७ ॥

॥ श्री आतम प्रतिबोध सिजाय ॥

सुरतरुनीपेरे दोहिलोरे, लाध्यो नरजव सार;
आले मूढ म हारज्यो; कांइ करज्योरे मनमांहे वि-
चारके ॥ चेतोरे चित्त प्राणी.१॥ परिहरज्योरे कु-
विसननो संगके, सेवोरे जिनवाणी; मति राचोरे
महिलाने संगके ॥चे०१॥ पहिलो समकित सेवी
येरे, ते सहु धर्मनु मूल; संयम समकित बाहिरो,
जिन ज्ञाप्यो रे तुस खंरुण तुद्धके ॥चे०३॥ अरि-
हंत देवज आदरोरे, गुरु गिरुआ सुसाध; धर्म के-
वलीनो ज्ञापीयो, शेव्या समकितरे शिवरमणी
लाधके ॥चे०४॥ तहत करीने सर्दहोरे, एह ज्ञाप्यो
जगनाथ; पांचे आश्रव परिहरे, जिम पामेरे शि-
वपुरनी आथके ॥चे०५॥ जीववो वांछे जग सहुरे,

मरणो न वाञ्छे कोय; आपणनी परे पालज्यो, त्रस
 घावररे हणवा नही कोयके ॥चे०६॥ अयश अ-
 किर्ति इणज्वरे, परज्वे डुक्क अनेक; कूड कहंता
 पामीये, कांड आणोरे मनमांहे विवेकके ॥चे०७॥
 चोरी न लीजे परतणोरे, तृण लीधे लागे पाप; धण
 कंचन किम चोरीये, ज्वज्वमेंरे ते दहे संतापके
 ॥चे०८॥ महिलासंगे दूहवेरे, नवलक सूद्धम जीव;
 क्षिण इक सुखने कारणे, किम दीजेरे प्राणीने
 रीवके ॥चे०९॥ पुत्र कलत्र घर हाटनीरे, ममता
 कीजे फोक; ए धन परिग्रह कारिमा, ते बांभीरे
 गया बहुला लोकके ॥चे०१०॥ माय ताय वंधव
 सगारे, वहेन प्रमुख परिवार; स्वारथ्य लगे सहु हे
 सगा, कोइ परज्वरे नही राखणहारके ॥चे०११॥
 अंजलिनां जलनीपेरेरे, खिण खिण बीजे आय;
 गयो योवन नवी बाहुडे, जरा घालेरे योवनने घा-
 यके ॥चे०१२॥ व्याधि जरा जब लगे नहीरे, तब
 लगे धर्म संज्ञाल, धार सजल धन वरसते! कोइ

समरथरे बांधेवा पालके !! ॥चे०१३॥ पांच दिवस
 नो प्राहुणो रे, सहुको ईण संसार, परजव नुगी चा-
 लवो, कोइ जाणरे क्किणही अवतारके ॥चे०१४॥
 क्रोध मान माया तजेरे, म धरो लोन्न लिगार,
 समतारस पूर्या रहो, जीव दोहिलेरे मानव अव-
 तारके ॥ चे० १५ ॥ आरंज ढोडी आतमारे, पीयो
 संयम नरपूर, सिद्धि रिद्धि हेले वरो, इम बोलेरे
 श्री विजयदेवसूरके ॥ चे० १६ ॥

॥ नवकारनी सजाय—राग प्रजाती ॥

श्री नवकार जपो मनरंगे, श्रीजिनशासनसाररे
 माई; सर्व मंगलमें पहिलो मंगल, जपतां जयजय
 काररे माई ॥श्रीनव०१॥ पहेले पदे त्रिजूनवन जन
 पूजित, ध्यावुं श्रीअरिहंतरे माई; अष्टकर्म वर्जित
 बीजे पद, समरू सिद्ध अनंतरे माई; ॥ श्री० २ ॥
 आचारिज तीजे पद नमीये, गुण बत्तीस निधा-
 नरे माई; चौथे पद नवजाय जपीजे, सूत्र सिद्धांत
 सुजाणरे माई ॥श्री० ३॥ सर्व साधु पंचम पद प्र-

एसुं, पंच महाव्रत धाररे माई, नव पदे अष्ट इहां
 ठे संपद, अरुसठ वरण संज्ञाररे माई ॥श्री०४॥
 सात इहां गुरु अक्षर एनां, इक अक्षर उच्चाररे
 माई, सात सागरनां पाप खपावे, पदे पंचाश वि-
 चाररे माई ॥श्री०५॥ संपूर्ण पणसय सागरनां,
 पाप पुलाडि दूररे माई; इह जव केमकुशल मन
 वंठित, परजव सुख ज्ञरपूररे माई ॥श्री०६॥ तत्क्षण
 कीथो सोवनपुरिसो, शिवकुमर इण ध्यानरे माई;
 सर्प फोटी हुई फूलमाला, श्रीमतिने परधानरे
 माई ॥श्री०७॥ यक्ष उपज्य करतो वार्यो, परचो
 जास प्रसिद्धरे माई; चोर चरड पिंगल ने हुंडक,
 पामे नर सुर रिद्धरे माई ॥श्री०८॥ ए पंच प्रमेष्टि
 जग उत्तम, चौद पूरवमां साररे माई; गुण बोले
 श्रीपद्मराजगुरु, महिमाजास अपाररे माई ॥श्री०९॥
 ॥ श्री आत्म प्रबोध सज्ञाय ॥

पूरव पुन्य संयोगे पामी, नरजव उत्तम जात;
 शुद्ध देव गुरु धर्म लहीने, म करो प्रमादनी वातरे

प्राणी ॥ आतम साधन कीजे, एह संसार असार
 डुखागर, श्रीजिनधर्म जजोजेरे प्राणी आतम०१॥
 तन योवन आउखो दिनदिन, अंजलो जल जिम
 बीजे; तुं निचिंत थइ रह्यो ज्ञोला, तुज ऊपर जम
 खीजेरे प्राणी ॥आ०२॥ मात पिता सुत जार्ज-
 गिनी, कांतादिक परिवार; आप स्वारथ खावाने
 कारण, मिलियोठे निरधाररे प्राणी ॥आ०३॥ पाप
 करी बहु धन तुं मेले, खासी सघलोइ साथ; पा-
 पतणा फल तुं जोगवशे, डुरगति एकलो अना-
 धरे प्राणी ॥आ०४॥ क्रोध मान मद मच्छर मातो,
 जातो काल न जाणे; सत साधुनी निंद्या करतां,
 हैडे संका न आणेरे प्राणी ॥आ०५॥ इंड धनुष्य
 जिम जल परपोटो, जेहवो संध्यानो राग; जिम
 चंचलसो दामिनी ऊबको, तिम धन योवन ला-
 गरे प्राणी ॥ आ० ६ ॥ म्हारो म्हारो करो रह्यो
 ज्ञोला! त्हारो शरीर न होई; आयो एकिलो ने
 जाशे एकिलो, ज्ञानदृष्टि करि ज्ञोइर प्राणी ॥आ०

७॥ थोमीशी रिखी मुख आगल देखी, जूगे करे
 अजिमान; जे सुरपति ज्यां जेहने हुंता, वत्तीश
 लाख विमानरे प्राणी ॥आ०७॥ लाखचोराशी हय
 गय रथ जस, सहस चोसठ तस राणी; नवनिधि
 चौद रयण जस मंदिर, लोपे न को तस वाणीरे
 प्राणी ॥आ०८॥ सहस वत्तीस नृप सेवा करतां,
 पायक विन्नु कोरु, ते चक्रवर्ति इण जूमि समा-
 णा, आ जग म्होटी खोमरे प्राणी ॥आ०९॥ त्र-
 णैसैसाठ संग्रामें सूरु, पूरा जस घरे जोग; ते वा-
 सुदेव दैवगति हुआ, मूकी वर सुख जोगरे प्राणी
 ॥आ०११॥ तीन जूवनमांहे कंटको हुंतो, नामथो
 रुरता देवा; ते रावण राजाने पूंठे, कोई न रह्यो
 जल देवारे प्राणी ॥आ०१२॥ किहां ते राम! किहां
 बलदेवा! पांच पांरुव किहां देख! किहां ते नल!
 कौरव! करणादिक! ए सहु हुवा कथा ठेकरे प्राणी
 ॥आ०१३॥ जिण घर कनक तोलाता बहुला, क-
 नकतरु तिहां वास; जिण घर रमणि रमति ह-

रिणादि, हिरण चरे तिहां घासरे प्राणी ॥आ.१४
 जिण घर मणि माणिक सुकवानो, तिलजर न-
 होतो माग; ते घर हूआ रान बरोवर; वेसे घूहम
 कागरे प्राणी ॥आ० १५॥ एह संसार स्वरूप वि-
 चारी, सारी अकल करीजे; जेणे प्राणी थावे सु-
 खीयो, सो विधि मनमें धरीजे रे प्राणी ॥आ० १६॥
 जो वांच्छे सुख किर्ति इणजव, परजव शिवपुर
 वास; दान शियल तप ज्ञावनां जेदे, करो जिन
 धर्म उद्धासरे प्राणी ॥आ० १७॥ वाचक वर श्री
 सुमति विजयगुरु, नेमविजय शिशु ज्ञाखे; सो जि
 न धर्म करो मनशुद्धे, डुरगति पडतां राखेरे प्राणी ॥

॥ श्री पंचमी तपनी सऊाय ॥

सहगुरु चरण पसानले रे लाल, पंचमीनो महि-
 माय आतमा; विवरीने कहेशुं अमेरे लाल, शुण-
 तां पतिक जाय आतमा ॥ पंचमी तप प्रेमे क-
 रोरे लाल ॥१॥ मन शुद्धे आराधतां रे ला. बूटे कर्म
 निदान आ. आजव सुख पामे घणारे ला. परजव

अमर विमान ॥आ. पं. १ ॥ ज्ञानगुणे करी
 दीपतारे ला. ते तरीया संसार आ. ज्ञानवंतने सह
 नमेरे ला. उतारे जवपार ॥आ. पं ३॥ सयलसूत्र
 रच्यां थकारे ला. गणधर थयारे विख्यात आ.
 ज्ञाने करीने जाणतारे ला. स्वर्ग नरकनीवात ॥आ.
 पं. ४॥ अजुआले पख पंचमीरे ला. करो उपवास
 जगीश. आ. नमो नाणस्स गुणणो गुणोरे ला.
 नवकारवाली वीश ॥आ.पं. ५॥ पंच वरस इम की-
 जीयेरे ला. ऊपर वलो पंच मास आ. महानिशिथे
 ए कह्येरे ला. शक्ति सारु उजमो उद्धास ॥आ.पं. ६॥
 वरदत्त गुणमंजरीपेरेरे ला. तपथीनिरमल काय. आ.
 किर्तिविजय उवजायनोरे. ला. कांतिविजयगुणगाय.

॥ श्री असजाय निवारक सजाय ॥

श्रावण काती भिगशिर मास, पहिली पन्निवा
 'त्रणय विमास; चउथी कहिये वदि वैशाख, वार
 प्रहर असजाई जाख ॥१॥ जहां लगे उमे हांती
 गर, धूंहर पडती हुवे जिवार; ज्यां परचक्रनो

जय न विलाय, त्यां लगे असऊजाई कहेवाय ॥९॥
 धूली वृष्टीने केस पाषाण, वरसे त्यां असऊजाई
 जाण; जूजे मल्ल मांहोमांहे जाम, त्यां लगे अ-
 सऊजाइनो ठाम ॥३॥ जूपती परलोक पहोत्यो
 होय, ज्यां लग पाट न बेसे कोय; त्यां लग बोलीढे
 असऊजाय, सहुको सरदहजो मनमांय ॥४॥ उ-
 लकापात अने दिग्दाह, एक पहोर असऊजाई
 त्यांह; निबल मेघ तिम जाणो सही, आठ प्रहर
 सबले जल कही ॥५॥ चैत्रशुदि पंचमी दिन थकी,
 पडिवा लगे असऊजाइ नकी; पडिवा बीज तीज
 चांदणी, समीसांज असऊजाई जणो ॥६॥ आइ
 नक्षत्र न लागे जाम, गाजवीजे असऊजाई ताम;
 गाजवीज जो हुवे अकाल, असऊजाइ बे प्रहर सं-
 जाल ॥७॥ चंड ग्रहण असऊजाई जणो, बार प-
 होर उत्कृष्टो गणो; जघन्ये प्रहर आठ विचार, सूर्य
 ग्रहण जघन्ये वली बार ॥८॥ सोल प्रहर उत्कृष्टी
 कही, सहगुरु मुख जवियण सदही; नगर प्रधान

मरे जे कोय, आठ प्रहर असजाई होय ॥ ए ॥
 वासित थकी सप्त घर मांय, नर विहडे अहोरति
 असजाय; पुरुष पड्यो हुवे मृतक अनाथ, त्यां
 असजाई कही सो हाथ ॥१०॥ पुत्र प्रत्ये प्रशवे
 दिन सात, बेटी आठ दिवस विख्यात; सो कर
 मांहे कही असजाय, नारी ऋतु त्रण दिन कहे-
 वाय ॥११॥ इन्तो फूटे प्रसवे गाय, जलह रुधिर
 पने तिहां असजाय; सो कर मांहे वमिले कही,
 त्रण पहोर उपरांते नही ॥१२॥ आपाढी चौमासी
 दिणे, पडिकमणो ठायथी गणे; वार पहोर अ-
 सजाई कही, कातो चौमासी पिण सहो ॥१३॥
 इणपरे ए असजाई बहु, गीतारथ गुरु जाणे सहु;
 सांजलो इम ए कही संखव, हरखे पय प्रज्जु कीजे
 सेव ॥१४॥ अंतवर्ग अंत्यकर जेह, चउथो मात ठवी-
 जे तेह; पष्टम्वर्ग वीयकर ठवी, नाम कहे इणपरे
 इहां कवी ॥ (कवीनुं नाम "हीर" विजय जणायवे.)

॥ श्री नीजा निवारक सजाय ॥

नींदमली वयरण दुई रही, अणहुतोहो विगमे
 धर्म वातके; चोर फिरे चिहुं पाखथी, तमे उठो-
 हो नणदीना वीरके ॥ नीं० १॥ वीर कहे शुणो
 गोयमा? मत करज्यो हो समे मात्र प्रमादके; ज-
 रा आवे योवन गले, तिहां सूताहो कहो कवण
 सवादके ॥ नीं० २॥ चौद पूर्वधर मुनीवरा, नीडा
 करता हो जावे नर्क निगोदके; काल अनंतो तिहां
 वसे, किम होवेहो तिहां धर्म विनोदके ॥ नीं० ३॥
 जोरावर घणुं जालमी, यमराणो हो वा'ला से-
 बल करूरके; कंटक परे चिहुं पाखथी, जो जागे
 हो ते कहोये सूरके ॥ नीं० ४॥ जागतमां खीजे तही,
 ठेतरावे हो नर सूतां जेहके; सूतारी पाप्मा जणे,
 वा'ला करज्यो हो सापुरिसां शुं नेहके ॥ नीं० ५॥
 वीरे दृष्टांत वखाणीयो, पंखी नकरे हो जारंम प्र-
 मादके; तेहतणीपरे विचरज्यो, परिहरज्योहो जिवि
 तुमे प्रमादके ॥ नीं० ६॥ वीर वयण इम सांजली,
 परिहरज्यो हो गौतम सहवासके; लीलासुख वा-

ध्या घणा, थिर रहेज्यो हो जगमें जस वाचके ॥
 नीं०७॥ तमने नींद म आवज्यो, सहुकानी हो र-
 हेज्यो सावधानके; धर्म उद्यम तुमे आणज्यो, इम
 बोले हो मुनि कनक निधानके ॥ नीं० ८ ॥

॥ श्री उपदेशनी सजाय ॥

मानवनो जव पामीयो, पाम्यो आरिज देश;
 श्रावकनो कुल पामीयो, पाम्यो गुरु उपदेश ॥
 चेतन चेतोरे प्राणीया०१॥ चेती चतुर नर चाल-
 जे ! आ संसार असार ! दान शियल तप जावना,
 ज्ञारख्यो जिन जग सारा॥चे०२॥ अस्थिर एह संसार
 ठे, जेहवो संध्या वान, डाजअणी जल नसनो, जे-
 हवो पीपल पान ॥चे०३॥ कुटुंब मिळयो जे का-
 रमो, कारमो ठे परसंग; जेहवो सोहिणो रातनो,
 पंखी तरुवर चंग ॥चे०४॥ काचो घट माटी तणो,
 तेवी नर नारी देह; विणसत वार लागे नही, एमां
 शानो संदेह ? ॥चे०५॥ धंधो करी धन जोमीयो,
 पोष्यो सयल कुटुंब; धंधा मांहे मरी गयो, जिणरी

वार न बुंब ॥चे०६॥ मात पिता सुत बांधवा, घर
मांहिली आथ; परजव जातां जीवने, कोई आवे
न साथ ॥चे०७॥ म्हारो म्हारो करी रह्यो, त्हारो
नहीरे लिगार; कुण त्हारो तुं केहनो? जोजे हृ-
दय विचार ॥चे०८॥ काल आहेडी नित्य जमे,
कर जाली कबांण; वन मृगनी परे जीवने, शर ना
खेरे ताण ॥चे०९॥ सुकृत केमाई कर चलो, सं-
बल लीजे साथ; आगे जिम आदर हुवे, इम कह्यो
जगनाथ चे०१० वेरामी रागे वैरागनी, यह ठाळ
रंसाळ; 'मानसागर' ममतातजी, शुणोथई न जमाळ.

॥ श्री सद्गुरू सद्पदेश सजाय ॥

इम सद्गुरू जीवने समजावे, नरजव अथिर
देखावेरे; सोतो साचा सेंण कहावे, जे जिनधर्म
शुणावेरे ॥६०१॥ हुंति ते कुंकुम वरणी देही, उ
पमा दीजे केहीरे; व्हाला मिलिया सगा स्नेही;
बाळे घोचा देइरे ॥६०२॥ केना काका ने केनी
काकी, कांइ म जाणो बाकीरे; स्वारथ विण सह

जावे थाकी, जगवन् इणपरे जाखीरे ॥ ५० ३ ॥
 पेहरण मिलिया कमाने मोती, वाग वेसने धोती
 रे; घणीज मेली आथोने पोथी, धर्म विना सहु थो-
 थोरे ॥ ५० ४ ॥ आवे काल फिरे यम दोला, हुवे
 सीतांगा खोलारे; नाड्यां त्रूटे काढे यम डोला, जी-
 वनो खाय हीलोलारे ॥ ५० ५ ॥ सहु मिलि अपणो
 रोणो रोवे, तेदनी गति कुण जोवेरे; जो स्वारथ
 पूग्यो नवि होवे, तो पुंठेही विगोवेरे ॥ ५० ६ ॥ म्हारो
 म्हारो करी रह्यो घेलो, जग स्वारथनो मेलोरे;
 ऊगी चलेंगो हंस अकेलो, विठड्यां मिलवो दो-
 हीलोरे ॥ ५० ७ ॥ धन संपद वादल जिम ठाया,
 चंदने चरची कायारे; एह संसारनी काची माया,
 ठोमोने शिवपद पायारे ॥ ५० ८ ॥ धर्मतणो सरणो
 ले मोटो, गोड दे मारग खोटेरे; दया धर्मनो ले
 तुं जुगो, कदी न आवे त्रोटोरे ॥ ५० ९ ॥ राजा च-
 क्रवर्ति महा वलीया, काले अनंता गलीयारे, क-
 र्मज त्रूटे शिवसुख मलीया, अवर संसारमें क-

लीयारे ॥६०१०॥ रात दिवस जिनजी सम ध्यावे;
मनवांछित फल पावेरे; प्रेमने राज सदा सुख
पावे, विजयरत्न गुण गावेरे ॥ ६० ११ ॥

॥ श्री सर्वार्थ सिद्धि स्वरूप सिंहाय ॥

॥ वह्व विचारजो ए देशी ॥ जगदानंदन गुण-
निलोरे, त्रिशलानंदन वीर; ते जिनमारग उपदि-
श्योरे, धर्म करो तुमे धोररे ॥ पून्य न भूकीये पूण्ये
शिवसुख होयरे ते किम चूकीये ॥१॥ पूण्ये स-
र्वार्थ साधियेरे, सुरनर सुख अतीव; ते विवरीने
हुं कहुरे, शांजलज्यो ज्ञवि जीवरे ॥ पू० १ ॥ सर्वार्थ
सिद्धे अठेरे, चंद्रवा चनुसाल; मोती जूमखो तिहां
जलोरे, दीपे जाकजमालरे ॥ पू० ३ ॥ एक वच्चे
मोती दडोरे, चनुसठ मण ने मान; चनु मोती
तस पाखतीरे; बत्तीश मणना प्रमानरे ॥ पू० ४ ॥
सोल मणा वली जाणीयेरे, अरु मुक्ताफल चंग;
अडमणा सोल सुहामणारे, ओपे अतिघणो रंगरे
॥ पू० ५ ॥ चनुमणना वली जाणीयेरे, मुक्ताफल ब-

त्रीश; दोयमणा पिण मनोहरुरे, चउसठ कहे ज-
 गदीशरे ॥पू०६॥ अद्भूत एकमणा वलीरे, एकसो
 ने अडवीश; एहनो वर्णव शांजली रे, कवण न
 धूणे शोशरे ! ॥पू०७॥ सरवाले सघला मिली रे, दो-
 यसोत्रेपन सोय; वलयाकारे जाणज्योरे, तेह मोती
 सहुकोयरे ॥पू०८॥ पवन लहेरनां प्रेरियारे, सम-
 काले तेह जाम; मुख्य मोतोशुं आफलेरे, रमक
 ऊमक हुवे तामरे ॥पू०९॥ मधूरनाड महा सुंदरुरे,
 धीये तेह विमान; सुरराजा तेहशुं घणोरे, कुण
 कहे बुद्धि निधानरे ॥ पू०१०॥ ते माटे तेह देवता
 रे, अती सुखीया पून्यवंत, तेणे नाटिक लीना र-
 हेरे, माणे सुख अनंतरे ॥पू०११॥ तेत्रीश सागर
 आउखोरे, जाण न जातो तेह; सिद्ध पाहुमे वी-
 रजीरे, अवितथ जाखे एहरे ॥पू०१२॥ तेत्रीश स-
 लिल वर्णितरेरे, नूखतणी रुचि होय; तुर्त अमृत-
 मधि परिणामेरे, लव सत्तम सुर जोयरे ॥पू०१३॥
 वढतणो जो तप हुवेरे, तो पडुचे निर्वाण; सिद्ध-

सिला तिहांथो अठेरे, जोयण बार प्रमाणरे ॥पृ०
 ॥१४॥ एकवार इहां अवतरो रे, दीक्षा लेई गुरु
 पास; केवलज्ञान लही करिरे, लेश शिवपुर वास
 रे ॥पू०१५॥ पूण्ये सवि सुख संपदा रे, पूण्ये लील
 विलास; 'गुणविजय' जिन इम कहेरे पुन्यथी
 फले सहु आसरे ॥ पू०१६॥

॥ कर्कशा नारीनी सजाय ॥

मगरो उपर कनआ बोले, पामणा आया तीन;
 पामणा आरो मूठां बालूं, ठाणा नहो लाया कथु
 वी ॥कर्कशा नारि मिली, धनहो ! पीयुजी आरो
 जाग्य ! कर्कशानाण ॥ प्राहुणा आवता देखने रे,
 चूलो दीयो बूजाय; बे लातो परण्यारे मारी, आप
 बेठीरे रीसाय ॥क०१॥ मांठ बाजरीरो पीसणारे,
 लेई बेगी जर सूप; अब जो परणयो मुजने केवे,
 जाय पडूंगी कूप ॥क०३॥ घरमें घरठी घरमें उ
 खल, परघरे पीसण जावे; पाडोसण शुं वात क
 रंता, चून गंडकडा खावे ॥क०४॥ मांचो बाळयो

बरमो वाड्यो, बालो डोयलानी दांडी, ठपरो बा-
 ल्यो सूपमो वाड्यो, तोहो न चढी एक हांडी ॥
 क०५॥ तीन पावकी सात वणाई, सात पावकी
 एक; परण्यो डाकी सात खा गयो ! हुं सुकुलीणी
 एक ! ॥क०६॥ गंगा नाही गोमती नाही, वोचमें
 आई घाटी, घरे आयने जोइलतो, हजीय न मूळ
 मांटी ॥ क०७ ॥ नाही घोई वेस वणाई, तिलक
 करेहे अपार; सूर्य सामने करे वीनती, कदी मरे
 ज़रतार ॥ क०८ ॥ कहे आनंदघन शुणो हो साधू,
 एह पद दे निर्वाणी, इन पदकी निंद्या करेतो न-
 रकनी कुंड नीसाणो ॥ क० ९ ॥

॥ श्री धन्ना सालिज्जजीनी सजाय ॥

ए जीया मुनि तो वैज्जारगिरिजई वंदियेरे, सा-
 लिज्ज धन्नो दोइ संतरे; घोरारा घोरिरे ॥ जो-
 रावर कर्मी जालमीरे, बावीसे बेहु बलवंतरे; गु-
 णारा रागीरे ० ए जीया मुण १ ॥ वीरजी वचनेरे
 माता मंदिरेरे, आव्याहे बेहु अणगाररे, घोण पिण

तिहां किएही न नुलख्यारे, आप्यो नही वली
 तस आहाररे गु० एजीया सु०१॥ वलंतां महि-
 यारी मही आपीयुरे, पमिलाच्या धरी मन प्रे-
 मरे धो० पूर्व जवनी तुम मायडीरे, पूठतां प्रजू
 कह्यो एमरे ॥गु० ए०३॥ तव तेणे अणसण आद-
 र्योरे, वैज्जारगिरि जई वहेलोरे धो० फूलारी सेजां
 जेहने खूचतीरे,संधारो सिद्धा करी सहेलो रे गु०
 ए०४॥ माता महिला तिहां आवीयारे, नाथजी
 कन्हे धरी नेहरे धो० वालाजी अम साहसुं जो-
 इये रे, हरिणाहि कहे करी स्नेहरे गु०ए०५॥ मा-
 ता वयणरे मनमो विंधोयारे, मोहे घेर्योठे वली
 मनरे धो० जननी साहसुं जोयुं तदाररे, धैर्य रह्या
 ठे धनजी धन्यरे गु०ए० ६॥ सर्वार्थसिद्धि जइ न-
 थन्यारे, धन्य गया सुगति सुधीररे धो० वाचक
 जुदे वंदे तेहने रे, तरी पाम्या जवजल तीररे गु.ए.७

॥ श्री नेम राजूलनी सजाय ॥

यातो नही जाणी हो नेमिजिणंद, तोरणसें

रथ फीरी चले; भैंतो नही जाणीहो यादवराय,
 एलो वर पायो मेरो जीव सुखी थाय ॥यातो न०
 ॥१॥ तुमे दया आणीहो पशुआ देख, गिरनारे जइ
 लीनो संयम जेख ॥ या०२॥ मेरो दया नाणीहो
 करुणाधार, नवजवकी तुं में तेरी लार ॥ या०३॥
 पशुडा ठोडावाहो करुणा लाय, राजूल प्रजुके न
 आई दाय ॥या०४॥ प्रजु तुमे त्यागीहो सब संसार,
 निज अंगना कइो कियारी लार ? ॥या०५॥ जगमें
 रोती जोतांहो निर्वंध रूप, निरदय धारी कीनी
 चूप ॥ या०६॥ नर कोइ होवेहो दीन अनाथ, ते
 पिये निज नारी लेवे साथ ॥ या०७॥ प्रजु तुमे
 जाणोहो जगनी रीत, पाली न अपणी पूरण प्रोत
 ॥ या०८॥ मोहन थारी वाणीहो शुणती देख, पा-
 मती अपणो पुन्य विगेख ॥ या०९॥ आशा मोने
 धारी हो दीन दयाल, अधविच मूकी पात ज्युं
 काल ॥ या०१०॥ प्रजु तुमे धार्यो हो संयम साज,
 तुम मुज होण अंत सुकाज ॥ या०११॥ जाणु

१९८। परमार पृथुसिंह रु१) करणघेलो दोढ रूपैयो.

एसी रीती हो यादवराय, तुज दरिशाणशी अवि-
चल घाय ॥या० ११॥ विरुद विचारो हो करुणा
लाय, अवगुण को नहो कोप धराय ॥ या० १३॥
हिवे मुज शिर प्रनु धरोये हाथ, शिवपुरमें स्वा
मी लीजो साथ ॥या० १४॥ कीना सवि दूराहो क-
र्म कलंक, शिवरमणी संग जोग निस्संक ॥ या.
१५ ॥ अरजी चित्त धरज्यो हो शिव वधु सेण,
“प्रमोदरुची” कहे राजुल वेण ॥या० १६॥

॥ मनुष्यभव दश छ्ष्टांत सिजाय ॥

प्रणमी परमेश्वर वीरजिनेश्वर पाय, पूढे करजोडी
गोयम गणहर राय, स्वामी नर जवना केहा दश
दृष्टंत, वलतुं जिनबोले शुण गणधर गुणवंत,
॥ त्रूटक ॥ गुणवंत गोयम गणो शुणतुं, कंपिलपुर
वर नयरी; ब्रह्मदत्त चक्री तिहां राजे, जेणे वसी
कीधा वयरो; पूरव परे चिंते ब्राह्मण नित्य, त्रूठ्यो नर
शिर दार; तवते घर घर जोजन मागे, एक ऊपर
दीनार ॥१॥ चक्री कहे धिक धिकरे द्विज हुं तुज

तूळ्यो, जिह्वा शुं मागे पिण तुज सही विरुद्धो;
हवे चक्रवर्तीने घरे सरस रसोई कीध, जलु ज्ञो-
जन योजन गंधशालीनुं दीध ॥३०॥ दीधूं ज्ञोजन
राणीने घर, एरु लाख वाणु सहेस; सहस वत्तो
श महीघर मंदिर, सहस वत्तीसे देश; घर घर
फिरतां ज्ञोजन करतां, चिंतवे' चक्रीनो वारो, पि
ण ते बीजीवार दोहिलो! तिम मानव जव सारो
॥३१॥ पारुलोपुर नयरीये चंडगुप्त राजान, चाणा-
यक नामे बुद्धिनिधान प्रधान; तस देवे दीया पा
सा पसाय दीपे, तेहने मही मांहे मंत्री जूई जीपे
॥३२॥ जीपे मंत्री जूई रमतां, सारुं गाम हरावे;
इम चाणायक ठल वल बुधे, नृप जंडार जरावे;
ते पासा जीपंतां दोहिला, सोहिला नही विगार;
एह दृष्टांते वली वली जमतां, दुर्लज्ज नर अवतार
॥३३॥ जरतादिक क्षेत्रनो जगमां जेटलो धान, ते
जेलो करीये ढिगलो मेरु समान; पाथो एक स-
रसव ते मांहे जेलोजे, सो वरस तणो एक डो-

सी तेडावीजे ॥ त्रू० ॥ तेमावी जे मोसी हाथे, धान
 जलावी दीजे; तेवाईज सरसव पाथे ते, अलगो
 कढावीजे; एह करणी डुष्कर मोकरिनी, देव थकी
 पिण थाय; तोपिण जे मानवजव हायों, वलि
 दोहिलो कहिवाय ॥ ४ ॥ एक राय जुवारो कला प
 हुंतो पार, पुरलोक तेडावी थे बहु मान अपार;
 अठोत्तर सो तिहां थंजे बहुत विनाण, अठोत्तरसो
 वली हसे रमेहे सुजाण ॥ त्रू० ॥ जाणपणे राजा
 जगजीपे, तेहने कोई न हरावे; लोक लाख जुश
 रमवा आवे, निर्धन अश घर जावे; ते राजा जीत-
 वो दोहिलो, सोहिलो नहि लिगार; धर्म विना
 ते नरजव हायों, वली दोहिलो अवतार ॥ ५ ॥ एक
 शेठ तणे घरे रत्न तणो अंबार, ते बेटे वेच्या क-
 री वस्तु व्यापार; आपापणे ठामे ते लेइ लोक प
 हुंता; बापे पिण माग्या तव ते पूत विगूता ॥ त्रू० ॥
 पूत विगूता लोक ते पहोता, केइजे पारस फूले;
 केइ वसे हरमज बंदिरने, केइ वसे बब्बर कुले;

तेह रत्न हवे तेह तणे घरे, आवे केणे कर्म, इण
दृष्टांते नरजव डुर्लज, जाणो ध्यावो धर्म॥६॥देव
कुमर सरिखो इक मूलदेव कुमार, त्रण दिननो
जूखयो पाम्यो अटवी पार; लहे अडद वाकुला
मुनिने देई दान, चंपानगरी वन सूतो ठे शूज
ध्यान॥त्रूण॥ शुज ध्याने एक मिळयो कापनी, वेहु
त्यां चंज दीगो; साचो सुहिणो देखो उठयो, हैडे
अमियज पड्ठो; मूलदेव तिहां राजने पाम्यो, का-
पनी पाम्यो रोटो; वीजीवार एह सुहिणो न लहे,
तिम वली नरजव म्होटो, एक राय मंडावे स्व-
यंवरा मंडाण, ठ चक्र फिरे तिहा अवला सवला
जाण, पूतली इक थंज शिरे थापी रंजा नाम,
तस ग्रांख विंधवो नावी दूष्कर काम ॥त्रूण॥ दू-
ष्कर ते जोवो नीचे मूखे, तेज कढा प्रतिविंवे; ए
हवो राधावेध साधतां, नारिवरे अविलंबे; एक-
वार कोड सूर होय पण, वीजीवार किम कीजे;
तिम मानवजव दोहिलो हायो, पुनःरपि वलि

किम लीजे ॥७॥ इक द्रह अति उंमो सहस जो-
यण परिमाण, बहु मीन मनोहर नक्र चक्र अहे
नाण, अति पवन प्रचंमे खंमाणो सेवाल, काचवे
तिहां दीग ग्रह गण नक्षत्र माल ॥त्रूण॥ नक्षत्र
माल नीजकूल देखावुं, तिण कारण मुंजाणो;
एहवे पवनादिक संयोगे, ते सेवाल अंजाणो; जि
मते कछप दोहिलो देखे, ग्रह गण बीजीवार!वी-
र कहे गौतम तिम डुर्लज, एही मनुष्य अवतार
ण॥ पूरव दिशि दरीये नाखी समिल ते खीली,
तिम धुंसर नाखे पश्चिम दरीये ठेली; पाणीमां
फिरतां तरतां वे वायु योगे, खीली धुंसर मां
पेसे देव संयोगे ॥त्रूण॥ देव संयोगे सहेजे डुर्घट,
वीकट कामे आय; तापिण ए जिन धर्म विहुणो,
जीव जमे जव मांय; तेहने नरजव वलि वलि
दोहिलो, सोहिलो नही लिगार; वीर जिनेश्वरश्री
मुख बोले, शुण गौतम गणधार ॥१०॥ एक शूज
अनूपम लांबो पडोलो पूर्ण, देवे ते कीधो सोधो

सूक्ष्म चूर्ण; सुर गिरि चूला चढो फूको नाख्यो
 तेह, दह दिशि उज्यो हवे आखो किम हुवे एह
 ॥३०॥ एह धून्न वली अखंड थावे, देवादिक अ
 नुजावे; धर्म विना जिणे नरन्नव हायों, वलतो
 ते नहो पावे; मलवो ए मानव जव डर्लज; का-
 रण दश दृष्टंत; समवसरण सिंहाशण वेसीं, वदे
 वीर जगवंत११श्री वीरजिणंदनी वाणी अमिय
 समाणी, शुण गौतम गणधर पुन्यवेतो सिंचा-
 णी; जगवंत जवियणनो जंज्यो एम संदेह, अ-
 म्ह उपर नूज्यो आज अमीमय मेह ॥३०॥ मेह
 तणी परे वाणी वरसे, हरखे सुर नर वृद्ध; हीर
 पटोधर पाट सवाई, विजयदेव सूरिद; दश दृष्टां
 ते देशना सारी, गुरुजो दे सुविचार, गुण विज-
 य वाचक कहे जयवंत, विजयसिंह गणधारा॥११॥

॥ श्रीतेरह काठीयानी सजाय ॥

॥जांजरीया मुनिनी देशी॥साधु समीपे आव-
 तांजी, आलस आणे अंग; धर्म कथा नवि सांज-

लेजी, मोमे अंग बहु जंग॥ सोजागी जाई काठी
या तेरे निवार, उत्तम पदवी तो लहेजी, जय जय
जंपे संसार, ॥सोजा०१॥ बीजो मोह महाबली-
जी, पुत्र कलत्र शुं लीन; प्राणी धर्म न आचरेजी,
अधिर जे धन आधोन ॥सोजा०२॥ त्रीजो अवना
काठीयो जी, शुं जाणे गुरु एह; पेट जराइ कार-
णेजी, ठोड्याहे घरणी गेह ॥सो०३॥ चौथो मान
घरे घणोजी, मुज सम अवर न कोय; किम वांढू
जण जण प्रत्येजी, एह मोटिम मन होय ॥सो०४॥
पांचसो क्रोध वसे करीजो, ठांडे धर्मना थान; धर्म
लाज मुज नही दीयो जी, नवि दीयो गुरु सन्मान
॥सो०५॥ षठो जीव प्रमादथीजी, करे मदिरादिक
सेव; गुरु वाणी नही सद्देहेजी, नवि माने जिन
देव ॥सो०६॥ सातमे कृपणपणा थकीजी, नावे सा
धु समीप; धर्म कथा सही अवगणेजी, मांडशे
धननी टीप ॥सो० ७॥ आठमे गुरु जय उपन्यो
जी, कहेशे नरकनां दुख; के कहेशे किम नावि

बनथरनो प्रवास रु१) मौकाथोलोनो प्रवास दश आना. २०५

याजी, पामशो कहो किम सुख ॥सो०७॥नवमें
देहरे जावतांजी, दाखवे शोक विशेष; धरनां
कार्य सवी करेजी, धर्मनां कार्य नवेख ॥सो०८॥
अज्ञान दशमो काठीयोजी, देव तत्व गुरुतत्व; ध
म तत्व नविसर्दहेजी, एम आणे मिथ्यात्व ॥सो.
१०॥ व्याक्षेपक अग्यारमोजी, ऊलफलतो दिन
रात, प्राणी धर्म न ओलखेजी, समजाव्या बहु
ज्ञांत ॥सो०११॥ वारमे धर्म कथा तजीजी; कौ-
तक जोवा जाय, रात दिवस नजो रहेजी, नय-
णे निंद जराय ॥सो०१२॥ तेरमो विषय काठीयो
जी, विषय शुं राता लोक; विषय सार इक ले-
खवेजी, अवर जगतमें फोक ॥सो०१३॥ सिद्धक्षेत्र
जातां थकांजी, काठीयो एह अंतराय; ड्य जाव-
थी टालीयेजी, तो मनवांछित आय ॥ सो०१४॥
ए तेर काठीया जिन कहाजी, समजी वरजो
एह; कुशलसागर वाचक तणोजी, शिष्य उत्तम
गुण गेह ॥सो० ॥१५॥

॥ श्रीसोगठावाजीनी सजाय ॥

सुगुण सनेहाहो सांजल शीखनी, हृदय वि-
 मासी जोयरे रसीया, चतुर विचक्षण धर्म कला
 तणी, रामत रमज्यो जोयरे रसोया ॥१॥ मत
 कोइ रमज्योरे साजन सोगठे, रमतां लागे पापरे
 रण धर्मकर्मना कारज वीसरे, खीजे मायने वा-
 पररण ॥ मतको०३॥ रात दिवस नित रामत शुं
 रमे, नही लीये प्रचुनो नामरे रण भुंघ जावेहो
 निडा नवि गमे, घरनां विणसे कामरे र० मत०
 ३॥ वेस्या विलूधो नल कुबेरशुं, रमतां पासा सा-
 रोरे र० धण कण कंचन राज विगाडीने, होमे
 हारी नारोरे र० ॥म०४॥ पांरुवे कौरव शुं क्रीमा
 करी, जूवटे मीठी हाररे र० वनवासे रह्या वात
 अठे घणी, कहेता नावे पाररे र० ॥म०५॥ रंग रंगी
 ला पासा सोगठा, सखरा वणावे दावरे रण ठेले
 उबीलो खेले खांतशुं हुंस धरी मन जावरे रणम०६
 ऊटके पटके कीडी कुंथुआ, थाए त्रसनो घातरे

१० मुखथी मार शब्द तिहां उच्चरे, न गमे पून्य-
नी वातरे रणामण्डा ॥ जूठुं वोलिहो रमतां रामते,
कपटो न मेले तानरे रण चोरो शीखेहो निजपर
घर तणी, पर नारीनो ध्यानरे रण ॥ म०८ ॥
पासे रामत रमतां मानवी, होय जुहारी जेहरे रण
सात व्यसन मुख्य जेहठे, एहने वर्जे धन धन ते-
हरे रणाम०९ ॥ रमतां कलह करी उठे सही, रा
जा मागे दंभरे र० आरंज लागे वलो वाज काय-
नो, पापे जरावे पिंडरे रणाम०१० ॥ रामत मांडो
हो ए घर आंगणे, वदीये नांही दोभरे रण जजन
कीजे हो श्रीजगवाननो, कहे कवियण करजोभरे ॥
॥ श्रीसमकित जेदे जावनारुप सजाय ॥

चाखो नर समकित सूखडली. दुःख नूखरुलो
जाजेरे; चार सदहणा सेवेया लाहू, तीन लिंग फी
णा ठाजेरे ॥ चाखो०१॥ दश विध विनय दोठा
मीठा, त्रण शुद्धि सखर सुंहालोरे; आठ प्रजावक
जनने रागी, करी टालोरे ॥ चा०१॥ नृ-

षण पांच जलेवी कूलो, ठव्वीह जयणा खाजारे;
 लक्षण पांच मनोहर धेवर, ठठाण गुदवडा ताजा
 रे ॥चा०३॥ ठ आगार नागोरी पैमा, ठ ज्ञावना
 पिण पूरीरे; सत सठ जेद ए नवनवी वाणी, स-
 मकित सूखडो रुमी रे ॥चा०४॥ श्रीजिन शासन
 चोवटे मांडी, सिद्धांत थाली सारीरे; ए चाखे अ-
 जरामर थावे, शिष्य सुदर्शन प्यारी रे ॥चा०५॥

॥ श्रीबीजी वामनी सजाय ॥

बीजी वाम विचारों, तुमे वीर वचन मन धा-
 रोरे; साजन सांजलो विकथा चार निवारो, एठे
 चउ गइ डुख दातारोरे ॥साज०१॥ ब्रह्मचारी न-
 करो कहीये, सहो नारी कथा नवि समरेरे सा०
 विकथा ठे पापनो मूल, ठांमी कीजे मन अनुकू-
 लरे सा०२॥ नींबु आंबली जोगे, दाढ गले खटाई
 योगेरे ॥सा० ३॥ इणपरे महीला वाते, व्रत ज्ञागे ए-
 हने जातेरे ॥सा० ३॥ हसित वदन ठबी देखी,
 काम व्यापे रामा पेखीरे सा. रामा रूप निग्रंथ

निहाली, संजमथी घणु होय खाली रे ॥सा०४॥
 कमल शुं कोमल काया, अति सुंदर वेस वेणा
 यारे सा. वर्णव न करे व्रत धारी, मदनातुर होवे
 नरनारीरे सा०५॥ जाजा मुंजा करती, सत वर-
 णी लडती परुतीरे सा०कर चरणादिक हुवे ठे-
 द्या, ते पण व्रत ठांडे जैयारे ॥सा०६॥कामादिक
 रागे बांधे, पाडे नारी कथा अगाधेरे सा. इम जा
 णी एह नवी करीये, शिवरमणी सहजे वरीयेरे
 सा०७॥ इम वीरे वाढ्य प्रकासी, ज्वि शेवो ज्ञा
 न ज्ञासीरे सा. कदे केसर ए तजे सुखीया,
 जे शियल गुणे हुवे रसीयारे ॥सा० ८ ॥

॥ श्रीपांचमी वामनी सजाय ॥

॥ घोमीतो आइ थारा देशमां मारुजी ए देशी ॥
 गौतम पूठे वीरने साधुजी, पंचमीवामे स्वरूपहो;
 ब्रह्मचारी ज्विकजन सांजलो साधुजी, शीलव्रत
 किम पालीये सा० जिम तरीये ज्व कूपहो ॥ ब्रह्म-
 चारी ॥ ज०१॥ जीतांतरे रहेतां थकां सा० नवि

शुणे स्त्रीनी वातहो ब्र० कुजित रुजितना शब्द
 थी साण हुवे तिहां व्रतनी घातहो ॥ ब्र०२॥ हसित
 वदन वचने करी सा० न रहे थिरता चित्तहो ब्र०
 कंकण स्वर जिहां ऊपजे साण त्यां न रहे व्रतनी
 रीतहो ॥ ब्र०३॥ गीत विनोदे रीऊवी साण पादे
 फंद अनेकहो ब्र० द्वाव ज्ञावादिक संगथी साणरहे
 नही शील विवेकहो ॥ ब्र०४॥ अग्नि तणा संयो-
 गथी सा० लाख गले हुवे ठारहो ब्र. तिम मुनि
 महिला संगथी सा० लागे व्रत अतिचारहो ब्र०५॥
 रामा रुदन विलापथी सा. प्रसरे काम विलासहो
 ब्र० मुनिनुं मन डोहलुं करे सा. सही वर्जे व्रता-
 ञ्चयासहो ब्र.६॥ वीर जिनेश्वर उपदिश्यो सा. शी
 ल तणो अधिकारहो ब्र. सौजाग्य कुशल गुरु ना
 मथी सा. केसर कुशल जयकारहो ब्र. ७॥

॥ क्रोधनी सऊाय-राग आसाउरी ॥

क्रोध न करिये जोला प्राणी, क्रोधे डुरगति खा
 णीरे; क्रोधे तप जप होवे हाणी, एम वदे जिन

वाणीरे॥क्रोधन.१॥ क्रोधे दूरे शिव पटराणी, जा-
वे जेम रीसाणीरे; क्रोध चंडाल तणी नीसाणी,
काय लता कुमलाणी रे ॥क्रो.२॥ क्रोधे नवला वेर
बंधावे, प्रेम पूर्वनो जावेरे; क्रोधे नवली प्रीत न
थावे, क्रोधे आप मरावेरे॥क्रो, ३॥ आप तपे पर-
ने संतापे, जे नर क्रोधे व्यापे रे; क्रोधे नरनारीने
श्रापे, पीरु जरावे पापेरे ॥क्रो.४ ॥ क्रोधे लज्जा तां
तण त्रोमे, पून्य तरुवर मोडेरे; सद्गति केरा सु-
ख संक्रोडे, डुरगति स्हामो दोमे रे॥ क्रो०५॥ मात
पिता सुत बांधव मोडे, क्रोधे मूठ मरोडेरे; राजा
दंमे देवे खोमे, अपजसनां फल जोडेरे ॥क्रो. ६॥
क्रोधे सधला काज विणासे, परना मर्म प्रकासेरे;
सज्जन ते पिण अलगा नासे, कोइ न राखे पासेरे
क्रो. ७॥ आतम शीख राखी अति सुंदिर, जीवतुं
शिवपूर वासरे; जो परनिद्या थइ होय एहमां, मि
ष्टामि डुक्कर तासरे ॥क्रो,८॥ श्रीजिन आगमने
ठजासे. ज्ञावसागर इम ज्ञासेरे; धर्म करो मनने

उद्धासे, उपसम आणी पासेरे. ॥ क्रो. ए ॥

॥ अथ माननी सजाय ॥

अजिमान म करशो कोइ, अजिमान थकी डु-
ख होइरे; नवियण मान तजो ॥अजिमान महा
डुरदंत, वसी आणो साधु महंतरे॥ नवियण०१॥
जोरावर जग मांहेऊ, नही तेहथी कोइ पाऊरे न.
देव दाणव शुं ए लकीयो, जेणे सुर नरपति ते
नडीयोरे ॥न०१॥ रामचंड राजानी घरणी, जेनी
अति म्होटी करणी रे ॥न०॥ तेह सीताने रावणे
आणी, करवाने निज घणीयाणीरे ॥न०३॥सघ-
खा नरपति जीता, जे हुता लोक वदीतारे ॥न०॥
एहवो रावण राणो, डुख पाम्यो सपराणोरे ॥न०
४॥ उत्तम जात कुल पामी, तुमे मान म कर-
शो धामीरे न० अजिमान कर्यो शिशुगाले, ते
तो तुर्त गयो पायाले रे ॥न०५॥ बीजा नरनुं शुं
कहेवुं, वीर जिनवर संबंध ग्रहवुरे न० एम मूर्ख
जे गुण होणा, अजिमान करे धन हीणारे॥ न०

६॥ खर करहानो अवतार, परजव ते हुवे निरघा-
ररे ज्ञ० आठेई मद परिहरीये, शिव मंदिरे सं-
चरिये रे॥ भ० ७॥ सद्गुरुनी वाणी शुणीजे, उपदेश
सुधारस पीजेरे भ० भावसागर इम भासे, नवे
नगर रही चोमासे रे ॥ भ० ८॥

॥ मायानी सजाय-देशी सोजागी. ॥

॥ माया मूल संसारनो, माया मोहनी रीऊहो
भविषण; मायाये जग सहु नम्यो, माया डुर ग-
ति बीजहो भविषण. मायामूल सं० १॥ जिम द-
क्षिण पवने करी, मेइ हुवे विसरालहो भ० ॥ तिम
मायाना जोरथी, पून्य घटे ततकालहो भ. मा. १॥
मर्म वचन वोळया थकी, जिम सज्जन प्रतिकूल
हो भ० तिम तप जप संयम क्रिया, मायाए थाए
धूलहो भ. मा. ३॥ मद्धि जिणेश्वरे बांधीयो, मा-
याये स्त्री वेदहो भ. उत्तम नर करज्यो तुमे, ते मा
टे तस वेदहो भ. मा. ४॥ मायागारा मानवी, सेव
करे करजोमहो भ. मायाये रीऊया मानवी, आपे

धननी कोडहो भ.मा.५॥ इम जाणीने मत करो,
 माया सेधी प्यारहो भ. जिम योगीश्वर सोटका,
 न करे नारीनो यारहो ॥भ.मा.६॥ भावसागर कहे
 भविजना, शांभली सहगुरु वाणहो भ. मायाना
 परिहारथी, लहिये सुखनिरवाणहो ॥ ज. मा. ७॥

॥ अथ श्री मुनीगुण सजाय ॥

॥ ऐसे मुनिजन देखे वनमें, एतो समता रस
 लीननमें ॥ ऐसेमु. १॥ धूप सहे शिखरनके ऊपर
 मगन रहे ज्ञाननमें ॥ अ० १॥ पावस ऋतु बरसत
 रहे टाढे, बुंद सहे ठिन ठिनमें ॥ ए० ३॥ सीत सहे
 दरियाव कीनारे, धीरज धरे ध्याननमें ॥ ए० ४॥
 "राम" मनावत ऐसे मुनीकुं, राग छेप नहीमनमें. ५

॥ अथ तेरह काठियानी सजाय ॥

॥ उहा ॥ वाट पासु फरि वाटमें, करे लपडव अ-
 पार; तिणे देश गुजरातमें, कहे काठियावार ॥ १॥
 त्या एह तेर काठिया, करही धर्मनि हाण; ताते
 कहूं एहनी कथा, कहा विशेष वखाण ॥ २॥ जूआ

आलश सोक जय, कौतक कुकथा कोह; कृपण
 बुद्धि अज्ञानता, ब्रम निश मद मोह ॥३॥ देशी
 चोपाइ ॥ प्रथम काठीया जूआ जान, जामें पंच
 वस्तुकी हान; प्रचुता घटे कटे शुभ्र कर्म, मिटे
 सुयश विणसे धन धर्म ॥४॥ द्वितिय काठीयोआ
 लस ज्ञान, जासु उदय नासे विवसान, बाहिर
 सिधिल होही निज अंग, अंतर धर्म वासना जं
 ग ॥५॥ उग तोजे बहु शोक संताप, जासु उदय
 जीव करे विलाप; सूत कपात जसु धरे होय,
 धर्म क्रिया ते न करे कोय ॥६॥ चोथो जय का-
 ठीयो वखाण, जेहने उदये हुवे वलहाण; घटे दे-
 हीने फुरे उपाय, तव सुधर्म उद्यम मिट जाय;
 उग पंचम कुकथा वकवाद, मिथ्या पात तथा धु
 निनाद; जव लग जीव मगन इन माही, धर्म
 वासना तवलग नाही ॥७॥ कौतुहल उठम का-
 ठीयो, जर्म विलास शुं हर्षे हीयो; मृपारूप निखे
 धर्म ध्यान, विण सज्जाय सत्यारथ ज्ञान ॥८॥

कोप काठीया दे सातमा, अग्नि समान हे जहां
 आतमा; आप दहे ओरनकुं दहे; धर्म रुचीरंकुश
 नवि रहे ॥१०॥ कृपन बुद्धि अष्टम वटपार, जामे
 अगट लोचन अधिकार; लोचन माहे ममता परका-
 स, ममता करे धर्मको नास ॥११॥ नवमो ठग अ-
 ज्ञान अगाध, जासु उदे उपजे अपराध; जो अ-
 पराध पापहे सोइ, जहां पाप तहां धर्म न होइ
 ॥१२॥ दशम काठीया ब्रम विक्षेप, ब्रम सो कर्म
 अशुचको लेप; अशुच कर्म दुर्मतिकी खाण, उ
 र्मति करे धर्मकी हाण १३ एकादशम काठीया निंद,
 जासु उदे जीय वस्तु नविंद; मन वच काय होय
 जमरूप, बूडे धर्म कर्म धन कूप १४ ठग द्वादशम
 अष्ट मद ज्ञार, जामे अकर रोग अधिकार; अक
 र रोग अरु विनय विरोध, जहां अविनय तहां
 धर्म विरोध १५ तेरम चरिम काठीया मोह, जो वि
 वेक शुं करे विठोह; अविवेकी मनुष्य तिर्यंच, ध
 र्म धारणा धरे न अंस १६ ॥डहा॥एही तेरह का-

गीया, लेही रत्न त्रय ठीन, याते संसारी दशा,
कहीये तेरह तीन ॥१७॥

॥ श्रीनवकरवाली वर्णन सजाय ॥

बारं जपुं अरिहंतना जगवंतनारे, गुण हुं नि-
शि दिस; सिद्ध आठ गुण जाणीये वखाणीये रे,
जे गुण ठत्तीस १ नवकरवाली वंदीये चिर नंदी-
येरे, उठी गणीये सवेर; सूत्र तणे गुणे गुंधीया
मन मोहनरे, मांहे मो'टो मेर ॥ नव०१॥ पंच वी
स नवजायना सगवासरे, गुण श्री अणगार; ए
कसो आठ गुणे करी इम गुणज्योरे, जवियण न
वकार ॥ न० ३॥ मोह जाप अंगुठडे वयरी रूठमेरे,
बीजीना गुण जोय, बहु सुखदायक मध्यमा अ-
नामिकारे, वस्थारथ होय ॥ न० ४॥ आकर्षणी टची
अंगुली वली शुणज्योरे, गुणवानी रीत; मेरु ओ
लघन मत करो मत करज्योरे, नखात्रे प्रीत ॥ न.
५॥ निश्चल चित्ते जे गुणे वली गुणे रे, शंखादिक-
नी एकांत; तेहने फल होय अति घणो इम वो-

ले रे, जिनवर सिद्धांत ॥ न०६॥ शंख प्रवाला फ-
टिकमणी पत्रा जीवरे, रतांजनी मोती सार;रूप
सोवन रयणा तणी माला चंदनरे,अगर घनसार
॥ न०७॥ सुंदिर फल रुद्राक्षनी जपमालारे, रेस-
मनी अपार; पंच वरणा सम सूत्रनी बली वस्तु
विशेष, तणी रे उदार ॥ न०८॥ गौतम पूढेंते कव्यो
महावीरे रे, ए सयल विचार;लव्विच कहे ज्ञविय-
ण तमे शुणज्यो ज्ञणज्यो रे, नित नित नवकारा ॥

॥ श्रीनेम राजुलनी सजाय ॥

जाओतो जाओतो जाओतोरे मारा सम जा-
ओतोरे रसियाजी ॥ टेर ॥ राजुल गोखथी रही
पोकारे, प्रीतम नरहा आवोजी; तोरणथी रथ
फेरवी कांइ, रीसावी शुं जाओरे; मारा सम जा-
ओतो रे रसियाजी, तमे पाठा फिरी मत जाओ-
रे मारा सम०१॥ दिल रंजन शुं अवगुण दीठा?
मीठा ते फुरमावोजी ? मान तजोने मोटी म-
हेर करीने, मारा मोहनजी घेर आवो रे म्हारास

म जाओतोरे ॥२०१॥ हुकमी हाजर बंधो हेतथी,
 खनी रहुं सहु पहेलीजी; साहित्य सघला सरस
 सजीने, वा'ला वाटनी जोउ अइ गहेलीरे म्हा-
 रा सम जाओतो रे २०३॥ निर्मल जल जरी सो-
 वन ऊारी, दातण दोयो समारीजी; हाथे धरी-
 ने खीजमत खासी, दासी उज्जी तुमारीरे म्हा-
 रा सम जाओतोरे ॥२०४॥ चंपेल जरीने चिणी चा-
 लणा, स्वामी शिर वेणी समारुजी; मर्दन करु-
 मुज हाथ नाथजी, कांइ सघलो श्रम उतारुरे, तु-
 ने जोइने हियनो ठारुरे; मारा सम०५॥ उगटणु
 करी गंधोदक शुं! नाहलिया न्हवराबुंजी; केशर
 शुं तुने अरची पीला; पींतावर पहेराबुंरे ॥ मारा०
 ६॥ सोवन थाल कचोला साथे, चोकी तकीया
 मांडूजी, खिण मांहे खटरस नीपजावी, म्हा-
 हाथे जीवन जमाडूरे ॥ मारा०७॥ वासित पाननी
 वीनी मांहे, लविंग एलाची थापीजी; हुंग हैया
 नी पूरी करु हुं! मोहन मुखमां आपोरे, तुने वो-

अनुमति आदेश ॥म्हारीअ०मो०७॥ काया मा-
या कारमी हो अम्हा, जाता न लागे वार; कर्म
शुजा शुजा जे करे हो अम्हा, ते जुगते किरतार
॥म्हा० ८॥बहो आदेश तव एहवो हो नविया, स
यम साधे आचार; अजिग्रह इण परे आदर्या हो
न० उजित लेवो आहार ॥ शुणो नविया धन
धन साधु एह०ए॥ वीरे वखाण्यो सूत्रमें हो न.
धन्य धनो अणगार; सर्वार्थ सिद्धे नपन्यो होन०
मास करी संघार ॥शु० १०॥ एकनवे शिव पा-
मशे हो न० क्षेत्र विदेह मऊार; अजरामर सुख
सास्वता हो न. लेशे लाज अपार॥शु० ११॥आळ्हण
पुरमें रही रच्यो हो न० धनानो अधिकार; “देव”
कहे इम गावतां हो न० होवे जय जयकार॥शु०॥

॥श्रीसामायिक बत्तीस दोष सऊाय॥

सामायिक मन शुद्धे करो, निंदा विकथा मद
परिहरो; पढो गुणो वांचो खप करो, जिम न-
वसायर लीला तरो१ प्रते देवे दान,

सोनाखंडी लाख प्रमाण; जेहने पुन्य होवे जे-
 टलो, सामायिक कीधे तेटलो ॥१॥ कामकाज घ-
 रनां चिंतवे, विकथा कपट करी खीजवे; आर्त्त
 रौड्हीयामां घरे, ते सामायिक निष्फल करे ॥३॥
 आप परायो सरीखो गणे, साचो थोसो गमतो
 जणे; कंचन पथ्थर सम आदरे, ते सामायिक सू-
 धो करे ॥४॥ चंड्वतंसक राजा जेम, सामायिक
 व्रत पाळ्यो तेम; कहे श्री विद्यासागर शिष्य, सा-
 मायिक करज्यो निशदीश ॥५॥

॥ श्री विणजारानी सजाय ॥

विणजारारे तुंतो नगर ज्ञम्यो दोय चार, ला-
 ख चोराशी गामडा विणजारारे ॥१॥ विण ते दी-
 ठी चारे पोल, पांच चोर नर परखीया ॥वि.१॥
 विण थारे घरमें ठे दोय नार, एक गोरी डुजी सा-
 मलो विण ३॥ वि० थारे गोरीठे गुणवंत, तेहने पू-
 ढीने चालजे विण ४॥ विण थारे सामलडी सुकु-
 माल, जिणरो ज्ञरमायो तुं ज्ञमे विण ५॥ विणथा

दावुं अलापी रे ॥ माराण्ण ॥ चुन चुन कलिया से
 ज बिठावुं ! नवल नेद वर जालूजी ! प्रेमे करी
 प्रीतम पोढाजं ! वा'ला विंजणे वायरो ढालूरे ! नाथ
 निखुं मुख लटकावूरे ॥ मारासम.ए ॥ जागशो
 जीवन मूखडू धोइश ! लुंठिश म्हारे ठेमेजी !
 पान खाइने प्यारा पधारो ! तुं आगल ! हुं केडेरे !
 मारा०१० ॥ पोतानी करो हाथ ग्रहीने ! स्वामी सं
 सार सुधारोजी ! कृपा करी वरी वालम वहेला !
 प्रेम पलंगे पधारोरे ! हुं बलती अनंगे ठारोरे ! मारा.
 ११ ॥ जोग जालवी ! जोग जालवो ! लोक लज्जामां
 रहेवुंजी ! चौद जाणे तेने चार शिखववा ! फरी
 फरी शुं करवुं रे ! एतो गुणवंतने निरवहवुं रे ॥
 माराण्ण११ ॥ प्यारीनां शुणी वचन प्रज्जुये ! कीधी
 व्रत अधिकारीजी ! आप समी नवमें करी नारी !
 कहे अमृत हुं वारीरे ! जेणे राजेमती सति तारीरे ॥

॥ श्रीधन्नाकाकंदीनी सज्जाय ॥

जिन वचने वैरागीयो हो धन्ना, मागे मात आ-

देश, कहे जननी मति मूकजो हो धन्ना, बहुअ-
र यौवन वेश ॥१॥ हुं वारी धन्ना तुं मुज प्यारो वे,
तुं मुज प्यारो प्राणथी हो धन्ना, हुं तुज जाण
न दर्श ॥हुं०१॥ ए तुमशुं अति रागिणी होधन्ना,
कुमरी कामिनी वेश; तुम विरहे अति दोहिली
हो धन्ना, मीन ज्युं निर्जल देश ॥हुं० ३॥ तुं सु
कुमाल सोहामणो हो धन्ना, सुंदिर रुप सुवेश;
संतयम मारग दोहिलो हो धन्ना, छकर किम नि-
वहेश ॥हुं०४॥ आ घर कांचन कामिनी हो धन्ना,
जोगवो जोग विशेष; झूख तृपादिक दोहिलीहो
धन्ना, परिसद केम सहेश ॥हुं०५॥ अरस विरस
अन्न जीमवो हो धन्ना, स्वाद नही लवलेश; वन
वासे वसवो सदा हो धन्ना, धीरज केम धरेश ॥
हुं०६॥ कुमर कहे माता जणी हो अम्हा, आ
संसार असार; जन्म जरा मरणे ज्यो हो अ-
म्हा, कोइ न राखणहार ॥ म्हारी अम्हा मोह
न कीजे वे. मोहन कीजे कोइशुं हो अम्हा, यो

जीमतां प्रमाद उपन्न, व्रतधारी वसी राखे मन्नरे
 ॥ शु०ए॥ वाड नवमोये व्रतधार, सजे नही तनु
 शिणगार, चाह्य पामवा जव पाररे ॥ शु० १०॥
 नववाम कहोठे अंके, तेतो जालवी जाय न रंके,
 चित्त साधु जे तेहथी संकेरे ॥ शु० ११ ॥ नव वामना
 जेद ठे ज्ञारी, विचारज्यो नर अने नारी, कहे
 “ जीवविजे ” हितकारी रे ॥ शु० १२ ॥

॥ श्री शियलनी नव वाडनी सजाय ॥

वीर ज्ञाखेरे गोयम गणधर सांजलो, नववाडे
 रे निर्मल शियल सदा धरो; पशु पंरुगरे नारी
 स्थानिक परिहरो, बिद्धी मूसानो रे दृष्टांत जाणो
 ए खरो ॥ १ ॥ उलालो ॥ खरो दृष्टांत एह जा-
 णो, पहेली वाडे चित्तशुं; न करे मुनिवर नारी
 साथे, आलाप संलाप प्रीतशुं; मन्न विगमे महि-
 ला साथे, नींबू दृष्टांत इहां वली, बीजी वामे ज-
 वियण टालो, ज्ञाखे जिनवर केवली ॥ १ ॥ नवी बेसे
 आसणे जे नरा, तीजी वाडेरे ब्रह्मचारी

कह्या ते खरा; एक मुहूर्तरे आसणथी अलग रहो,
 लोट खटाईरे दृष्टांत साचो सरदहो ॥३॥ उ० स
 रदहो नवियण चोथीवाडे, नारीरुप नवि निखि-
 ये; जित चित्राम हुवे जे आनक, नवि रहे नवि
 हरखीये; दशवैकालिक मांहे जाखे, दृष्टी दोष
 रुपी रुढयो; दर्पण जानू तणो दृष्टांत चोथीवामे
 एह मिढयो ॥४॥ वाड पंचमीरे नारी विलासज
 जे करे, कंथ साथेरे जित पटंतर परिहरे; कर कं-
 कणरे रमक ऊमक वाजे जिहां, ब्रह्मचारीरे वसे
 नही राते तिहां ॥ ५ ॥ उ० जिहां वसे नही रात
 मुनिवर, घनगाजथी जाणो सही: दृष्टांत पंचम
 एह दाख्यो, मोर वेले गडगही; पूर्व क्रोधा
 कीधी मुनिवर, ठी वाडे सांजेरे; सर्प खाधां ऊहेर
 उवटे, दृष्टांत वटाऊपरे ॥६॥ वाम सातमीरे सरस
 आहार न कीजीये, दूध मोश्रीनोरे रोगीने किम
 दीजीये; देतां वाधेरे काम विकार जे मीलमें, र-
 सना लालचरे न करे मुनिवर ढीलमें ॥७॥ उ० ढील

न कोजे धर्मध्याने, आठमो वामे मुनिकदा; अति
 आहारे प्रमाद प्रगटे, शियल विगमे सर्वदा; करे
 ज्ञोजन एकवारे, बत्तीश कवले नर सदा; लघु
 ज्ञाजने बहु धान्यनो दृष्टांत ज्ञारुषो एह मुदा ॥
 ॥७॥ व्रतधारीरे नवमी वाडे ए सही, ज्ञाखे जि-
 नवररे अंग विज्ञूश करे नही; नरनारीरे तरवा
 ज्वजल पारए, रंक रत्ननोरे दृष्टांत नवमो सा
 र ए॥८॥ ७० दृष्टांत जाणो सार नवमो, नव वा-
 डी निर्मल धरो; शेठ सुदर्शन परे प्राणी, निज
 आत्म निर्मल करो; सिंहासन थयो सूली फोटी,
 देव पूष्प वृष्टी करे; राजा आदिक पाय लाग्या,
 घन घन भुखथो उच्चरे ॥९०॥ पञ्चोत्तरेरे लाज ग-
 मावी आपणी, मर्यो कीचकरे रुढयो रावण लं-
 का धणो; सूरिकंतारे वलो नारी नयनावली, रा-
 णी अज्ञयारे इत्यादिक कुल खंपणो ॥ ११ ॥ ७०
 कुल खंपणा शोल जंजणा, जगमे थया नारी नरो;
 नर्काधिकारी प्रेत धारी, प्रीती तेनी परिहरो;

अरिहंत वाणी साची जाणी, शिष्यल संजम संग्रहो;
परज्जये फल मोक्ष मो'टा, किर्त्तिचंड दीवाकरो.
॥केशी गौतम सजाय-सीमंधरसाहेबदेशी॥

ए दोय गणधर प्रणमीये, केशी गोयम गुण
साररे मुण्डिंद; बहु परिवारे परिवर्या, आव्या तं-
डुक वन मनुहाररे मुण्डिंद ॥ ए दोय १ ॥ सिंघाडा
दोय विचरतां, गौचरोये एकठा मिलंतरे मु० पूढे
गौतम शिष्य तिहां तुमे, कुण गच्चना निग्रंथरे मु.
ए० २ ॥ अम गुरु केशी गणधरू, प्रज्जु पास तणा
पटोधाररे मु० लावथ्यो पासे समोसर्या, तंदूक
वन मोळाररे मु० ए० ३ ॥ चार महावत अम तणा,
कारणे पडिकमणा दोयरे मु० वस्त्र रातां पीला वा-
चरां, वलि पंचे वरणना दोयरे मु० ए० ४ ॥ शु० ६ मा
रगठे मुक्तिनो, अमने कट्टे राज पिंररे मु० पास
जिनेश्वरे उपडिड्यो, तमे पालो चारित्र अखंडरे ॥
मु० ए० ५ ॥ गौतम शिष्य कदं शांजलो, अमे पंच
महावत धाररे मु० ॥ पडिकमणा पंच अम सही,

वस्त्र स्वेत वरण मनुहाररे मु० ए० ६॥ राजपिंरु क-
 ल्पे नही, वीरे ज्ञाप्यो परखदा एमरे मु० एकमा
 रग आपण बेहुनो, तो एवडो अंतर केमरे? मु० ए०
 ७॥ संशयवंत मुनि बेहु थया, जइ पूठे निजगुरु
 पासरे मु० गौतम कोष्टक वन थकी, आवे केशी
 पासरे उद्धासरे मु० ए० ७॥ केशी तव साहामा ज-
 ई, गौतमने थे बहु मानरे मु० फासु पराल तिहां
 पाथरी, बेहु बेठा बुद्धि निधानरे मु० ए० ८॥ चरचा
 करे जिन धर्मनी, तिहां मिलिया सुरनर वृंदरे मु०
 बेहु गणधर सोहे अति जला, जाणे एक सूरज!
 बीजो चंदरे! मु० ए० ९॥ संशय ज्ञांजवा सह त-
 णो, पूठे केशी गुण खाणरे मु० गौतम जविजन
 हित्त जणी, बोले अमृत वाणरे मु० ए० ११॥ एक
 मुक्ती जाणो बेहु जणे! तो आचारे शो जेदरे?
 मु० जीव विशेषे जाणज्यो, गोधम कहे म करो
 खेदरे! मु० ए० १२॥ वक्र जड जीवठे चरमना, प्र-
 थमना ऋजु वक्र जाणरे मु० ऋजु सरल बावी-

शना, तेथो जूदो आचार विचारेंर मु०ए०१३॥ ए
 म केशीए प्रश्न पूठीया? गौतमे टाळ्या संदेहेरे!
 मु० धन्य! धन्य! केशी कहे गोयमा! तुमे साचा
 गुणमणी गेहेरे मु० ए०१४॥ मारग चरम जिणें
 दनो, आदरे केशी तिण वाररे! मु०केशी गोयम
 गुण जे जपे,ते पामे जवजल पाररे॥मु०ए. १५॥
 उत्तराध्ययने तेविशमें,इम जाखे श्रीजिनरायरे मु.
 विनयविजयजवजायनो,शिष्यरुपविजयगुणगायरे.

॥ श्रीपस्की खामणानी सजाय ॥

प्रथम नमुं अरिहंतनेजी, तेहना गुणठे दार;क
 रो जवि खामणा ॥ सिद्ध सदा सीस नामीवेजी,
 अष्ट महा गुणधार क०१॥ आचार्यजीने खामणा-
 जी, तेहना गुण वत्तीश क० उपाध्यायजीने खा
 मणाजी, ते पिण गुण पचवीश क०१॥साधु स-
 कलने खामणाजी, तेहना गुण सगवीश क० अ-
 षोत्तर सो ए कहाजी, गुण समरो निशदीस क०
 ३॥ शिष्य सर्वे ने खामणाजी, विनयवंत समवं-

२३२ खंभातनो खुनी बार आना विद्या गोळी बार आना.

त क० साहमी समणोने खामणाजी, गुरुणीजी
गुणवंत क० ४॥ कुल गुरुने पिए खामणाजी, की
घो होवे कसाय क० ॥ पाय लागी श्री संघनेजी,
त्रिविध त्रिविध चित्त लाय क० ५॥ चोराशी लख
योनीमेंजी, वसियो हुतो एह जीव क० वयरविरो
ध समाचर्योजी, ते खामु हुं सदीव क० ६॥ जिम
जिम कीजे खामणाजी, तिम तिम ज्वनो नाश
क० विण कीजे जे खामणाजी, नर्क निगोद नि-
वाश क० ७॥ हुं खामुं खमज्यो तुमेजी, क्रोध कर्यो
जिण साथ क० सरलपणाथी बूटीयेजी, ज्ञारख्युं
श्री जगनाथ क० ८॥ जब लगे मोह मिटे नहीजी,
तब लगे करणी वाद क० मोह घटे महिमा वधे-
जी, शुणिये आदि अनाद ॥ क० ९॥ ज्विक जीव
तुमे शांजलोजी, रीस म धरजो कोय क० क्रोध
तजी त्रण लोकनोजी, नायक निश्चे होय क० १०
सहु साथे संप राखीयेजी, धरीये धर्म संनेह क०
जग मांहे जश पामीयेजी, जाणपणुंठे एह क०

११॥ कृमाये मोक्ष ज्ञारख्यो जलोजी, क्रोधवसे
संसार क० दोय बोल यह सास्वताजी, करुं कि
तोक विस्तार ॥क० १२॥ चंड रुड आचार्यनेजी,
"खमावतां अपराध क० क्रूरगमू साधू अयाजी,
पर्म महा गुण लाध ॥ क० १३॥ अजय उदाइ
राजीयोजी, कीधो ए उत्तम काज क०चंरुप्रद्यो
तन रायनेजी, दीधूं एहनूं राज ॥क० १४॥ चंद
नवाला नित्रंसियाजी, मृगावती निशि पेख क०
पुद्ध प्रणामे पामीयोजी, केवल ज्ञान विशेष
॥क०१५॥ राइ खमावुं देवसीजी, चोमासी त्रण
वार क० पख्वी खमावुं संवच्चरीजी, करजोमी
वारंवार ॥क०१६॥ जैन धर्मनी मंरुलीजी, कहे इ
म श्रीमुनिराय क० सुमता ज्ञाव विचारोयेजी,
"गुणसागर" सुख आय क० १७॥

॥ श्री रहेनेमीजीनी सऊाय ॥

कानसग व्रत रहेनेमी रह्यो, जब राजुल रूप
निहारी; मन डगीयो मुनिवरनो जाणी, बुज्जे

ज्ञान संजारीरे; महा व्रत ज्ञाजसेरे ॥१॥ मुनि
 धारो मन डिगतो दृढ राखरे यदुकुल लाजसेरे;
 यति धर्मतो दशह प्रकारे, साधुजी दूषण लाग-
 शेरे; महा०मु० १॥ दूषणशी डुरगति अवतरशो,
 सद गतिना फल हारी; परमाधामीने वसी पड-
 शो, आल म करशो अमारीरे म०३॥ सातेही न-
 र्क तणा डुख दोहिला, काल घणरे खूटे; देवरी-
 या दिल जाणी तुं लेजे, विण जोगव्या नही बू-
 ठेरे ॥म०४॥ ठेदना जेदना ताडना तर्जना, इत्या
 दिक किम सहिये; प्रवचन सार शिखामण लेइ-
 ने, मुनि समजावे रहियेरे म०५॥ लोहनी पूतली
 अग्नी घुखंती, चांपसे हृदय मजारी; इण संघाते
 सुख जोगवतुं, व्हाली हती परनारीरे म०६॥ ज्यां
 नही सुख एक स्वासो स्वास, ते करणी कीम की-
 जे; समुद्रविजेजोना सुत सांजलज्यो, लीयो व्रत
 जंग न कीजेरे ॥म०७॥ एहवी रुडो मुजने ने-
 मजी, जर योवनमें ठंभी; तें तो मुज संघाते ए-

वन्तो, मूरख प्रीत शुं मंडीरे मण्ठ ॥ तें निज कुल
नी लजा लोपी, संयम सरम न आणी; नारी
दुरगतिनी सहेनाणी, तें शुं मनडामें जाणीरे ॥
॥ म० ए॥ इत्यादिक प्रतिबोध दइने, साधवोये धिर
कीयो, त्रिविधे त्रिविधे पाप खमावी, मिच्छामि
डुक्कड दीधोरे ॥ मण १० ॥ राजुल रहनेमी जिन
पासे, चोखो चारित्र लोनो; मनवचन कायाये क-
रोने, अविचल पः तिणे लोनोरे ॥ म. ११ ॥ शील-
क्षणा गुण एहवा जाणी, जे नव वामे धरशे; दीप
सेवक इम पज्जणे जिविया, ते सास्वता सुख लहशे.

॥ श्रीराजुल रहनेमीनी सऊाय. ॥

विहरमान जगवान शुणो मुज वीनती ॥ ए देशी ॥
शुण शुण चतुर सुजाण सनेहा साधुजी; परिहर
विषय विकार दीक्षा ते पन्निवजी, समज समज
मन माहे म पडे इण काजमें, पुराणे प्रीत न
होय रहे रहे लाजमें ॥ १ ॥ डुलहां दश दृष्टांत मा
नव जव हारेमां, कवडी साटे म्होर धरम वी-

सारेमां; पंच महाव्रत पाली टाले सत कालमां,
 कडवा कठिण कठोर विषयफल विष समां ॥१॥
 वांछे वन्यो जे आहार सूकर कूकर जिस्थो, चा
 ले न कुलवट चाल तिको माणस किस्थो; आ-
 पनी जांघ उघाडी लाजे नही आपथी, इह लो-
 कने परलोक पामे दुख पापथी ॥३॥ राचे जे प-
 रनार आवर तसु बारमो, लोक हांसो घरे हाण
 ने अति फल कारमो; देखी देह सुरंग मोह्यो तुं
 रूपमें, हाथमें दीवो जाली पने किम कूपमें ॥४॥
 रहे रहे तूं दूर मने मति आजने, कदेही न लागे ठांट
 घने सही चोपने; सतियां मांहे शिरदार सती
 राजेसती, धिर करी मन वच काय प्रतिबोध्यो
 देवर यती ॥५॥ चतुर न चूके अंते वाढ्यो जिम
 तिम वले, जिम जल काचो कुंज के तिम मत
 पिंगले, वसी कीधी इंजी पांच विकार न दीलमें,
 लाग्यो दोष कलंक रह्यो सत्य शीलमें ॥६॥ गो-
 डी माया जाल न्युंग जिम कांचली, पाले निर

ती चार सयंम ज्ञर रंगरली; पाले शुद्ध परणाम
जाणे शुद्ध आरसी, हुं बलिहारी तास तरे ने ता-
रसी ॥७॥ तप जप खप करी आठ करम खपा-
वीया, राजुल ने रहनेमि मुक्ति सिधाविया; तन
मन वचन विलास ज्ञावना इम ज्ञावसी, श्री
“पुन्य कलश” सुपसाय जंपे इम जयतसी ॥७॥

॥ धेनु तुलसी आदिकनी सजाय ॥

धेनु तुलसी नदी नाराण, शिवने मंदिर आ-
जाण; एकादशी पिण आइ साथ, आपापणा
डखनी कहे वात ॥१॥ धेनु— ॥ हुं तिर्यंच अज्ञा-
नी पशु, मुजने परणावे ते किशुं! पुत्र पिता न
वि जाणुं भ्रात! अचिरती रहुं दिनने रात ॥२॥
पुत्र पिता मुज केमज वरे? केम सुख मुज ज्ञ-
र्त्ता करे? ॥३॥ तुलसी- ॥ ज्ञार अडारमें हुं वनस्पती,
मुज आगल डख बे तुज रतो! ताहरे ज्ञोग सं-
ज्ञोग ते ज्ञले, ज्ञोग विना मुज स्वामी मळे ॥४॥
खंड करी मेळे सारनी, मोरो पोव करे दारडी;

२३८ वीरवल वादशाहना वारे जागना वार आना.

कंठ धरी अणगल जल न्हाय, अशुद्ध थइ मुजने
लेइ जाय॥५॥ आज्ञडठेठे आवे नार, मुजने ठो
डी न मुके वार; इम मुजने हेरान ते करे, म्हा
रुं डुखते कुण दिल धरे॥६॥ नदी-॥ नदी कहे मुज
माने मात, अशुद्ध थइ आवे परजात; पांचे इंद्रो
बहोले नाम, अज्ञानीना जोइजो काम ॥७॥ सा-
इमुं पगळुं रोगी जरे, ऊवको देतां जीवते मरे;
अणसमजू जग दीसे एह, म्हारा डुखनो नाव्यो
ठेह ॥८॥ एकादशी-एकादशी व्रत सहको करे,
वनस्पतीथी पेटज जरे; आने दिन खावे अधशेर,
व्रत करीने खावे शेर ! ए॥ कंदमूल सोधीने खा
य, जोज्यो वेद पूराणे न्याय ! पुत्र मांस खावे ते
जलो, कंदमूल जहण नवि जलो॥१०॥ कृष्ण- ॥
मुजने लंपट कहेठे चोर, इणे गोवाले चार्यां ढोर !
गोविंद गोपीनी करे जोर, जला नचाव्या श्री
रणठोर॥११॥ मुज माटे रसोई करे, थाल लेइ मु
ज आगे धरे; देखावे अंगूठो वजावे घंट ! लेइ जा

वे ते खावे नलंठ! ११॥ ईश्वर---शिव शुणी ह-
 सीने मुलक्या, एह लोकोने अमे ओलख्या, लिं
 ग पूजावुं चोलानुं राख, दाढी जटा वधावुं का-
 ख ॥ १३ ॥ स्त्री पण मुज मंदिरे आवे, खरो मु-
 जने जोलो कहावे; एह लोकोने ओलख्या मेंह,
 वांके लाकणे वांको वेह ॥ १४ ॥ वेदपूराणनी एहिज
 साख, सिंहर व्यासनी एदठे जाख, इम जाणी
 शुठ धर्मज करो, एहथो निश्वे शिवपद वरो ॥ १५ ॥

॥ श्री धन्नाजीनी सजाय ॥

धन्ना मुनी धन मानव जव पायो, श्रीमुख इ
 म फरमायोहो ध० टेरा ॥ श्रेणिक पूठे वीरजिन
 जापे, उत्तम मुनीश्वर सारा; रज मांहे तज तर
 तम योगे, धन धन्नो अणगारा हो ॥ धन्नामुनी ०१ ॥
 नारी वत्रीश तजी अपठरशी, धन वत्रीशय कोड;
 यह संसार असार जाणोने, शिवपुरी सादामा
 दोड हो ॥ धन्ना ०२ ॥ निरंतर तप वेले वेले, आंविद
 उचित आहार; जेह मुख काग स्वान नवि चा-

हे, किम तमे कंठे नुतारो हो ॥धन्ना०३॥ वार इक
 वीश धोइ जल मांहे, तेह पिंड खाइ जल पीवो;
 एहवो तप शुणतां जीव कंठे, धन धन धारो जी
 वो हो ॥धन्ना०४॥ चवदे सहस मुनीश्वर माहे, आ-
 पने वोरजी वखाण्या, दरिशाण नित्यप्रते पुण्यवंत
 पावे, अमे पण आज पिठाण्या हो ॥धन्ना०५॥ नव
 मास लगे संयम पाली, सर्वार्थ सिद्धिमें जाय, राम
 कहे ऐसे मुनीश्वर, निश्चे मुक्ति पद पाय हो. ६॥

॥ श्री नंदीषेण मुनीनी सऊाय ॥

श्रेणिक सुन सुविचारी, नंदीषेण सुखकारी, अ-
 पठरने अनुसारीरे, नरनारी खेले रंगशुरे लो ॥१॥
 एहवे जिनेश्वर आव्या, इंद्रादिकने मन जाव्या,
 वंदना तिहां आव्यारे, सुर असुरादि बहु उलंगशु
 रे लो ॥२॥ प्रज्जुजीये देशना जाखी, संसार अ-
 थिरता दाखी; जेणे शुद्धे राखीरे, मन साखी नं
 दीषेण चिंतवेरे लो ॥३॥ में पांचसो नारी ठोमी, व-
 ली माया ममता मोमी; दोय कर जोमीरे, उठ-

रंगे जिनजोने विनवेरे लो ॥ ४ ॥ मानो प्रभु वीन-
 ती म्हारी, जाअं चरणानी बलिहारी, संयमधारी
 रे, सुखकारी अमने कीजीयेरेलो ॥ ५ ॥ तव बो-
 ढ्या प्रभुजी विचारी, जोग कर्म अठे तुज ज्ञारी,
 व्रत निवारीरे, संसारनो लाहो लोजीयेरेलो. ६ ॥
 पण माने नही वैरागी, संयम लेवा रढ लागी;
 पुन्य दगा हवे जागीरे. सोजागी संयम आदरेरे
 लो, ॥ ७ ॥ सही कृपा वेदनी तंत, मुनी जाणे मह-
 मंत; रखे व्रत जागेरे ! दोष लागे मुनी मनमें रुरेरे
 लो. ॥ ८ ॥ तप डुकर अति करतां. ज्ञान हियामां ध-
 रतां; महियले विचरंतारे, अनुक्रमे चाढ्या गोच-
 रीरे लो ॥ ९ ॥ गज गति चाल जे चाले, मुनिवर
 गलिये म्हाले; मंदिर निहालिरे, सोभागी पेठा घ
 समसी रे लो ॥ १० ॥ जाणी आहारनो लाज, त्यां
 जइ दीघो धर्म लाभ ! यहां तो अर्थ लाज रे !
 इम कहीने वेस्या हसी मली रे लो ॥ ११ ॥ वेश्या-
 नी निशुणी वाणो, मुनि तव अजिमान आणी;

तिहां तरणो ताणीरे, धन वरषा सुनीवर करे रे लो
 ॥ १२ ॥ वूठी सोवन धारा, लब्धितणे उपचारा;
 साठीबारे वूठ्या रे, धनकोरु सोवन वेस्या घरे रे
 लो॥१३॥ वेस्या मनमें चिंत्यो, ए साधु नाही ज्ञेप-
 वंतो, एतो कठु गुणवंतो रे, करु कंतो सुंदर शोभ-
 तो रे लो॥१४॥ वेस्या कहे गुणधामी? फोगट दाम
 लहु नही स्वामी; वीनवे शिरनामीरे, रंगीली रूमा
 वयण्णारे लो ॥ १५ ॥ अम घेर रहो मम रसिया,
 मारा दिलडा मांहे वसिया; रोम उद्धसिया रे, रांका
 घेर रत्न आवी मळ्योरे लो ॥१६॥ तव सुनिवर म-
 नमें चिंते, मुज जोग कर्म बलवंते, वसी करु अं-
 तेरे, नहितर ते सही मुजने नडेरे लो ॥ १७॥ इम
 सुनी चित्त विचारी, ततूक्षिण त्यां ज्ञेप उतारी,
 बारे व्रत धारी रे, रह्यो नंदिषेण वेस्या घरेरे लो॥
 ॥१८॥ वेस्या सजी सोल शणगार, वाजे जांऊरना
 ऊमकार; नेपुरनो ठमकाररे, घमकावे रमऊम घु-
 घरारे लो॥१९॥ केस मोती ललकंती, जाणे उजल

वेगपंती, बहु रूपवंतो रे, सोहंती स्याम मनोहरुरे
लो॥ १० ॥ अब योवन लाहो लीजे, मन मोहन
ढील न कोजे; प्रीतो पालीजे रे, अलवेला काजळ
नेणज्युरे लो॥११॥ दौ गंधक सूर जेम, सुख वि-
लसो निशदिन एम; धारुं एक नेमरे ? दश नरने
नित्य प्रतिबोधवारे लो॥१२॥ त्यां कामो नर बहु
आवे, तेने ज्ञान देइ समजावे; सीधा पहोचावे रे,
जिन पासे चारित्र लेयवारे लो ॥२३॥ इम करतां
करणी सारी, वर्ष थया जब वारी;सुरत सवाईरे,
नर दशमो आव्यो एहवोरे लो॥२४॥ हरामी धू-
र्त्तनी जात, एहवी सोनीनी न्यात, करे मीठी वा
तरे, समजावे नंदिपेण तेहनेरे लो ॥२५॥ विरुवा
विषय विकार, जे डुर्गतिना दातार; पामे जवपा-
ररे, नर विषय थकी रहे वेगळारे लो॥२६॥ उप-
देश न माने तेह, अति जारो कर्मा जेह, जाखे
इवे तेह रे ? सलूणा हसी सांजले रे लो॥ २७ ॥
सासु कुमारग चाले, ने बहुने शीखामण आले;

२४४ प्रेमकथा वार आना-लावण्यमणी वे आना.

पोते नवि पाखेरे, अवराने प्रति वुऊवे रे लो॥१८॥
वातज करतां सारी, एहवे आवी नारी; जोजन
सुखकारी रे, पठे ते अमे जीमशुं रे ॥१९॥ ज्यां
लगे दशमो न बूऊ, त्यां लगे जिमवो न सूऊ;
एह तो अबूऊरे, प्राणोसर किमही न बूऊशे रे लो
॥३०॥ में नाखी रसोइ बीजी! थइ ठंडी करुं हवे
तीजी! जूखे करो खीजी रे! प्राणोसर दशमां ठो
तमे रे लो॥ वेस्थानी शुणी मुनी वाण, प्रीती अ-
धिरता जाणी; उठ्यागुण खाणी रे, जेखलेइमारग
संचर्या रे लो॥ त्यांथी गया प्रजुजीनी पासे, जव
जवना पातिक नासे; मनने उद्धासे रे, जिनपासे
फरी व्रत आदर्या रे लो॥ प्रीत्ये पाले पंचाचार, समि
ती गुप्ती सुविचार; संजम शिरदाररे, साधुजीतप ड
कर करेरे लो॥ कर्मानो करी निस्तार, लही केवल ज्ञा
नज सार; पाम्या जवपाररे, संवेगे शिवरमणी वर्या
रे लो॥ एह नंदीषेण मुनीराया, गुण गातां अति सुख
पाया; ज्ञाणपसायारे, ए पहोत्या सुगति मनोहरुरे लो॥

॥अथ गुहली समुच्चय-गुहली १ ली॥

सखी आज जलो दिन जगीयो, सखी चालो हे
 गुरु वंदन काज; सखी आव्या ठे नगरी आपणी,
 सखी सारे हे वलो वांचित काज ॥ सखी आज
 जलो ० १॥ स. चारित्र पाले निर्मलो, स. चरण
 करण-चितधार, स वाणी शुणावे वैरागनी, स.
 नतारे जवपार ॥ स. २ ॥ दशविध यति धर्म धा-
 रता, स० वारता विषय कपाय, स. जावना वारे
 जावता, स. समता चित्तमां लाय ॥ स० ३ ॥ स.
 मिथ्या मतने टालता, स. पालता पंच आचार,
 स. विद्या चउदश शोजता, स. मृगपति सम सु-
 खकार ॥ स. ४ ॥ स. सहस अठारे सीलांगना,
 स. रथ वेठा सुखकार, स. सूरज सम दीपे सदा,
 स. पंचमकाल मजार ॥ स. ५॥ स. ओपमा दश
 चीठा अति जली, स. शोजे जेम मुनि इंद, स.
 गावो वधावो गुरु जणी, स. किर्त्तिचंड सुखकंद स ६
 ॥ १ गुहली ॥ सहियां चालो ज्ञानी गुरु वंद-

वारे, जव संचित कर्म निकंदवारे; जव समुद्र मांढे
 जे तारवारे, वली विषय विकार निवारवारे ॥ स-
 हियां चा० १ ॥ एकविध असंजम टालतारे, दोय
 जेदे वली प्रकासतारे; तीन रत्न सही दिल धा-
 रतारे, चार प्रकारे क्रोध निवारतारे ॥ स० २ ॥
 पंच महाव्रत जली विध पालतारे, एतो पट् काया
 प्रति पालतारे; सात जयने दूरे टालतारे, आठ प्र-
 वचन माता संजालतारे ॥ स० ३ ॥ नवविधि ब्रह्म
 व्रत पालतारे, दश रुची इग्यारे अंग धारतारे; वारे
 जेदे तप मनुहारतारे, तेरे काठोया दूर निवारता-
 रे ॥ स० ४ ॥ चौदे गुण ठाणा जेदे ज्ञासतारे, जेदे
 सिद्धना पनरे प्रकासतारे; सोले प्रकारे ओपमा
 ओपतारे, सतरे जेदे चारित्र फुनी शोजतारे ॥ स०
 ५ ॥ इत्यादिक गुणे करी राजतारे, सही जवी मन
 संशय ज्ञाजतारे; वली जिनशासन शोजावतारे,
 उपदेश देइ जवी रंजतारे ॥ स० ६ ॥ सब सही
 साहेली वधावियारे, मुनिराज तणा गुण गावि-

यारे, वली किर्त्तिचंइ मुनि ज्ञावीयारे, एतो केसर
विजे मन ध्यावियारे ॥ स० ७ ॥

॥३ गुहली ॥सुविहित गुरु दिये देशना, आग-
मने अनुसार ललना; श्रद्धावंत शुणे ज्ञविजना,
आदर करी अपार ललना ॥ सूत्र शुणावे मोट-
का १॥ आचारंग सुगमांगजी, ठाणंग समवायंग
ल० जगवति ज्ञाता दीपता, उपासग सातमो अंग
ल० सू० ७॥ अंतगम अनुत्तरोवाई, प्रश्न व्याकर्ण
शुं प्यार लणविपाक दृष्टिवाद अगए, शुणिये अ-
ति सुखकार ल सू. ३॥ उववाइ रायपसेलीने, जी-
वान्निगम वखाण ल० पन्नवणा जंबुपन्नत्ती, चंद-
सूर पन्नत्ती जाण ल० सू. ४॥ कप्पिया कप्पवंडिं
सिया, पुप्फिया दशमो उपांग ल पुप्फ चूलोया
वन्दि दशा, दोय दश एह मनरंग ल० सू० ५ ॥
पयन्ना वेद परुपीया, मूल सूत्र मनुहार ल० नंदी
अनुयोग दाखीया, पंचांगी परम आधार ल० सू० ६
गणधर सूरीपरुपीया, वधावे सोहागण प्रेम ल०

२४८१ छेलनी वारता एकरुपैयो-सुरासतीनीवार्ता४ आना

साधीयो करो चित्त नजले, केसर लहे शिव हेम७.

॥ ४गुहली-श्री गुरुचरण सुहंकरु ललना, ला-
लाहो प्रणम्या वाञ्छित सिद्ध; विनय सहित गुरु
गुण ज्ञणु ललना, लालाहो उपमा सोले प्रसिद्ध

॥ एह गुरु वंदीये ललना०१॥ ठ व्रत मुनिवर पा-
लताल०ला०पृथ्व्यादिक षट्काय; पंच इंशी जीपे
सदा लण्णाण लोचन निग्रह चित्त लाय ॥ ए० २ ॥

खंती वली शुभ्र ज्ञावना ल० ला० पमिलेहण
विधियुक्त; संजस जोगे जुगता रहेल०ला०कुशल
त्रिजोग संजुक्त ॥ए० ३॥ शीतादिक परिसह सहे

लण्णाण मरणांत कष्ट सहेय; सत्तावीश गुरु गुण
ज्ञाया ल०ला० वली बहु गुणना ज्ञेय ॥ए० ४ ॥
सत्तावीश गुणे शोभता लण्णाण अंग उपांगना

जाण; चरण करण सूधा धरे लण्णाण जिनवर व-
चन प्रमाण ॥ ए. ५ ॥ सुविहित वचनानुसारथी
ल०ला० करुणा करे शुभ्र ज्ञाव; अनुभव ज्ञाने नित

रमे ल०ला० तरवा जवजल नाव ॥ ए० ६॥ गुहली

करो, गुरु आगले ल० ला० ऊपर श्रीफल सार, शुभ
कारज सफला हुवे ल० ला० केशरविजे सुखकार॥

॥५ गुहली-सुविहित मुनि महाराजजी मोरी
साहेलीरे; आव्या ठे मुनिनाथ वंदो ज्ञावशुं मो०
गुण ठत्तीसे शोभता मो० साथे बहुलो साथ वं.
मो० १॥ पंच इंझीने संवरे मो० नवविध शील व्रत
धार वं. मो० चार कपायने जीपता. मो० तरवा
जवजलपार वं. मो. १॥ पंच महाव्रत पालता मो.
समित गुप्तीना धार वं. मो. पंचाचारे निरमला
मो. चाले तेह निरधार वं. मो. ३॥ इम ठत्तिश गुण
ठाजता मो. पंचमे काले आज वं. मो. अक्षत श्री-
फल साथीयो मो. वधावो गुरुराज वं. मो. ४॥ जवो
दधि पार उतारवा मो. सेवो अइ नजमाल वं. मो.
केशरविजे कहे आपीये मो. अविचल ठाम रसाल॥

॥ ६ गुहली (जै पुजो लाल) सखी वीर जिणंद
पावापुरि उद्याने आवी समोसर्या॥ टेर ॥ नव क-
नरु कमल पगला धरता, वीर चौतीश अतिशय

अनुसरता; सहु जीव नपर करुणा करता ॥ सखी
 वी० १ ॥ मणि कनक रजत त्रिहुं प्राकारी, करे
 सम वसरण शोभा सारी; मिट्या सुर नर तिहां
 सेवाकारी ॥ स० २ ॥ देव वाजिंत्र गगने गाजेठे,
 शुणी कुमति कदाग्रही लाजे ठे; ठकुराइ प्रनु-
 जीनी गाजेठे ॥ स० ३ ॥ इंड्रूति पमूहा आवेछे,
 सर्वज्ञनुं विरुद धरावे छे, जिन वारशुं वाद मचावे
 ठे ॥ स. ४ ॥ शुणी वेद अर्थ मद गलीया ठे, जीवा-
 दिक संशय टलीया छे, जिन चरणमें मन मलीया
 ठे स० ५ ॥ दिक्षा प्रनु हाथे लीधी ठे, तिहां गण-
 धर पदवी दीधी ठे, अंग बारेनी रचना कीधी ठे ॥
 स० ६ ॥ हरी चूरण वास करी रंगे, जरी आल
 रह्यो जिनने संगे; प्रनु गणधर झिर ठवे नठरंगे
 ॥ स० ७ ॥ सुर नरनारी मंगल जाणी, करे गुहली
 ज्ञाव जक्ति आणी, जिनराज वधावे गुण खाणी
 ॥ स० ८ ॥ श्री गुरु पद पद्म नमे ज्ञावे, सब गौरी
 मिली जिन गुणगावे; नित रूपविजे संपति पावेण ॥

॥७ गुहली-धर्म शुणो सद्गुरु कन्हे, सहिया
 मोरी पदेरी सवि शिणगार हो; मन मंजन करी
 मोजमें, स० शील अमोलख हार हो ॥ कुलरी दी-
 गण मोरी अघरी लोपण मोरी कुंमति जिपण
 मोरी साहेली सहिया मोरी सोले सर्जी शिणगार
 हो० १ ॥ विनय वस्त्र अंगे धरी, स० लज्या काजल
 आंज हो; धर्म शुक्ल कुंमल करी, स० मोती मोद
 विराज हो ॥ कु. अ. कुं. सा. स. सो. २ ॥
 तिलक करो तपस्या तणो, स० कांचली दयारी
 जावहो. प्रश्न उत्तर पगे पायली, स. दान कांकण
 बोलाव हो ॥ कु. अ. कुं. सा. स. सो. ३ ॥ तंबोल
 सत्य वचनो, स. विवेक फूल रसालहो; हार
 सुगंधी समकिते, स. कृमा मुक्तावली माल हो ॥
 कु. अ. कु. सा. स. सो. ४ ॥ किरिया शुद्ध ते धं
 टिका, स० सुमती चंदन चित्तहो; राजेंद्र रति मि
 ले इण परे, स. रायचंद सुख नित्तहो ॥ कु० ॥

॥८ गुहली-श्रीशंखेश्वर पाय नमीजी,

सरस्वती करी सुपसाय; नव कल्पी मुनी राय
 नेजी, करुं विनती चित्तलाय ॥ मोरा गुरुजी म
 करो आप विहार, जगजीवन आधार मो. जिम
 पृथ्वी सहे ज्ञार मो. तुम गुणनो नही पार मो
 मकरो. १॥ पंच महा व्रत पालताजी, पाले पंच
 चार; परमत पंथ दूरे करेजी, त्रण गुप्ति चित
 धार. मो. म.२ ॥ इम आचार मुनि पालताजी
 आव्या इणहीज सहेर; हरख थयो सहु संघने
 जी, कीजे मुजपर महेर मो. म.३॥ मास अषाढ
 ठे आकरोजी. वरसे जब जलधार; तिम जिन
 वाणी गुरु कहेजी, करता नवी उपकार मो. म.४
 श्रावणे सरवर देखतांजी, नवपल्लव वन फूल
 इम जिनवाणी सांजलीजी; करे समकीत अनुकु
 ल मो० म० ५॥ ज्ञादरवो ज्ञले आवीयोजी, फली अ
 मारी आस; अंग उमाहो अति घणोजी, करस्यां
 तप उल्लास मो० म० ६॥ आसुमासे आशा घणीजी
 गुरु रहेसी इण ठाम, तप जप करसां आकराजी.

वधो आतम माम मो. म० ७॥ कार्तिकमें कोइ
 जन मुखेजी, शुणीयो गुरुनो विहार; सुज मनमें
 दुख ऊपजेजी, तमे करुणा जंमार. मो० ८॥ एट
 ला दिन अमने हतीजी, गुरु रहेवानीरे आस, राज
 आज पधारशोजी, अन्य नगर आवास मो॥ गुरु
 पासे नित आवीनेजी, करती धर्मनो ध्यान, गुरु
 विरहो अति दोहिलोजी, वली देज्यो गुरु ज्ञान-
 मो० ९॥ कार्तिक शुद्ध चौदश दिनेजी, विकल्प
 अयारे अपार; पुनमे करुणा वाणीथीजी, नयणे
 वहे जलवार मो० १० ॥ केडज बांधी आकरीजी,
 उधो मुहपत्ति हाथ, खंजे लीघा पातराजी, लेइ
 चेलाने साथ मो० ११॥ पूंठे गुरु जोयो नहीजी,
 चाड्या देश विदेश; रोतीने जोती हुं. वलीजी,
 सहेती घणा किलेश मो० १२ ॥ मुनिवर कहे शुं
 णो श्राविकाजी, मुनि स्वप्ना रूप जाय; सुखे शु-
 ण्यो एटलो घणाजी, दान दया सुख थाय मो. १३
 ॥ ए गुहली-गुरु सूत्र सिद्धंतनो दरीयो, गुरु

समता रसनो जरीयो ॥ मेरो गुरु जहाजनी परे
तारे, सवाइ गुरु देशना देइ तारे, मन डोरीथी
पार उतारे, मेरोगु० १ ॥ गुरु ज्ञान रत्ने करी दीपे,
गुरु आठेइ कर्मने जीपे, मे० स० २ ॥ विचरंता
सोहम स्वामी, आव्या राजगृही शुभ्र ठामी ॥ मे०
स० ३ ॥ गज्जारव वाणी गाजे, गंजोरता गुरुने
ठाजे ॥ मे० स० ४ ॥ गुरु दशविध धर्मथी ओपे,
जिन मर्यादा नवी लोपे ॥ मे० स० ५ ॥ अशुचि मि
थ्यात्वने टाले, शुचि निज घरने अजुआले ॥ मे०
स० ६ ॥ गुरु प्रवचन जहाजने धारे, जव साह्यर
पार उतारे ॥ मे० स० ७ ॥ जवी जीव गुरु ते सेवे,
तेने सुख अनंता देवे ॥ मे० स० ८ ॥ समकित
कनक कचोले, शुभ्र ज्ञावना कुंकुम घोले ॥ मे० स०
९ ॥ ससीवदनी सोल शिणगार, सजी गुहली
करे जे नार ॥ मे० स० १० ॥ पंच अणुव्रत
रत्नने धारी, उद्धासे चले लेइ जारी ॥ मे०
स० ११ ॥ चित्त चोखे गुरुने वधावे, ते अखय

अमर पद पावे ॥मे. स.१९ ॥ धन धन ते नरने
 नारी,जिनवाणी शुणे सुखकारी॥मे०स०१३॥ बुध
 न्यायमागरनो शिष्य, धीरजथी होय जगीश १४॥

॥१० गुहली-चंपानगरी उद्यान, सुरतरु मोरी
 रह्योरी; वीर पटोघर धीर, सोहम आय रह्योरी,
 १ ॥ जीय क्रोध जीय मान; माया लोभ दहेरी;
 संपुरण श्रुत ज्ञान, जिनवर विरुद्ध वहेरी ॥ २ ॥
 आश्रव विषय प्रमाद, निज्ञ पांच तजेरी; दशवि
 ध सामाचारी, पट्टविध जयणा जजेरी ॥३॥ उप
 कारी घरे वार, जावना तप पम्पिमाऱी; निःका
 रण जगवंधु, रवी शशी मेह समारी॥४॥ कंचन
 कमल विचाल, वेशी धर्म कहेरी; तिणथी जवि
 यण लोक आतम तत्व लहेरी ॥५॥ कोणिक जू-
 पति नार, गजगति गुहली करेरी; माणिक मो-
 ती वधावे, पुन्य जंमार जरेरी ॥६॥ जिन शा-
 सननी जक्ति, करतां पाप हणेरी; सुहागण स-
 रिखे साद, गुहली गीत जणेरी ॥ ७ ॥

॥११ गुहली—सजनीए रुमा चेलणा लावे गुहली,
 गुरुए रुमा श्रेणिक नृप घर नार; सजनीए रुडा
 सोहम स्वामी समोसर्या, गुरुए रुडा प्रज्जु पंचम
 गणधार ॥१॥ स० सूरि ठत्तीसे गुणे, गुण शोन्नित
 पुन्य पवित्त; स० आगम वयण सुधारसे, गु०
 वरसी ठारे चित्त ॥१॥ स० पडिरुवादिक् चौढे, गुण
 खंत्यादिक दश धर्म; स० बारह ज्ञावना ज्ञावता,
 गुण एह ठत्तीसी धर्म ॥३॥ स० दंसण नाण चरण
 ना, गुण तप आचारे युत्त; स० सत्य समाधी अलं
 कर्या, गुण ॥ सोल कसाये मुत्त ॥४॥ स० नववि-
 ध तत्वनी देशना, गु० नव कल्प उग्र विहार; स.
 नव नियाणा परिहरे, गु. नववाडी ब्रह्मचार ॥५॥
 स. आत्म बाजोठने उपरे, गु. समकित साथीओ
 पूर; स. मूलोत्तर गुण गुहली, गु. उपसम अक्षत
 चूर ॥६॥ स. कोकिल कंठे कामिनी, गु. सोहव गा
 वे गीत; स. माणिक मोती लूणणे, गु. श्री जिन
 शासन रीत ७ ॥

॥१९॥ गुहली॥आठेलाल देशी॥ ज्ञानादिक गुण
खान, राजगृही उद्यान, गणधरलाल सोहम स्वा
मी समोसर्वाजी १॥ कांचन गौर शरीर, वाणी
गंगा नीर, ग. त्रीहुं पंथे प्रसरे सदाजी २॥ अंग उ-
पांगह वार, दशविध रुचीना धार, ग. उगविध
शिक्षा उपदेशेजी ३॥ तेर क्रिया व्रत वार, गृह
स्थि पडिमां इग्यार, ग. श्रावक गुण जेठ सिद्धना
जी॥४॥ विनय वैयावच कल्प, धरे दशविध ठ
अकल्प, ग० वंदण दोष विकथा तजेजी ॥५॥ कुं
कुमरोल कचोल, गुहली रंगमरोल, ग० अकृत
श्रीफल उपरेजी ॥६॥ मगधाधिपती नार, सोल
सजी शिणगार, ग० लली लली करती लुंठणा-
जी ॥७॥ जोती गुरु मुख चंद, पामतो परमानंद,
ग० चतुर चकोरीए गोरडीजी ॥८॥ सुर वधु नर
वधु कोड,मिली सह सखी जोर, ग० गावे जिन
शासन धणीजी॥९॥(श्रीगुहलीसमुच्चयसंपूर्णम्.)

॥ श्रीदेशावरी पार्श्व जिन ठंद ॥

॥ डहा ॥ सुमती समर्पो सारदा, भया करो
 मुज माय; आशिष्य द्यो सुवचन तणी, कुमणा
 न हुवे काय ॥ १ ॥ कालिदास सरिखा कीया,
 मूरखना कविराज; महिर करी माता मुने, जाणी
 तनुज निवाज ॥ २ ॥ तेविशमा जिनवर तणा,
 गुण गावण मन गाढ; दाखीश ठंद देशावरी,
 चाह प्रमाणे चाढ ॥३॥ देश केताइक दाखीया,
 कवि मुख शुणिया केय; शास्त्र अकी केय
 संग्रह्या, स्तविशु ठंदे तेय, ॥४॥ जन्म मरण प-
 रणण प्रित्ये, ज्ञाखुं नवनवि ज्ञात; मत को जूठी
 मानज्यो, सघली ठे साक्षात ॥ ५ ॥ अवलोको उ
 दधी त्रटे, उत्तर पंथ अपार; देश घणाठे तिण
 दिशे, महि पिण समुड मजार ॥६॥ पुहवी जि
 ती प्रसरे पवन, अर्क करे अजूआस, निजनिज
 झाष्या नारी नर, जाप जपे सब जास ॥७॥ परमेश्वर
 पाताळ पुण, अमरापुर पुण आप; दानव मानव

देवता, जपे सहु कोइ जाप ॥७॥ ठंड त्रिजंगी ॥

जहां जाप जपंता, ध्यान धरंता, सोले विद्या
 साजंता; हुवे विद्या धारी, तेह नर नारी, अंबर
 चारी उडंता; रूपाचल वासी, मंत्राज्यासी, लील-
 विलासी सुविचारं; तिण देश मजारं, पार्श्वकुमा
 रं, जपे उडारं जयकारं ॥ १ ॥ ज्यां मेरु गिरिंदा,
 पास जमंदा, सूरज चंदा रात दिणं; दश विघ
 सुर वृस्कं, पूरे सुस्कं, नही जहां डुस्कं सुरख्व घणं;
 नरनारी निरत्ति, जुगल उपत्ति, अकरम जूमी अ
 वतारं ॥ तिण ०१ ॥ चौराशी लस्कं, पूरव वर्ष, ज-
 हं मनुष्यं आयुष्यं; सो पंच धनुष्यं, देही सौख्यं,
 पंच विदेहे परतिस्कं; जंबूखंभ घाई, दीप अठाई,
 पुस्कर अर्द्ध सुविस्तारं ॥ ति ०३ ॥ जहां नर हय
 सुस्कं, देह मनुस्कं, हय देहं तिहां नर सुस्कं; रहे
 रुढी रुस्कं, प्रिया पुरुस्कं, सरिखे सरिखा होय
 सुस्कं; कैलाश हिमाले, वास निहाले, एकाकी
 कित्तर आकारं ॥ ति ० ४ ॥ जहां नर नवगङ्गा, स-

बल सकजा, धजा धारी धम चाली; हल सिंहा
 सेती; खरता खेती, हड्डे शक्ति हुय हाली! चमी
 केशरी रहे, नागा नठे, जिडे जारहे सजि जारं॥
 ति०५॥अन्नपाणी ठंडे, घर नवि मंरे, जइ वनखंडे
 लोक वसे; न पीये स्तन बालं, कष्ट करालं, कर
 वरसालं घन वरसे; जिहां जन्मंता, बाल बोलं-
 ता, दंत समेता मुख धारं॥ति०६॥ज्यां नर इक टं
 गा, रूप अनंगा, कूद कूरंगा जेम वहे; सूवे नवि
 बेसे, परे न ठेसे, रातदिवसे खडा रहे; जलपवन
 आहारी, नहि मल धारी, न अन्न आहारं नीहारं
 ॥ति०७॥नरनारी नग्नं, लंबं श्रवनं, कपला स्था
 नक जहां कन्नं; इक उपरि पोढे, दूसरो ओढे, गोढे
 परिगल धण धन्नं; बोले सत्य वाचा, शिथले साचा,
 ऊजा जुंजे जुंजारं॥ति०८॥जहां कुमर कुमा-
 री, जणता जारी, मठधारी गुरु संघाते; रहेता दि
 नराते, वर्षह जाते, निजनिज वाते मिल जाते;
 बली श्रवणे शुणिया, देश धाकुनिया, गर्जवती

वरे ज्ञर्त्तारं ॥ति०१॥जिण देशे जुवती, गोरख ज
 पती, आप संतापे संजुत्ती; मलमूत्र डुवारे, मू-
 की मारे, लिंगासारे विलपंती; मशदान विवूट्टे,
 इहे हडे, जठ उडीसे आचारं॥ति०१०॥जहां जं-
 वे आशन, वेश सिदाशन, कामनी हूकम हाल
 करे, नर होय गुलामं, करे गृह कामं, सांज स-
 लामं रुद्र जरे; करवा दल वक्कर, मारे टक्कर,स्त्री
 रज्जं ए अधिकार ॥ति०११॥जहां मासं मासं, एक
 तमासं, कामरु कमखा आवासं; विल योनी ठि
 लके, रत्नज खलके, पूजक तके ले पासं; होय मा
 स पम्कं, काक डमकं, हणुआ हके हकारं॥ति०१२
 कम्ता बहु कज्जं, पाले परज्जं, राजे रज्जं कपिराणं;
 कपिदि कोटयालं, कण रखयालं, कपिही दाणं
 दीयाणं; लंगूरा लारं, फोजा सारं, जोडारं नख
 दथियारं ॥ति०१३॥ चट्टि हुंमी खंवे, संवल वंघे,
 गिरि शिर नंवे जाय रहे; मल्ल ग्रहे पदिल्ले, ख-
 ल्ल उत्रल्ले, पेशि मऊल्ले मोन ग्रहे; पल जरकी

परकी, जाय उचक्की, जारंड मूके दधिपारं ॥ति०
 १४॥ जहां जापे होवे, नारी न सोवे, घट धोवे घर
 काम करे; पीसे वली खंडे, लीपे ठंडे, घर मंडे
 शिर नीर जरे; नर पडदे रक्के, पवन न चख्खे, तिह
 ण जस्के तिणवारं ॥ति० १५॥ थिर गर्ज सुथेटा, बेटी
 बेटा, बैयर बालक आठ जणे; निरोगण नारी, स
 बली सारी, जारती जावे खूब जणे; चौपद गज
 दहो, सूनापहो, हवसी मनुसी हदपारं ॥ति० १६॥
 श्रवर सत्र वच्चे, अंगे अरचे, मुंचे नर तसु विच्चा-
 लं; शिर मुंने वालं, बंधे पालं, थीर धरी कंबल
 थालं; चुणि लेजो कगंग, विहसे वर्ग, स्वंगं प्राप्ती
 संजारं ॥ति० १७॥ जहां नरुणा गरुणा, जलणा न
 खणा, वहणा रक्खणा वन मऊजारं; मानव त्रिय
 मरणे, कारज करणे, वरणा वरणे विच्चारं; पूस्त
 क पेखीजे, दिण देखीजे, कीजे कर्म षट परकारं;
 ॥ति० १८॥ जहां मेले मिलते, जंगे जुडते, पंथे
 पुलते पूठीजे; मिगता शिर दहो, बूढा बूढी, क-

छी तिहां एकठ कीजे; लीजे ते लारं, संवल सारं,
 आदम खोरा आधारं॥ति०११॥जहांठे मणमोती,
 मस्तक हुंती, एहा दंती उत्पंती; किल कंगी का
 मण, हंसी गामण, देही सोवन दीपंती; जइजा
 ती मंगल, पोमणी अक्वल, दीपे सिंघल सकारं
 ॥ति०१२॥कन्या वीवाहे, मंडप मांहे, अधिक उ
 षांहे लोक मिले; महा शोजा-मंमे, घणे घमंमे,
 ठंडे आलस हर्ष जीले; परणे पंच पुरुषं, नारी नि
 खं, पंचाले उपती लारं॥ति०१३॥जर योवन ज
 ङ्गं, रहेनलज्जं करवा कज्जं होय सकं; स्तन नाखे
 खंधे, धावे धंधे, पुंठे वंधे वालकं; कसि कंचु पीठे,
 गुण गण दीठे, धुरे कांगसी शिर धारं॥ति०१४॥
 जहां सप्तचारं, सप्त जर्तारं, विंद कुमारी धूरावरे;
 जइ परणे जोई, जिण दिन सोई, घरणी होइ र
 हे तास घरे; तंबोल कपूरं, तेल सिंदूरं, करे महि
 माने मनुहारं ॥ ति० १५ ॥ जहां काला किवला,
 किर किरवाला, पीला विट्टू पंखाला; मॅठाश्री मो

टा, खरा न खोटा, ठोटा पिण अग्नी ज्वाला;
 जिण एकज कांटे, पठर फाटे, गंटे विप होवें
 जारं॥ति०१४॥जहां पेसे पतालं, पडते पालं,इलि
 हीभालं सीयालं; निकसे उन्हालं, खलके खालं,
 नदिया नालं वरसालं; खडता नर खेती, उदम
 सेती, उपजें अन्नं अंवारं॥ति०१५॥मूसा मूगला,
 रहे रसाला, जलणह जाला विञ्चाले; विण मूसा
 चालं, वल्ल विशालं, पवक मेली परकाले; तसुवछे
 चरमं, माहा गरमं, मरे सुलझे जल धारं॥ति०१६॥
 सुरही दही डुद्धं, कहे अशुद्धं,महा विरुद्धं अन्नरकं;
 घृत करेज गरमं, चोपडे चरमं, परेज नरमं,पग
 रकं; जहां हिंदू हंदा, एही ठंदा, सदा नालेरा घृ
 त्त सारं॥ति०१७॥ जल माणस जाले,घाणीघाले,
 जहां पिलीजे जल जंत्रे; षट् मास प्रमाणं, फिरे
 ते घाणं, बूटे प्राणं इण तंत्रे; तसु हाडसं रत्नं,
 बंधी श्रवनं, तरेज जल निधि अत्तारं॥ति० १८॥
 जारंरु दो सुस्की, वाणी मनुखी, तीनचलत्रे एक

तनं; दोय चंचु चंचल, तीनुं चुंगल, ग्रहिमेंगल ऊडे
गगनं; वनिता वरवाणं, विमणे प्राणं, संखाणं
शिरदारं ॥ ति० ३६ ॥ शिणगारे सारी, राजकुमारी,
करि अश्वारी जहां जावे; कूवा शिर आवे, वहसी
बुलावे, धसी कन्या पुंठे धावे; रहे पुंठी रलके, आहे
थके, ऊलके पारद ले ऊारं ॥ ति० ३७ ॥ जहां घास
वरन्नं, सखर सुवन्नं, वन्ने रन्ने उत्पन्नं; वहती गौ व-
गं, चिरिवा लग्गं, वदन विलग्नं सोवन्नं; संग्रहिजे
ठाणं, करि सहि नाणं, कनक सुजाणं कुमारं ॥
ति० ३१ ॥ जहां तरुवर एहा, श्रीफल जेहा, उंचा
लगे आकाशं, फल होय दोय जोडा, जाणे क-
उडा, तोड्या पक्के नव मासं; न्हुंय परुता जग्गा,
रहे निलग्गा, नग्गा नरगिरि आकारं ॥ ति० ३२ ॥
मगधं अंग वंगं, काशी कलिंगं, वच्च कुरु कौशल
चैराटं; जंगल पंचालं, नृंग कुणालं, मलय संडी
लं तिम लाटं; विदेह विदर्भ, सोरठ सर्वं, वरण
दसारण विचारं ॥ ति० ३३ ॥ कुलावर्त्त सुधारं, सिंधु

सुवीरं, सूरसेणं केकैअरिं; साढा पचवीसं, आरीज
देशं; सूत्र सिद्धांते प्रसिद्धं; उत्तम नर जन्मं, क-
र्म अकर्म, धर्म अधर्मं निरधारं; ॥ति० ३४॥ कर्णा
टं घाटं, घोडा घाटं, जोटं घोटं नेपालं; चीणं म
हा चीणं, हुरमज हुणं, बब्बर खप्पर बंगालं; कि
नडि तिलगाणं, कछ बगलाणं, खसु खुरसाणं खं
धारं ॥ति० ३५॥ काश्मीरं कीरं, वली परतीरं, कि
ढमाखंता प्रतिकालं; रोम साम हुवासं, पर्वत वा-
सं, जालंधर कुंकण जालं; गुज्जर गोओरं, खन-
कनु खंडं, बार मलहारं मलवारं ॥ति० ३६॥ मे
वारं माढं, वलि मारवारं, मन्हीबंदर मेवातं; मा
लव मरहटं, अल जल वटं, वंद कसाणं केवातं;
आरब्बं बगसं, पुलिंद पारसं, गणीजे आदिन गं
धारं ॥ति० ३७॥ इम देश अपारं, नदिनाचारं, आ
रज्जं कै नारज्जं; नवनवि मुख ज्ञाखा, नवनवि शा
खा, सलज्जं कै निर्लज्जं; जणे नव नव ज्ञेखं, अछे
अलेखं, पातिक पून्य परीहारं ॥ति० ३८॥ कलश.॥

जपेस कोइ जगदीस इस त्रय ज्ञुवन अखंनि
 त, अद्भूत रूप अनूप सुगट फणि मणि शिर मं-
 डित; धरे आण सहु धरा नदधि जिम दिप जि-
 ताई, प्रगट सात पाताल स्वर्ग किर्ति सुहाई; शि-
 रलठ वल्लज वामा सुत, न पूर्ण प्रज्जु वैकुण्ठ पुरी;
 प्रणमेवि पास कविराज इम धुण्यो ठंदवेशावरी३ए

॥श्रीअंतरीक्ष पार्श्वजिन ठंद-चोपाइ ॥

सरस वचन द्यो सरस्वति मात, चोपाइ ठंद
 श्लोश विख्यात, अंतरीक्ष त्रिज्जुवन धणी, पा-
 र्श्व जिनेश्वर महिमा धणी १ लंक धणी जे राव-
 णराय, तेहनो वहेनोवी कहेवाय, खरदूपण नामे
 जूपाल, अहोनिश धर्म तणुं धणुं ठाल २ सदगुरु
 वचन सदा मन धरे, त्रणो काल जिन पूजा
 करे; मन आखनी धरीठे एम, जिन पूज्या विण
 जमवा नेम! ३ एक दिवस अति कुलट धरी, गज
 रथ पायक पुंठे तुरी; चञ्च्यो रेवाढी राय संचर्यो,
 साध्रे देहरासर वीसर्यो ४ देहरासरीयो चिते इस्यो,

विण बेहरासर करवो किस्यो ? राजाने आ-
 करी आखडी, जिन पूज्या विण नहि सुखनी !
 ५॥ चड्यो दिवस दश बारइ घनो, प्रतिमा वि-
 ण लागी चटपटी; कर्या एकठां वेलु ठाण, शाकी
 जावे कीधो ज्ञाण. ६ नथी बीजो आधारके आश !
 प्रतिमा निपजावी श्रीपास ! बनावतां नविलागी
 वार ! स्थाप्यो मंत्र महा नवकार ! पंच प्रमेष्टी
 धर्युं ज्यां ध्यान ! प्रतिमा पेखी सोवनवान !
 बेहरासरीयो देखी हसे ! मूर्ति देसी मन उल्लसे ;
 ७ आव्यो राघ करी अंगोल, बावना चंदन केशर
 घोल ; पूजो प्रतिमा लाग्यो पाय, मन हरख्यो
 खरदूखणराय ए एक वेलुने बीजुं ठाण, प्रति-
 मानो परगो परमाण ; प्रतिमा पेखी चक्षु ठरे, सं-
 घ सहित त्यां जोजन करे १० तेहज वेला तेहज
 घडी, प्रतिमा वज्र तणी परे जडी ; धर्मि राजा
 चिंता धरे, रखे ! कोइ आसातना करे ११ खंध
 धरी खरदूखण नूप, ले मुकी प्रतिमा जलकूप ;

गयो काल जलमांहे घणो, प्रतिमा प्रगटीकिण विध
 शुणो ! ११ एलगपुर एलगदे राय, कुष्टरोग रा-
 जाने काय, न्यायवंत नवि रुंने लोग, पृथ्वी वने
 पुन्य संयोग १३ राय तणे शिर मोटो रोग, रय-
 णीजर निज्ञान वियोगः रोमरोम कीडा संचरे,
 सत्र संकट राणी अनुसरे १४ जेइ कीडाना जेइ-
 ज ठाम, ते तिंहा पाठा घाले ताम; ते नवि जा
 वे तेहने ठाय, ततक्षण राय अचेतन आय १५
 राय राणी संकट जोगवे, कमें दोहिला दिन योग-
 वे; एरुवार हय हिंसारव कर्यो, राजा रेवानी सं-
 चर्यो १६ नाथे समरधनो परिवार, पाला पायक
 न लहुं पार; जातां ज्ञाण मथारे थयो, म्हौटोश्च
 टवी मांहे गयो १७ थाक्यो राजा वरु विश्राम,
 देखो वांया अति अजिराम; लागी तृपा नीर म
 न घरों, दोठो जावल पाणी जर्यो १८ हाथपाव
 मुग्न घोया वली, पोथुं पाणी गलणे गली; करी
 रेवाठो पात्रो वळ्यो, पहिला जइ पटराणीमळ्यो

१७ पटराणी रलियायत अई, आक्यो राजा पोढ्यो
जई, आवी निद्रा रयणी पडी, पासे रही पटरा
णी खनी १० हाथ पाव मुख निखे जाम, ते की-
डा नवि देखे ताम; राणीने मन कौतक वस्यो,
हेडे हरखी कारण किस्यो! ११ जाग्यो राजा आ-
लस मोरु, पूठे राणी वे करजोड; काले रेवाडी
क्यां गया? हाथ पाव क्यां धोधा रह्या? २२ राय
कहे पटराणी शुणो? विकट पंथने दूरज घणो?
स्वामी कार्य सरे आपणो! एही जल सुखदायक
घणो!! १३॥ बोली राणी स्नेह समेत! घालो स्वा
मी वड संकेत! जोतर्या रथ तुरंगम वे'ल,
राजा राणी बेठा गेल १४ दीगो जाबल वरुनेतीर,
मान सरोवर सरिखो नीर!! हरखी राणी अति
उठरंग, राजा अंग पखावे चंग २५ टढ्यो कुष्ठ
ने वाध्यो वान! काया अइ कांचन सम जाण !!
आव्यो राजा एलगपुरी, रूडो राज सज्जा त्यां ज
री १६ घर घर तणीयां तोरण माल, जरी वधावे

माणिक थाल; घरघरनां आवे जेटणा, दान अ-
 मोलक देठे घणा २७ पन्हु अमारी तपो नि-
 शेष, राजा राणो हुवा संतोष, सप्तम् जूमी
 गौढ पर्यक, तिंदा वेठो राजा नोशंक ॥ २७ ॥
 वूआ चंदन कूर कपूर, अगर सुवासित ठे
 नरपूर; नरनिजामां सुतो राय, जाणे अमर को
 आव्यो त्यांय ! २८ रूपे रूपो जलक्यो ज्ञाण !
 नीलो घोमो नीलो पलाण ! नीलो टोप नीला
 इथियार ! नीलवर्ण नीलो अश्वार ! ३० वोढ्यो नि
 शुणरे एलगनूप ? ज्यां जल पीधा त्यां ठे कूप !
 प्रगट करावे वहेलो जई ? त्यां प्रतिमा ठे म्हारी
 सही !! ३१ करी मळूखानी पाखली ! कूप मांहे
 मूके सनमुखी ! हुं मांहे वेशुं तिण वार ! काचे तां
 तण काढे व्हार !! ३२ एदज दिनना जाया जेद !
 रथ वज्रा जोतरजे तेह ! पूंठे जोइरा नही मुज
 जणी ! गोखामण शी दीजे घणो !! ३३ इस्यो स्व
 प्र ले उठ्यो राय ! प्रह उठ्यो हरख्यो मन मांह्य !

करी सजाई जे जिम कही, आव्यो वड पासे ते
 वही ३४ वरु जल सभिपे आव्यो जाम, प्रगट
 कूप पेख्यो अजिराम; ज्यो नीर गंगाजल जि-
 स्यो, हरखी राजा हैने हस्यो ३५ करी मलूखा
 नी पालखी, माणिक मोती जमी नवलखी; वां
 धी तांतण मेली ठाम! आवी बेठा त्रिजूवन स्वा-
 म!! ३६ कुवा कांठे पधार्या पास, उठव अधिको
 कीधो खास! रठे जोतरीया वाठमा! विण खे-
 ड्या ते पंथे पम्या!! ३७ वाजे जंगल जेरी ढोल,
 मंगल मुखी करे कलोल; पालखी ठे मलूखा त-
 णी! प्रोढी प्रतिमा जारे घणी!! ३८ राजा मन
 आव्यो संदेह! कयम! प्रतिमा आवेठे तेह!! वांकी
 दृष्टी कर्यो आरंज! प्रतिमा थोजाणी थिर थंज!!
 ३९ राजा लोक चिंतातुर थया! प्रतिमाजी त्यां
 स्थिरज रह्या! सूत्रधार सिद्धावट सार, तेनी आ-
 ध्या अर्थ जंमार ४० आलस अंग तणो परिहरो?
 वेगे यहां जिनमंदिर करो? सिद्धावटे तव रंग र-

साल, कोथो जिनप्र.साद विशाल ४१ ध्वजा दंरु
 तोरण बड थंन, मंरुप म्होटो नाटारन; पवास
 ण कोथोठ जेह, तिहां प्रतिमा नवि वेसे तेह ४२
 अंतरिक्ष उचो ते तले ! नीचे घोरेश्वार नीकले !!
 राजा राणा निज मन होरु, खरचे ड्य तणी
 बहु कोरु ४३ सप्तफणा त्यां वेठा पास, एलग रा
 य मन पहोती आश; पूजे प्रचुने उलंवे अगार,
 श्रोपुर नामे वलाव्युं नगर! ४४ राजा एलगदे त्या
 ठेर! राणी स्वामो शेवा करे; पार्श्व पास सेवक
 घणिं, पद्मावती साध आणंद ४५ आवे संघ चि
 हुं दिशि तणा? मंरुप उच्च व मामे घणा ! लाखेणो
 प्रचु पूजा करे, नमन करी नीचा नीसरे ४६ आ
 रति दी क मंगल माल, जंगल जेगे जाक ऊमा
 ल; आजे पण बहु जण जोश कह ! एक मोरो प्र
 चु उचा रहे !! ४७ आगे तो जाता अश्वार ! ज्यां
 सग एलगदे अवनार ! जेषे जेम जाण्य तेसती !
 बात परंपर गुरु मुख जही ! ४८ शुणी बात वो;

हयो मन रली ! निश्चे तो जाणे केवली ! अश्वसेन
 राजा अवतंस, वामाराणी कूखे हंस धए वाणारसी
 नयरी अवतार, करज्यो स्वामी शेवक सार; पत्र
 रसें ठ्यासी परमाण, विमल वैशाख तणो दिनें
 जाण ए० अक्षय त्रीजे आनंद ज्यो, गायो पास
 जिनेश्वर ज्यो; बोलुं बालक जोमी हाथ, शुणो
 अंतरीक पारसनाथ ए१ हुं शेवक बुं तारो स्वाम, हुं
 लीनो प्रभु तारे नाम; मुनी लावण्य समय कहे
 मुदा, तुम दरिशाण हुं वांछु सदा ॥५२॥

॥ श्रीअष्टजय निवारक पार्श्वजिन ठंदा ॥

श्रीधलपति अलदेशे वसियो, सयल मनोरथ
 कसणे कसियो; तस गुण मणि वीणेवा धसियो,
 जक्ति अमृतनो थइ हुं रसियो १ धिंग धवल गो-
 डी गुण गाटो, अलग नवेले अरियण आंटो; यो
 बूर्जनने वयणे दाटो, कोइ न लोपे जेहनो कांटो.
 २ तुज शेवे सुर हरि हर सरिखा, ब्रह्मादिक तुज
 आगल विलखा; जवी जक्तनी ज्ञाजे तिरषा, न

मो नमो पुरुपोत्तम पुरुपा ३ एकल मल अणवीह
 अगंजन, नवलरूप जय ज्ञीम विजंजन; पूरघ
 ममोरघ जगना मंरुन, नमो नमो जिनराज
 निरंजन ४ कीर्ती तुज प्रसरी ब्रह्मंडे, गुण माला वा
 सी नवखंमे, निर्वल असुर थें मुक्या दंडे, ज्ञीड
 पड्या तुं कदी न ठंडे ५ ॥ ठंड जाती ॥ आवी हो
 आवी हो वीर, वींटीयो वावन वीर, नीलडे च-
 ष्यो केराण, पाखस्ये चढ्यो दीवाण ६ जाखरां
 समाथ साथ, दोमे वीर जोमी हाथ; घुघराना घ-
 मरोल, रमक जमक जोल, धारे ठत्र ठत्रपति, चा
 मरां जूलंति द्युति; सजे तनु शिणगार, धूपें दीपें
 घुंधूकार ७ विगति वणी म्हक, त्रांवीया वाजे त्र-
 हक; सुधारो सूधी म्हक, मोतियां लछी लहक ए
 खेत्रपाल करे खंत, दोलत वधे वदंत; दोरुतां ज
 लेव मांझे, तीर कर पुंठे साहे १० घोंसठ सगति स
 ति, वारणा लेयंति जति; सरस्वति गुण थोक,
 श्रीतरा जणे शिलोक ११ रंजा करे नाटारंज, के

३ करे गुण बंज; चोकी करे महादेव, रूपे तपे
 कामदेव १२ आप लोये खग्ग ढाल, गहिमे गह्यो
 जूपाल; तरगस पूर्यो पाठे, तो आठे आठे आठे.
 १३ मंबरे करे वीमाहे, जारथी रथी संवाहे; इणे
 रूपे चढ्यो नाह, तो वाह वाह वाह १४ चटपट
 चाठे चोट. दाणवाने देतो दोट; धमाक्के धरा धंधो
 ख, खंधे खल खोल खोल १५ असूराने करे अंध,
 कंटकोरा जांजे कंध; चुगलां करे चपट, दोषी
 करे दहवट. १६ अनमां पिठाडे ईस, पिसुनांरा
 तोडे फीस; माकणोरा फोमे माक, जूत प्रेत मा
 ने हाक. १७ जोटिंगारा जांजे अंग, नवेखंमे मा
 ने मंग; अहमत्त ज्योठाक, दाखोजे वडे दमाक
 १८॥ पूरतो सकल सिद्ध, नवेनिद्ध रीद्ध वृद्ध; व-
 खाणुं केति कराय, तो जाय जाय जाय १९ नि-
 साणे देवाय ठोर, साधे देश जोरजोर; खेलतो मु-
 सक लखल, अडवड्यां करे पखख २० तिलग फि
 रंग अंग, रमेतुं अनंग रंग, चाण महाचीण देश,

तिहां तुं वधारे रेश २१ जोट मद्दा जोट लाट,
 सुखमोयां लेजे माट, पारकर मरहट, पूजाय तुं
 परगट २२ काश्मीर गूजरात, मानीजे चोराशी
 न्यात, मारवारु गोडवाड, तिहांरी लेवे रोहाम २३
 मेदपाट मलवार, पूजा लेवे वार वार, सोरठ कुंक
 ण वग, मान्या दिये उछरंग २४ वतीश हजार देश,
 खेले नव नवे वेश, अकल अनादि अंत, सेवकारी
 साधे संत २५ जावट विलुर नाख, राख वीर राख
 राख; नाथ अमोणो कडाव, आव वीर आव आव २६
 रोग सोग जोम जाग, जाग वीर जाग जाग, प्रा-
 स्थीयां शुणी वोल, वोल नाथ वोल वोल २७

॥ उहा ॥ करि दरि दव अही युद्ध जल,
 रोग बंध नय अठ, विंग धवल समरंत ईह,
 दूर पणठे दूठ ॥२७॥ उंद नाराच ॥ उत्तंग अग
 मति जंग जूखीयो जरेपटा, ठक्यो दर्प आवे डप
 जाणे वीहसी घटा; गयंद उठ धर्यो रूठ आयणेष
 संकटा, गिडंद गोमो नामथीज पुहवीदे चटपटा

१९ देयंतफाल वीकराल धरा पूंठ आथमे, सुतिखख
नरक मुक्कसें गयंद मोतोयां ऊमे; कठोर ठीक
फाडी मुक्क आय एकलां अडे, गिडंद गोडी नाम
थी मृगेंड तेहनानडे ३० ऊरुप्प जाडि लिये ऊपेट
जाळी अंग जूलवे, धुखंति धूम धूमराल मृगांबाल
मूऊवे, उडंत गृह पंख। मुह पंखोयां अलूऊवे, गिडंद
गोडी नामथीज मेह दाह बूऊवे ३१ विषाली फंक
बाले रुख ठवे अंगे कालिका, सूरत वितरीशजोन
बल्लनाग बालिका; फूणा लीजे सामोधके चळे
दूजि नालिका, गिडंद गोडी नामथीज नाग फूल
मालिका ३२ खडग केइ चालवे त्रिशूल शैल को
ग्रहे, वडाल नालिरी घडक कायरा दिशावहे, ल-
डे नूपाल बालबंधी लोहीयां नदी वहे, गिडंद गो
डी नामथी संग्राम जोत जे लहे ३३ जिहाज वे
श धीपदेश केई लोक संचरे, हीलोलियो समुद्र
वाय नीर तीर ऊपरे; कटक कंध नावबंध लोहा
कमाका करे, गिडंद गोडी नामथी समुद्र पार

ऊतरे ३४ हरस सास सोस पीड गुंवडा गलावले,
 जगंदरा लफुंदरा प्रमेह पठरी गले; जलोदरा कं
 ठोदरा ज्वरादि कोठ ऊठले, गिडंद गोडी नाम-
 थोज रोग वेगला टले ३५ जडावे डुठ कंठ तोख
 पाय वेडोयां ठवे, दीयंत मार कोरना कुवेण वो-
 ल दूहवे; सहंत वंधिखाना पीरु वापना पड्या
 टवे, गिमंद गोडी नामथोज राजबंध ठोरुवे ३६

॥ कलश ॥ परचा पूरण पास दास निज पा-
 ले विगते, जणतां जस गुण पाठ आठ जय जेदे
 युक्ते, मनी स्वरुप मन आण रचो रूचीथी जुक्ति,
 वखाणयो गुण प्रगुण सगुण रूपरी जक्ती; प्रेम
 धरण जग जस जरण सरस रिद्धि दाई सबल,
 कांति विजय जयसुखकरण नमो नमो गोडीधवल.

॥ श्री वरकाणा पार्श्व जिन ठंद ॥

कांयरे जीव तुं मनमें कसके, कांइ जिणतिण
 आगल दीन वके, वीजी दिशि वली तुं कांय थके,
 समरथ्र वरकाणा स्वामी थके १ तुं मुज मात

पीता सरोखो, तिणे मुज नेह निजर निरखो;
 आयो हुं प्रभुजी अर्ज रखो, साहिवजी कोजे सबल
 पखो १ अल जो जाजो मुज इसो अठे, परचा
 पूरणो वरकाण पछे, जग सघले जसवाद अठे,
 तुज सम प्रभु कोइ देव नठे ॥३॥ धुराय शुणी
 में इसोय धुनो, दादाथें वंछत कहिरे डुनो; मेढो
 जे चिंता सुनिजर प्रभुनो, जिम सिंहणी आगल
 जाय सुनी ॥ ४ ॥ पिसुण होवे जे पगिय थके,
 ते दुश्मन ततक्षण गमय दफे; वरते वरकांणा
 पास तपे, नित नित जे वाधे घणे नफे ५ सुरनर
 किन्नर सेवा सारे, विरुआ सवि वेगे विघन वारे,
 जाजं जिनवर तुज बलिहारो, तो विण नव सा-
 ह्यर कुण तारी ६ जगडे जे पिसुण पडे जूठो,
 राजा पिण किसुं न करे रूठो; वरकांणा प्रभुजी
 तुं तूठो, तो विण वाइल जलहर वूठो, नावे घरे
 छणारन नेढी, संपति घर आवे अण तेढी; अ-
 रियण को न शके ठेढी, प्रणमतां पास खुलेज

वेडी ँ साहेव दर्शण शुभ दीनावलो, मनवांचित
 आस्या सफल फलो, श्रीजिन हर्ष जात्रा सफली,
 प्रभू पास पसाये रंगरत्न ॥ ए ॥

॥ श्रीश्रद्धा दुर्लभ प्रमोद पद ॥

पावत काले हरिया हुवे, जवासो सूको जाव
 सुज्ञानीरे, पाणी अग्री द्योय परगमे, जाड मूल-
 शुं जाय सुज्ञानीरे ॥ सरधा दुर्लभ देवा कही ॥१॥
 वरपा ज्युं वाणी मुनिराजकी, केइ हरिया ज्युं
 हरखित होय सु० जवासारा साथी शुण्या अकां,
 घणा द्वय धरी कमलाय ॥सु०स०१॥ काग तणा
 मुख पाकवे, दाख आवे जिण वार सु० सूडादि
 क सूत्र जोगवे, ऋतु फल पामे अपार सु०स०३
 दाख वृक्ष ज्युं म्होटा मुनी, उपदेश रूपी फल
 वेत सु० दाख उपदेश विरला ग्रहे, केइ काग ज्युं
 जगरे अचेत ॥सु०स०४॥ निवात पृथ्वीमें प्या-
 री घणी, खाता मगन होय जाय सु० खरने
 निवात खवासीयां, जूदा होजाय जीव काय ॥सु०

सण्ण दानादिक सूत्रमें कहा; विरला जाणे नि-
 वात सुण खररा साथ्यांने गमे नही, घणो द्वेष
 घरी कमलात ॥ सुणस० ६ ॥ घनसार संग पंखी रहे,
 बेसे पंख विठाय सुण खाधा विना ऊहेर परि-
 णमे, जूदा हुवे जीव काय ॥ सुणस० ७ ॥ चञ्चविध
 संघ घनसार ज्युं. कोइ पंखी ज्युं संग करे आय
 सु० शांजळ्या द्वेष जे परगमे, घणा जन्म मरण
 वध जाय ॥ सुणस० ८ ॥ उपसम रस मांहे जीलतां,
 दमतां इंडी दाव सु० एहवा मुनि प्रमोदशुं,
 सरधा रुची मन लाव ॥ सु० स० ए ॥

॥ श्री सदगुरू समरण परम पद ॥

सदगुरू साचे सिपाई मेने एसा देखा मेरी माई
 ॥ स० टेर ॥ प्रज्ञू नाम हिरदे विच लीनो, वडी
 जागीरी पाई; समकित संगति धर्मकी समुदा, क्षि
 माकी ढाल वणाई स० १ ॥ साज सीगनी समज
 कर मनकुं, तनु बंदूक बनाई; गमदा दारू सुर-
 तदा सीसा, ज्ञानकी गज ठरकाई स० २ ॥ शील

संतोष दयाकी पथरी, चित्त चकमक चमकाई; म
नकी नाखी अरु तनका तोसा, प्रीती प्याला पाई
स०३॥ प्रजू नामका उठत पलीता, गढपरे जाय
जुखाई; वडी मोहकी फोजकुं मारी, कर्मका ज-
र्म मिटाई ॥ स०४ ॥ गंगाराम करजोडी वीनवे,
ज्वीजनके मन जाई; ज्वसाह्यरसें वेगे तिरोगे,
आवा गमन मिटाई ॥ स० ५ ॥

॥ श्री आनंदघन आतम पद. ॥

॥ शुन चरखे वाजी तेरा चरखा बोले हुंहुं ॥टेर॥
जलमें जाया थलमें उपना, वसगया नगरमें आप;
एक अचंवा ऐसा देखा, वेटी जाया वाप ॥शु०॥
जाव जक्तिकी रुइ मंगाई, सुरत पीजावण घाली:
जान पीजारा पीजण वेठा, पकड तांत ऊणकाइ
॥शु०१॥ वावज मेरा व्याव करतदे, अणजाणयो
'वर आप, अणजाणयो वर नही मिलेतो, वेटी
जायो वाप ॥शु०२॥ सासु मरेजो नणंद मरेजो,
परणयोजी मरो जाय; एक वूढो नही मरेतो,

तेणे चरखो दीयो वताय ॥ शु० ३ ॥ चरखा मेरा रंग
रंगोला, पूणो है गुलजार; कातण वाली ठेल ठवीली,
गीण गीण काढे तार ॥ शु० ४ ॥ इन चरखामें
हुंहुं वसेरे, हुंहुं लखे न कोय; आनंदघन या लखे
विज्रूती, आवागमण न होय ॥ शु० ५ ॥

॥ श्री प्रातःसमय मांगलीक पद ॥

ऊठी प्रजाते आतमा, पहेलो मंगल बोल, अहिंत
पद आदे जपी, परुदो पापना खोल ॥ ऊठी०१ ॥
बीजो मंगल सिद्धनो, कर्म करे सविदूर; शिवरमणी
वेगे वरे, पामे आणंद पूर ॥ ऊठी०२ ॥ त्रीजो मंगल
साधुनो, जेद साधे शिव पंथ; मूल उत्तर गुण
जे वर्धा, जवतर्या जाव निग्रंथ ॥ ऊठी०३ ॥ चोथो
मंगल धर्मनो, जेमां वर दयाजाव; आणा सहित
आराधतां, जवजल तारण नाव ॥ ऊठी०४ ॥ जग
बल्लज जिनराजजो, जाण्या मंगल एह; किलिचंड
कहे माहरे, दिन दिन चढतो स्नेह ॥ ऊठी०५ ॥
(इति बंद पद समुच्चय संपूर्णम् .)

॥ श्रीनवपदजोनो आरती-राग पीळुं. ॥

जय जय आरति नवपदजीकी, सकल संघ
 मलि गावोज नोकी ॥ टेक ॥ पहेले पदे अरिहंत
 नमोजे, दरिशाण देखीने दुःख वमोजे ॥ ज० १ ॥
 वोजे पदे श्रीसिद्ध सहाई; गुण गावो तुमे मिलकर
 जाई ॥ ज० २ ॥ त्रीजे पदे आचारज अवधारी, श्री
 जिन शामन उन्नतिकारी ॥ ज० ३ ॥ चौथे पदे उव
 जाय धरीजे, कर्म मेल सब दूर करीजे ॥ ज० ४ ॥
 पंचम पदे शुद्ध साधु गणोजे, ज्यु नव साह्यरके
 दूख ठोजे ॥ ज० ५ ॥ षष्ठे पदे दरिशाण दूख
 वारु, समकित गुण शुद्ध ध्यानमें धारु ॥ ज० ६ ॥
 सतम् पदे गुण ज्ञानना गाया, निश्चल चित्त
 योगीश्वर पाया ॥ ज० ७ ॥ अष्टम् पदे चित्त चारित्र
 धारो. काम कटाग्रह मोह निवारो ॥ ज० ८ ॥ नवमें
 पदे तप ध्यान धरीजे, अजर अमर जीव सूख
 दगेजे ॥ ज० ९ ॥ जे नर सिद्ध धरु गुण गावे,
 किनि कमला वरि मेरु सिवावे ॥ ज० १० ॥

कलश-मुनी मुख मंगल कलश मजानो, ज्यो
 नारति नारे खजानो ॥ मु० टेक ॥ किर्तिकमला
 ग्रंथ तिन सत पृष्ठनो, कोण कहे एने नानो ? एक-
 सत चोराशा काव्य दोहन केरूं, पान करो मारूं
 मानो ! मु० १ ॥ चैत्यवंदन चौत्रीस जणी जला, स्तवन
 पचास प्रमानो, स्तुति शिखी चौत्रीस-सजायो,
 पंच चालोस पीठानो ॥ मु० २ ॥ गुणवंत गुहली बार
 गणी-घार, ठंड रसीक जो जानो, चौपद आरति
 एक अनोपम, अष्ट जेदे जणे दानो ॥ मु० ३ ॥ द्रष्टी
 दोषे जूड्यो मींडी के मात्रा, रस्व दीर्घकांतो कानो,
 साफ दिले मागुं माफ पढी केम ? धणी नफाके
 त्रोटानो ? ॥ मु० ४ ॥ सूरी राजेंड समा धन्य
 मुनिवर, रूची प्रमोदे पीछानो, किर्ति चंड अने
 केशर विजय सम, लेख लड्डु नथी छानो मु० ५
 ॥ आश्रय आपनार अमरनामनी यादी ॥

जालोर ५०१ शा. लालचंदजी हीराचंदजी ॥ २५
 श्रीजटारकजी श्रांजेरचंदजी ॥ २५ शा. लालचंदजी

सुलतानमलजी ॥ २५ शा. मुनीलालजी खीम-

चंदजी॥ २० गांधी गेनमलजी लक्ष्मिचंदजी ॥

१५ शा जवानमलजी नरसिंगजी ॥१५ संखलेचा

गुणेशमलजीनीवहु चुनी॥१५शा.चंदणमलनीवहु॥

११ शा. ठोगालालजी सवनाथजी ॥ १० गांधी

त्रीकमदासजी हीराचंदजी॥ १० कानुंगा जोरा-

वरमलजी सोनमलजी॥ १० शा. प्रेमचंदजी

जगवानजी॥ १० शा नथमलजी दलीचंदजी॥ १०

सोलंकीसुखराजजीनीवहुपेंपा॥५मुता ठोगालाल-

जी शेषमलजी॥ ५ मुत्ता नथमलजी मेघराजजी॥

तखतगढ-१५ शा. नवलाजी पेमाजी ॥ १५

शा. मोतीजी उमाजी॥ २५ वाइ मीरां॥ १५ वाइ

रुपी॥ ११ वाइनवी॥ ११ वाइ ठबु॥ ५ वाइ सदी.

आहोर-१५ शा. फोजमलजी पन्नालालजी ॥

१०शा.गोमीदासजीनथाजी१०शा.वालाजीउमाजी

घरली-१०१ शा. जोरजीउमाजी. २५ वाइसोनी.

३१श्रीसीयाणाना संघतरफथी-(ग्रंथ समाप्त.)

श्री कर्त्तव्यं जैन पाठशाला.



मारवाड-जालोरगढ.

जो तमारे जैन पुस्तको-
रसिक रचाववा होय. सुंदर छपाववा होय
अने सामटा अगर छूटक खरिदवा होय तो
लखो पत्र.

शाह. लखुनाई वल्यमदास.

झवेगवाडा
नाशापोल

गजगान
अमदावाद.

॥ यह ग्रंथकी अनुक्रमणिका. ॥ २८९

ग्रंथकर्त्तानो हेवाल	१	राणकपुरचैत्यवंदन	१८
बीजनुं चैत्यवंदन	५	गोल आदिजिनचैत्य	१८
पंचमो चैत्यवंदन	६	वासुपुज्य चैत्यवंदन	१९
अष्टमी चैत्यवंदन	६	शांतीजिन चैत्यव०	१९
एकादशी चैत्यवंदन	७	अजितशांती चैत्यवं.	२०
चतुर्दशी चैत्य वंदन	८	शांतीजिनचैत्यवंदन	२०
रोहिणी चैत्यवंदन	९	पार्श्वजिनचैत्यवंदन	२१
पर्युषण चैत्यवंदन	१०	जालोरपार्श्वजिन चै.	२२
दीप्तस्थानक चैत्यव.	११	आहोरपार्श्वजिन चै०	२२
नवपद चैत्य वंदन	१२	जैसवाड़ा जिनचैत्य.	२३
पचतिथि चैत्यवंदन	१३	जालोर जिनचैत्यवं.	२३
मंधरजिनचैत्यवंदन	१४	चाणोदजिनचैत्यवंद.	२४
बीसवहरमानचैत्यवं	१४	वरकाणाजिनचैत्यवं	२४
मंधरजिनचैत्यवंदन	१५	जिन्नमालजिनचैत्यवं	२५
मंधरजिनचैत्यवंदन	१६	आहोरजिन चैत्यवंद.	२६
त्रिमलाचलचैत्यवंद	१७	महाविरजिनचैत्यवंद.	२६
ऋषभजिनचैत्यवंद	१८	जिनदर्शनफलचैत्यवं	२६

चतुर्विंशतिजिनचै.	२८	गोडीपार्श्वजिनस्तव.	५२
पार्श्व जिन स्तवन	३६	शांतीजिन स्तवन	५३
चौमुखजिनस्तवन	३७	शांती जिन स्तवन	५५
मंधरजिन स्तवन	३८	आदि जिन स्तवन	६१
पार्श्वजिन स्तवन	३९	आदिजिनविन्तीस्त.	६९
मंधर जिन स्तवन	४०	समकितशुद्धि स्तवन	७२
आदि जिन स्तवन	४१	नेमीजिन स्तवन	७३
सिद्धाचलजिनस्तवन	४३	वीर जिन स्तवन	७४
सुविधी जिन स्तवन	४३	पार्श्व जिन स्तवन	७६
आदि जिन स्तवन	४४	पार्श्व जिन स्तवन	७७
आदि जिन स्तवन	४५	पार्श्व जिन स्तवन	७९
पार्श्व जिन स्तवन	४६	सत्रुंजयजिनस्तवन	८१
आदि जिन स्तवन	४७	मौनएकादशी स्तवन	८२
पार्श्व जिन स्तवन	४८	सिद्धचक्रजिन स्तवन	८६
वासुपुज्यजिनस्तव	४९	नवपदजिन स्तवन	८९
चौविसजिनस्तवन	५१	जिनपूजाविधी स्तव	९१
चौविसजिन स्तवन	५१	आलोचना स्तवन	९२

मंधरजिन स्तवन	ए७	युगमंधरजिनस्तवन	१५७
जिनपूजाविधीस्त.	एए	शांति जिन स्तुति	१५८
पार्श्वजिनदशज्ञव	१०३	रोहिणीतप स्तुति	१५ए
वीरजिन स्तवन	१०५	शांति जिन स्तुति	१५९
नेमि जिन स्तवन	१०६	सीमंधरजिन स्तुति	१३१
सुविधीजिनस्तवन	१०७	सोवनगढजिनस्तुति	१३१
सीतलजिनस्तवन	१०८	सिद्धगीरीजिनस्तुति	१३२
व्यतुरविंसति जिन	१०८	प्रतिपदातिथी स्तुति	१३२
पंचतिर्थजिनस्तव	११४	बीज तीथी स्तुति	१३४
सत्रुंजय तिर्थ स्त.	११६	सीमंधरजिन स्तुति	१३४
राणकपूर स्तवन	११८	विमलगीरी स्तुति	१३५
नेमिजिन स्तवन	१२१	चतुर्थी तीथी स्तुति	१३६
पार्श्वजिन स्तवन	१२२	पंचमीतीथी स्तुति	१३६
सीतलजिन स्तवन	१२३	पंचमी तीथी स्तुति	१३७
मंधरजिन स्तवन	१२४	अष्टमीतीथी स्तुति	१३८
मंधरजिन स्तवन	१२४	अष्टमीतीथी स्तुति	१३ए
मंधरजिन स्तवन	१२६	सिद्धगीरीगीरनारस्तु	१४०

शंखेश्वरजिनस्तु.	१४०	सिद्धचक्रजिनस्तुति	१५९
पार्श्वजिन स्तुति	१४२	श्रेणिकराजानीसजा	१६१
मौनएकादशीस्तु	१४३	बाध्मासनीसजाय	१६६
पार्श्वजिन स्तुति	१४४	पन्नरतिथिनीसजाय	१६७
नेमिजिन स्तुति	१४५	सातवारनी सजाय	१६९
गिरनं.रजिनस्तुति	१४६	जंबुस्वामीनीसजा.	१७०
मौनएकादशीस्तु	१४७	चेलणाराणोनीसजा.	१७३
शांतिजिन स्तुति	१४९	गौतमाष्टक सजाय	१७६
वीरनिर्वाण स्तुति	१४९	आतमगुणाचिंतनस.	१७७
वीरजिन स्तुति	१५०	आतमप्रतिबोधसजा	१७७
दीपमालिकास्तु	१५१	नवकारनी सजाय	१७०
मंधरजिन स्तुति	१५३	आतमप्रबोध सजाय	१७१
सिद्धगीरीनोस्तुति	१५४	पंचमीतपनीसजाय	१७४
पार्श्वजिन स्तुति	१५५	असजायनिवारकस	१८५
पञ्चषणपर्वस्तुति	१५६	नीडानिवारकसजा	१८७
सिद्धचक्रजिनस्तु.	१५७	उपदेशनी सजाय	१८९
सिद्धचक्रजिनस्तु.	१५७	सद्गुरुसदूपदेशस.	१९०

- सर्वार्थमिदं नो सजा १ ए७ धन्नाकाकंदी नो सजा ११०
 कर्कशा नारी नो स० १ ए४ सामायि रुद्रोपसजा १११
 धन्नाशालो ज्ञ ३ स० १ १५ विणजारा नीमजाय ११३
 नेमराजूल सजाय १ ए६ शिष्यलनववामसजा २१४
 दशदृष्टांत सजाय १ ए७ शिष्यलनवंवामरुजा ११६
 तेरकाठीयानी स० २०३ केशीगौतमसजाय १२ ए
 सोगठावाजीसजा २०६ पस्कीखामणासजा २३१
 समक्रीतनीसजाय २०७ रहेनेमीनी सजाय २३३
 धीजीवामनीसजा १०८ राजूल रहेनेमी स० २३५
 पांचमीवामनीस० २०९ धेनुतुलगी सजाय १३७
 क्रोधनी सजाय ० २१० धन्नाजीनी सजाय २३९
 माननी सजाय २११ नंदोपेणनीसजाय २४०
 मायानी सजाय ११३ गुहली, सखीश्राज २४५
 मुनीगुण सजाय २१४ गु. १ सद्दियां चालो १४५
 तेरकाठीयानीस० २१४ गु० ३ सुविहित २४७
 नवकारवालीनीस. २१७ गु० ४ श्रीगुरुचरण १४८
 नेमराजूल सजाय २१८ गु० ५ सुविहितमुनी १४९

- गु०६ सखीवीरजिएं २४९ वरकाणा पार्श्व ठंड २७९
 गु०७ धर्म शूलो २५१ श्रद्धाडुर्लक्षप्रमोदपद २७१
 गु०८ श्रीशंखेश्वर २५१ सदगुरु समरण पद २७२
 गु०९ गुरुसूत्रसिधां. २५३ आनंदघनआतमपद २७३
 गु०१० चंपानगरी २५५ प्र.तःमांगलिक पद २७४
 गु०११ सजनीएरूडा २५६ नवपदजीनीआरती २७५
 गु०१२ ज्ञानादीक २५७ श्रीमंगल कलश २७६
 देशावरीपार्श्व ठंड २५८ अम्मर नामनी यादी २७६
 अंतरिक्षपार्श्व ठंड २६७ किर्त्तिचंडपाठशाला २७७
 अष्टनयनिवारक ठंड २७४ पंचतिथि प्रश्नोत्तर २९६

॥ शुद्धिपत्रक ॥

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्ध	शुद्ध	
	८	११	जवन्य	जवन्य	१२७	७	जन्या	जन्म्या
१७	५	छंडाय	छंडाय	१४५	११	खजूरा	खजूरा	
२२	३	पूरे	पूरे	१५१	१३	वजार	वजीर	
२९	१५	त्रिभू	त्रिभू	१५२	९	छत्तास	छत्तीस	
३६	१२	अअश्व	अश्व	१५४	१०	पालं	पाले	
४०	१६	चारित्र	चारित्र	१५५	१६	पूरे	पूरे	
४३	१५	चंद्र	चंद्र	१५६	१३	गीर	गीत	

४१	७	दूरे	दूरे	१५६	१४	करा	करो
४८	८	भेटता	भेटतां	१५६	१४	जिन	जिम
४९	१३	त्रीकण	त्रीकर्ण	१५६	१६	पूर	पूरे
५३	२	सघला	सघली	१६०	१२	उपग	उपांग
५४	९	तियच	तिर्यच	१७०	१५	जोडीनरे	जोडीनरे
५९	७	वाधन	वाधन	१७१	१२	नर	नर
६६	१०	मृफ्यो	मृफ्यो	१७३	१	चलणा	चेलणा
७१	१०	अविपय	अतिविपय	१७८	१	वाध्यां	वाध्यां
७१	११	विडव्यो	विडव्या	१८०	७	सयम	सयमरस
७३	११	दखण	देखण	१९१	२	वाग	वागा
७९	४	प्रीत्य	प्रीत्ये	१९२	७	भूकीये	मूकीये
७९	१६	सृतां	सृता	१९३	७	काल	काले
९५	६	वहु	वहु	१९३	१३	जाण	जाणे
९७	६३	प्रभुजा	प्रभुजी	१९३	३	लेश	लेशे
१०५	६	हा	हो	२००	११	दोहिला	दोहेलो
१०५	१६	प्रभ	प्रभु	२०२	१३	तापिण	तोपिण
१०८	१०	घुघट	घुघट	२११	१२	मम	मर्म
१०९	२	नमा	नमो	२१७	९	सगवास	सगवांस
१०८	४	न	न	२२१	१	दश	देश
११२	१४	जनजी	जिनजी	२२८	१२	भुयथी	मुसथी
११८	२	पृजियो	पूजियो	२४५	७	उतार	उतारे
१२५	१६	अवधारो	अवधारो	२६४	८	पत्रक	पात्रक

जैन पूतको वनावनार छपावनार वेचनार—
 लल्लुभाई चट्टमदास झवेरीवाडा-नीशापोल अमदावाद
 (बेलघु पेरलथी पुस्तको मोकलीशु)

॥ पंचतिथि प्रश्नोत्तर. ॥

आधो व्हेनी जात्रा करी क्यारे आव्यारे ? केवी मरू-
 धर माहेती लाव्या ? आवो० ॥ शुणो व्हेनी जात्रा करी
 वाज आव्यारे, मोटी मरूधर माहेती लाव्या ॥ शुणो० ॥
 पंचतिथि प्रित्येथी जूहारी रे, जोया शहेर नाना मोटा भारी
 रे; जाउं जालोरनी बलिहारी ॥ शु०१ ॥ केवां ! किल्लामां
 विवो कराव्यारे, भूप कुमारपाले भराव्यार, हेमाचार्य कर्या
 चैत्य चावा ॥ शु०२ ॥ वांदी शंहरनां चैत्य रूपालार, गया
 किर्तिचंद्र पाठशालारे; मुनी केशर गुणमणीमाला ॥ शु०३ ॥
 किर्तिचंद्रामिमान शुणाव्यारे, सहु श्रोताने आनंद आव्या र;
 व्हेनी लावत ! होत छपाव्या ॥ शु०४ ॥ पेख्या पूर्ण पावत्र
 गाराणीरे, साथे त्रैविरा शिष्यणी शाणीरे; भेटया भाव
 अधिक मन आणी ॥ शु०५ ॥ वडी बल्लभ चंपाने कांभारे,
 परिव्रज्या पुनम दन दीधीरे; वान लक्षमां लाधुण लीवा
 ॥ शु०६ ॥ अती ओपे उत्तम कुल एनारे, व्हेनी चरित्र ल-
 खावे जो तेनारे; धाय पुस्तको प्रगट मजेनां ! ॥ शु०७ ॥
 जोई श्रद्धा गोरूजीनी सारीरे, चुनीलाल गणु गुणकारीर;
 कर्यु अमने आमंत्रण भारी ! ॥ शु०८ ॥ पछी देखाडी प्रीत्येथी
 छत्रीरे, लेशे दीक्षा गुलाबजी क्षत्रीरे; व्हेनी आवशे कुंकुम
 पत्रो ! ॥ शु०९ ॥ त्यांथी आव्या अमेतो सियाणेरे, वांदी
 काणोदरे जीन व्हाणेरे; गया देलदरे शुभ टाणे ॥ शु०१० ॥
 आवे जात्रालु जे नरनारीरे, करे भक्ति भवुतमल भारीरे;
 शोभा भीमा कपुरचंद सारी ॥ शु०११ ॥ फरी मंडवारिये रथ
 फेरयोरे, भाख्यो रूपाजी भाव भलेरोरे, देख्यो वाग देवीचंद
 केरो ! ॥ शु०१२ ॥ व्हेनी बलदुदनी बलिहारीरे, जीनमंदीर
 ज्यां जयकारीरे; भाख्या हकमाजी हों सीलाभारी ॥ शु०१३ ॥
 संघ राजसंघ जावालथी आजे आव्यारे ! सखी संक्षेप सार
 शुणाव्यारे ! लल्लु लेखणे लेख लखाव्यो ॥ शु० ॥ १४ ॥ (सपूर्णम् .)

